


ARBIT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com



The Tool-Less Artisans and No Respect Either

In The Times newspaper of the 20th March 1891 will be found an interesting account of a shield, called the Ramayana shield, then just completed, the work of the premier Jeypore state workman, Ganga Baksh, Khati

Sleep Better in Winter

How to keep yourself warm in bed is not only comfort, but has a lot to do with the quality of sleep.

## ‘केन्द्रीय सरकार ने रक्षा मंत्रालय के कायदे-कानून में तब्दीली की, अडानी ग्रुप सौर प्लांट के लिये’

सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के “सिविल कंस्ट्रक्शन” की इजाजत नहीं होती है, बॉर्डर पर टैंक आदि मशीनों को “फ्री मूवमेंट” की सुविधा देने के लिये

—डॉ. सतीश मिश्रा—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 12 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विवादास्पद अडानी समूह के निकट सम्बंधों का एक और खुलासा हुआ है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने गौतम अडानी के विश्व के सबसे बड़े नवीकरणीय एनर्जी पार्क को मंजूरी देने के लिए रक्षा प्रोटोकॉल में ढील दी है। यह पार्क गुजरात के खावदा में बन रहा है जहां कच्छ के रन में भारत-पाक सीमा के एक किलोमीटर दायरे में सोलर पैनल और विंड टरबाइन लगाए जाएंगे।  
प्रोटोकॉल में छेड़छाड़ से अन्य देश जैसे चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान व म्यांमार के लिए भी सीमा पर ऐसे निर्माण करने का रास्ता साफ हो जाएगा।  
रक्षा विशेषज्ञों का सवाल है कि “क्या एक बिजनेस ग्रुप का हित राष्ट्रीय सुरक्षा से भी बड़ा है?” वे कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा समझौता पहली बार किया गया है।  
नीति में परिवर्तन से यह सवाल उठ

पर, जब अडानी ग्रुप को खावदा (गुजरात) में 445 वर्ग किलोमीटर भूमि, सोलर व विंड एनर्जी प्लांट लगाने के लिये दी गई तो रक्षा मंत्रालय के कानून-कायदों में परिवर्तन करके, सीमा से एक किलोमीटर दूर ही “सिविल कंस्ट्रक्शन” की इजाजत दे दी गई।

यह खबर प्रमुखता से लंदन के जाने-माने अखबार “द गार्जियन” में छपी है तथा अखबार ने दावा किया है कि उसके पास पूरे कागजात व दस्तावेज मौजूद हैं, अपनी खबर की सत्यता प्रमाणित करने के लिये।

अखबार ने यह भी दावा किया है कि पहले खावदा में 230 वर्ग किलोमीटर भूमि, राज्य सरकार की कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन को सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के लिये “लीज” पर दी गई थी। पर, मई 2023 में सरकार की कॉर्पोरेशन को आदेश देकर यह भूमि वापस ली गई तथा जुलाई 2023 को यह भूमि अडानी ग्रुप को दी गई।

अडानी ग्रुप ने इस प्लांट में पैदा करने एनर्जी को राज्य सरकारों को बहुत भारी दामों पर बेचने के लिये अनुबंध किये तथा अमेरिकी सरकार द्वारा अडानी ग्रुप पर भारी रिश्वत देने का अभियोग पत्र दाखिल किया, सोलर एनर्जी को भारी दामों पर राज्य सरकारों को बेचने के लिये।

रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से कोई हमला होता है, जैसा पहले हो चुका है, तो भारत इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां कैसे संचालित करेगा।

कच्छ का 44.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र गुजरात सरकार ने अडानी की कम्पनी को लीज पर दिया है। गार्जियन का दावा है कि उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे रक्षा मंत्रालय द्वारा सिविल प्रोटोकॉल के संशोधन का पता चलता है ताकि अडानी के प्रोजेक्ट को मदद दी जा सके। अडानी की प्रधानमंत्री मोदी से निकटता को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी अक्सर निशाना साधते हैं।

पाकिस्तान सीमा पर 10 किलोमीटर दायरे में, जो गांव और सड़कें हैं, उनके अलावा कोई अन्य निर्माण करने की अनुमति नहीं है। गुजरात से लेकर जम्मू-कश्मीर के बीच भारत और पाकिस्तान के 3,323 किलोमीटर लम्बा बॉर्डर साझा करते हैं।

गार्जियन के अनुसार दस्तावेज दिखाते हैं कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढील देने के लिए भाजपा ने उच्चतम स्तर पर (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

## प्रणव मुखर्जी के पुत्र अभिजीत कांग्रेस में लौटे

—जाल खंबाता—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 12 फरवरी। भारत के राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी चार साल तृणमूल कांग्रेस में रहने के बाद बुधवार को कांग्रेस में पुनः शामिल हो गए।

पूर्व लोकसभा सदस्य को पार्टी के राज्य मुख्यालय में कांग्रेस सदस्यता दी गई। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी गुलाम अहमद मीर वहाँ मौजूद थे।

कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए अभिजीत ने कहा चार साल पहले कांग्रेस छोड़कर गलती की थी।

सन् 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के अपने फैसले पर खेद व्यक्त करते हुए मुखर्जी ने कहा, “मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, कांग्रेस छोड़ना सही नहीं था। यह कांग्रेस और राजनीति में मेरा दूसरा जन्मदिन है।”

यह दावा करते हुए कि देश की राजनीति में कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है, उन्होंने कहा, “केवल कांग्रेस ही सभी लोगों को साथ लेकर चलती है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या सम्प्रदाय का हो।” मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने पिछले साल जून में कांग्रेस में फिर से शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन विभिन्न राज्य चुनावों के कारण अब यह संभव हो सका है।

उन्होंने, जुलाई 2024 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के चार साल बाद कांग्रेस में वापसी की है।

## रिज़र्व बैंक को आशा है कि महंगाई नहीं बढ़ेगी

रिज़र्व बैंक ने इस आशा से ही ब्याज दर घटायी है, पर, क्या यह आकलन एकदम सही है?

—अंजन राय—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 12 फरवरी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी हालिया मौद्रिक नीति में, केन्द्रीय बजट के तुरंत बाद ब्याज दरों में थोड़ी कमी की है। ब्याज दर 6.50 से 6.25 प्रतिशत कर दी गई है।

यह कोई भारी कमी नहीं है। लेकिन इससे एक उम्मीद और मानसिकता बनती है। खासकर क्योंकि यह पांच सालों में पहली कटौती है। तीन मुख्य प्रश्न जो सामने आए, वो थे, क्या ब्याज दर को और कम किया जाएगा, कीमतों को क्या दिशा मिलनी चाहिए, और क्या अर्थव्यवस्था मजबूत गति से बढ़ती रहेगी।

रिज़र्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जवाब दिया कि भविष्य में बैंक ब्याज दरों पर फैसला उस डेटा के आधार पर करेगा जो आने वाले समय में मिलेगा और जिस तरह से अर्थव्यवस्था व्यवहार करेगी। तो सवाल यह है कि अब से लेकर मॉन्टरो पॉलिसी कमेटी की अगली बैठक तक अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हो सकता है?

गवर्नर के बयान से ऐसा लगता है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि कीमतें स्थिर रहेंगी। क्या यह अनुमान वाजिब और युक्तिसंगत है? खाद्य पदार्थों की कीमतों को छोड़कर, मूल्य वृद्धि काफी हद तक कम रही है। सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं और इसकी उम्मीद कम है कि इन कीमतों में स्थिरता आएगी।

उदाहरण के लिये, फल व सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, सर्दियों में भी।

आय में बढ़ोतरी होने से फल व सब्जियों की खपत बढ़ी है, पर, इन दोनों का उत्पादन इस अनुपात में नहीं बढ़ा है और न ही फल-सब्जियों को खाने के ढंग पर शीघ्रतम समय में पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई है।

ऑयल (पेट्रोलियम) के दामों में भी गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वित्त मंत्री ने इन्फ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि में भारी राशि लगाई है, पर, अभी भी प्राइवेट सैक्टर, औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिये मशीनों आदि की क्षमता नहीं बढ़ा रहे। शायद उनको अभी पूर्ण विश्वास नहीं है कि डिमांड बढ़ेगी और डिमांड की पूर्ति के लिये वो अपनी फैक्ट्रियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाए।

पर, वित्त मंत्री की यह आशा की कंज्यूमर गुड्स की खपत बढ़ेगी, आधारहीन नहीं। इन्फ्रास्ट्रक्चर में सरकार द्वारा पूँजी लगाने से तथा बजट में, मध्यम वर्ग के हाथों में इन्कम टैक्स घटाकर ज्यादा पैसे पहुँचाने का कुछ न कुछ अच्छा असर तो होगा ही।

यह मुख्यतः इसलिए है क्योंकि फल और सब्जियों की मांग बढ़ रही है, क्योंकि, आय में सुधार हो रहा है। बढ़ती आय के साथ, पैरिशेबल आइटम्स (जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं) का उत्पादन उतना नहीं बढ़ा है। इसके अलावा इन वस्तुओं के उचित परिवहन के लिए फसल के बाद की सुविधाओं में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है, (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

## संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना में राजस्थान को 4102 एमसीएम पानी मिलेगा

केन्द्रीय जल शक्ति सचिव ने राजस्थान व मध्य प्रदेश को, संशोधनों को समाहित कर डीपीआर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये

जयपुर, 12 फरवरी। संशोधित पीकेसी (पार्वती-कालीसिंध-चम्बल) लिंक परियोजना की डीपीआर को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय की सचिव श्रीमती देवाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में अधिकारियों की अहम बैठक हुई।

इसमें राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय जल विकास अधिकरण को प्रस्तुत डीपीआर पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सचिव जल शक्ति मंत्रालय ने दोनों राज्यों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यक संशोधनों को समाहित करते हुए आगामी 15 दिवस में डीपीआर प्रस्तुत करें।

परियोजना में राजस्थान को कुल 4102 एमसीएम जल उपलब्ध होगा। इसमें 522.80 एमसीएम पुनर्चक्रित

## अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास का निधन

लखनऊ, 12 फरवरी। अयोध्या में रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। बुधवार सुबह 7 बजे लखनऊ पीजीआई में उन्होंने आखिरी सांस ली। 3 फरवरी को ब्रेन हेमरेज के बाद उनको अयोध्या से लखनऊ रैफर किया गया था।

पीजीआई निदेशक डॉक्टर

■ प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने शोक जताया।

आर.के. धीमान ने बताया, डॉक्टरों की निगरानी में लगातार उनका इलाज चल रहा था। ब्रेन स्ट्रोक के अलावा सत्येन्द्र दास को कई अन्य बीमारियां भी थीं। काफी प्रयास के बावजूद उनका जान नहीं बचाई जा सकी।

आचार्य सत्येन्द्र दास का पार्थिव शरीर अयोध्या के सत्य धाम गोपाल मंदिर आश्रम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। आचार्य सत्येन्द्र दास के (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

■ पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना को अंतिम रूप देने के लिये हुई बैठक में राजस्थान के लिये 4102 एमसीएम जल निर्धारण किया गया। राजस्थान के हिस्से के जल का, पेयजल, उद्योगों, नये सिंचित क्षेत्र, पूर्व निर्मित बाँधों में जल अपवर्तन, भूजल पुनर्भरण तथा खराब मानसून के समय पेयजल उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न मात्रा में जल निर्धारण तय किया गया।

जल शामिल है। कुल 4102 एमसीएम जल में से 1744 एमसीएम पेयजल, 205.75 एमसीएम उद्योगों, 1159.38 एमसीएम जल नए सिंचित क्षेत्र, 615.43 एमसीएम जल पूर्व निर्मित बाँधों में जल अपवर्तन के लिए, 108 एमसीएम जल भू-जल पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जा सकेगा। शेष 270 एमसीएम जल का उपयोग खराब मानसून के समय में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं डीपीआर के अनुसार अन्य विकास कार्यों में उपयोग में लिया जा सकेगा।

## मुम्बई में जी.बी.एस. संक्रमण से पहली मौत

मुंबई, 12 फरवरी। महाराष्ट्र में गुलियन-बेरी सिंड्रोम (जीबीएस) के संदिग्ध मरीजों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। वहीं, मुंबई में इस बीमारी से पहली मौत के साथ ही राज्य में एक महीने में जीबीएस से संदिग्ध तौर पर 8 लोगों की जान जा चुकी है। पुणे में जीबीएस के सबसे ज्यादा मरीज हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार पुणे क्षेत्र में जीबीएस के संदिग्ध

■ महाराष्ट्र में इस संक्रमण से 8 मरीज मर चुके हैं। संक्रमितों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है।

और पुष्ट किए गए मामलों की संख्या 203 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की एक विज्ञापन में कहा गया है कि 203 मामलों में से 176 में जीबीएस का इलाज किया जा रहा है। इसमें से 52 मरीज आईसीयू में हैं, तथा 20 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। पुणे महानगरपालिका क्षेत्र में 41, ग्रामीण इलाकों से आए 94 मरीजों के अलावा पुणे ग्रामीण क्षेत्र के 31 सहित अन्य जिले के 8 मरीजों का अस्पतालों में जीबीएस का उपचार चल रहा है।

## बंगलौर की मैट्रो का किराया दोगुना हुआ

भाजपा व कांग्रेस, दोनों इस वृद्धि के लिये एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटी हैं

—लक्ष्मण देवकुची—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 12 फरवरी। बेंगलूरु मैट्रो के किराए में भारी वृद्धि के सिद्धारमैया सरकार की छवि और बेंगलूरु की जनता के बीच सरकार की लोकप्रियता को भारी नुकसान पहुंचाया है, जो मैट्रो किराया वृद्धि पर नाराज है। इसे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के लिए बहुत बुरा प्रचारक ही जा रहा है।

भाजपा के लिए, यह दृश्य आदर्श है। भाजपा ने कांग्रेस सरकार को एक जनविरोधी और लापरवाह संस्था के रूप में पेश करने में कोई समय नहीं गंवाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सभी सावधानियों और अर्थशास्त्र को नजरअंदाज कर राज्य को उस स्थिति में पहुंचा दिया, जहां आम लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

यह कथानक कांग्रेस पर चिपक रहा है और सरकार बैकफुट पर है, सरकार जो बचाव पेश कर रही है उस पर लोग विश्वास करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, भले ही यह तथ्यों के आधार पर सही हो।

यह सही है, बेंगलूरु मैट्रो में किराया वृद्धि बहुत ज्यादा है, कुछ

■ भाजपा, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि सस्ती लोकप्रियता के लिये “रेवडिड्यॉ” बांटने के कारण राज्य सरकार ने “इकॉनमी” को तहस-नहस कर दिया है तथा आम आदमी से मैट्रो किराया वृद्धि जैसी स्कीमों से पैसा लूट कर, “रेवडिड्यॉ” बांटने के लिये पैसे इकट्ठे कर रही है और यहीं से मैट्रो का किराया दोगुना करने की दुर्खतिका की शुरुआत हुई है।

■ कांग्रेस का कहना है कि किराया वृद्धि में उसकी कोई भूमिका नहीं है। बेंगलूरु मैट्रो केन्द्रीय सरकार का प्रोजेक्ट है तथा भारत सरकार के नगरीय विकास सचिव इस प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं तथा सरकार और आफसरों से मिलजुल कर मैट्रो का किराया बढ़ाने का निर्णय लिया है।

■ यह भी सच है कि 2017 में जब मैट्रो का किराया निश्चित किया गया था तब मैट्रो 42.30 किलोमीटर चलती थी, पर, अब 175.55 किलोमीटर लंबा है, मैट्रो का नैटवर्क। अतः, किराया तो बढ़ना ही है।

मामलों में पहले से लगभग दोगुनी और स्वाभाविक रूप से, भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार को जमकर निशाने पर लिया है और कहा है कि राज्य सरकार लोगों को हर तरीके से लूट रही थी ताकि अपनी

वृद्धि जो दो दिन पहले लागू हुई थी, में राज्य सरकार की बिल्कुल भी कोई भूमिका नहीं थी। किराया वृद्धि केंद्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे मैट्रो कॉर्पोरेशन द्वारा तय और लागू की गई थी। रेड्डी ने कहा कि भाजपा हमेशा किसी भी चीज का श्रेय लेने में सबसे आगे रहती है, लेकिन जब दोष लेने का समय आता है तो वे दूसरे पर डाल देती हैं।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह बात शुरू की, उन्होंने कहा कि बेंगलूरु मैट्रो केंद्र, राज्य सरकार और मैट्रो कॉर्पोरेशन का संयुक्त ऑपरेशन है और इसके सी.ई.ओ. केंद्रीय शहरी विकास सचिव भी हैं और किराए में वृद्धि का निर्णय उन अधिकारियों द्वारा लिया गया था, जिन पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण है।

सिद्धारमैया ने भाजपा नेताओं के खिलाफ अभियान छेड़ा और कहा भाजपा नेता हमेशा मैट्रो परियोजना का श्रेय लेने में आगे रहते हैं और किराया वृद्धि पर सार्वजनिक आक्रोश होने पर कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं। भाजपी नेता झूठ व आधा सच फैला रहे हैं ताकि 5 साल बाद हुई किराया वृद्धि पर तथ्यों को तोड़मरोड़ सकें। (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

वोट-बटोरने वाली मुफ्त योजनाओं के लिए धन जुटा सके। भाजपा की आलोचना का जवाब देते हुए, राज्य के परिवहन मंत्री रामलिंग रेड्डी ने कहा कि मैट्रो किराया

## ‘फोन टैपिंग आज की हो या पहले की, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए’

पायलट ने कहा, आरपीएससी पर हाई कोर्ट की टिप्पणी बहुत कुछ बयां कर रही है

जयपुर, 12 फरवरी। राजस्थान में फोन टैपिंग के मुद्दे पर छिड़े सियासी घमासान के बीच जहां डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा की ओर से मिले नोटिस का जवाब देते हुए अपनी गलती मान ली है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने कहा है कि यह कोई छोटा-मोटा मुद्दा नहीं है। यह गंभीर अपराध है। विशेष रूप से जब मंत्री खुद कह रहे हैं कि उनका फोन टैप हो रहा है। पायलट ने कहा कि अगर कांग्रेस के लोग कहें तो आप कहोगे कि यह राजनीति से प्रेरित है। अब इस पर क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी घटना चाहे आज की हो या पहले की, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पायलट बोले, हर गलती सजा



कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने जयपुर में अपने आवास पर राजस्थान में फोन टैपिंग के मुद्दे पर मीडिया से वार्ता की।

■ उन्होंने कहा कि नये एमओयू में राजस्थान को पहले से कम पानी मिल रहा है। सरकार को विधानसभा में इस पर जवाब देना चाहिये।

■ समरावता की घटना पर पायलट ने कहा, “हमने पहले कहा था कि प्रशासनिक और पुलिस जाँच से सच सामने नहीं आयेगा, न्यायिक जाँच से ही पीड़ितों को न्याय मिल सकता है।”

मांगती है। कोई गलती करेगा तो सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस सरकार के समय लगे फोन टैपिंग के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सच सामने आ जाएगा। पायलट ने कहा कि सरकार के एक मंत्री हैं, जिन्होंने सार्वजनिक मंच पर आरोप लगाया कि उनका फोन टैप

हो रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि उनका फोन टैप हुआ है। उन पर उनका दल नोटिस देकर जवाब मांगने की कार्रवाई करता है। यह उनका अंदरूनी मामला है।

पायलट ने कहा कि हाईकोर्ट ने आरपीएससी को लेकर जो टिप्पणी की है, वह अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। आरपीएससी

नौजवानों का भविष्य तय करने वाली संस्था है। हमने पहले भी कहा है कि आरपीएससी की कार्यप्रणाली पूरी तरह से कम्प्रोमाइज़्ड हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इंदिराजी की को लेकर पहले राजस्थान को जितना पानी मिलना चाहिए था। अब सामने आया है कि नए एमओयू में उतना पानी नहीं मिल रहा है। इस पर भी सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि समरावता में हुई घटना के बाद हमने न्यायिक जांच की मांग की थी। हमने कहा था कि प्रशासनिक और पुलिस जाँच से सच सामने नहीं आएगा। न्यायिक जांच से ही पीड़ितों को न्याय मिल सकता है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि पीड़ितों के साथ न्याय हो।

## भाजपा ने दिल्ली की हारी हुई सीटों पर मंथन किया

नयी दिल्ली, 12 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को दिल्ली प्रदेश की बुधवार को चुनाव प्रबंध समितियों की समीक्षा बैठक हुयी, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया गया और हारी हुई विधानसभा सीटों का आकलन किया। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी प्रभारी

■ भाजपा की दिल्ली की चुनाव प्रबंध समितियों ने बैठक में चुनाव जीत के लिए कार्यकर्ताओं का आभार जताया गया।

बैजयंत जय पांडा की अध्यक्षता में हुयी इस बैठक पार्टी के सह प्रभारी अतुल गर्ग, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्लोचर, सांसद प्रवीण खंडेलवाल, सांसद सांसेंदु स्वराज, सांसद रामवीर सिंह बिधुडी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

## विचार बिन्दु

प्रत्येक कार्य अपने समय से होता है उसमें उतावली ठीक नहीं, जैसे पेड़ में कितना ही पानी डाला जाय पर फल वह अपने समय से ही देता है। -वृंद

## मोदी ने मन की बात में हौसला अफजाई के साथ अध्यापकों और पैरेंट्स को दिया संदेश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात के 8वें संस्करण में बच्चों की हौसला बढ़ाने के साथ ही अध्यापकों और अभिभावकों को भी स्पष्ट संदेश दिया है। आज आवश्यकता बालक मन को समझने, उसकी प्रतिभा को निखारने, प्रसिध्दा के स्थान पर क्रियेटिविटी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। बच्चों में परीक्षा के नाम से भय ना होकर उत्साह और सकारात्मक सोच होना चाहिए। इन्हें बालक को पाने की चाह होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर परीक्षाओं से पहले देश के परीक्षार्थी बच्चों, अध्यापकों और अभिभावकों से मन की बात के माध्यम से संवाद कायम कर मोटिवेट करने की बड़ी पहल की है। मन की बात में परीक्षा पर चर्चा के आठवें संस्करण का महत्व इसलिए महत्वपूर्ण और सामयिक हो जाता है कि आने वाले दिनों में सीबीएसई और राज्यों के बोर्डों की परीक्षाएं होने जा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री की संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था और इसके साइड इफेक्ट को समझते हुए संवाद कायम करना अपने आप में महत्व रखता है। देश के लगभग सभी कॉनों से तनाव, शिक्षकों और अभिभावकों की अतिमहत्वाकांक्षा के चलते बच्चों द्वारा डिप्रेशन में जाने और अपनी जीवन लीला समाप्त करने के समाचार आम होते जा रहे हैं। हांलाकि शिक्षा नगरी कोटा बच्चों की आत्महत्या के लिए बदनाम हो गया है पर कोटा से अधिक आत्महत्याएं देश के अन्य हिस्सों में भी हो रही हैं। हांलाकि कोचिंग हब कोटा को आत्महत्याओं के दाग को धोने के लिए सार्थक प्रयास करने होंगे। खैर यह विषयांतर होगा। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक जिम्मेदार अभिभावक की भूमिका निभाते हुये ना केवल परीक्षार्थियों की हौसला अफजाई की है अपितु अध्यापकों और पैरेंट्स को भी स्पष्ट संदेश दिया है।

इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि बच्चों के कोमल मन को प्रतिस्पर्धा के बोझ तले दबाने में आज घर, परिवार, समाज, शिक्षा केन्द्र और सोशियल मीडिया प्रमुखता से नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ नहीं शिक्षा व्यवस्था में भी यह किस तरह का बदलाव है कि 20-21वीं सदी में दसवीं पास करना बड़ी बात माना जाता था तो परीक्षा देने वाले लाखों बच्चों में से फर्स्ट डिविजन कुछ हजार तक ही रहते थे उसके बाद लगभग दोगुने द्वितीय श्रेणी में व बाकी तीसरी डिविजन में संतोष कर लेते थे। आज हालात यह हैं कि परीक्षा देने वाले अधिकांश बच्चों के मार्क्स तो 90 प्रतिशत या इससे अधिक ही होते हैं। 80 से 90 प्रतिशत तक उससे कम और उनसे भी कम बच्चों इससे कम प्रतिशत में होते हैं। यहाँ सवाल परीक्षा प्रणाली को लेकर हो जाता है तो दूसरी और प्रतिस्पर्धा की यह खिचड़ी 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले बच्चों और खासतौर से उनके पैरेंट्स में होने लगी है। अब तो हो यह गया है कि पैरेंट्स की प्रतिष्ठा के लिए बच्चों की बली चढ़ाई जाने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सही ही कहा है कि क्रूरक के प्रेशर की तरह बच्चों को प्रेशर में रखना ही अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका में आ गया है। अब अभिभावक दिशा देने वाले के स्थान पर अपनी कुंठा को बच्चों से पूरा करने में जुटे हैं। यह वास्तविकता है। बच्चों की लगन किसी और दिशा में होती है और उससे अपेक्षा कुछ और करने या बनाने की होने लगती है। कुछ बच्चों का कोमल मन यह प्रेशर सहन नहीं कर पाता है और डिप्रेशन या मौत को गले लगा लेते हैं और फिर पैरेंट्स आंसू पछूते रह जाते हैं।

परीक्षा पर चर्चा की अच्छी बात यह है कि देश के 3.30 करोड़ बच्चों, 20 लाख शिक्षकों और साढ़े पांच लाख से अधिक अभिभावक इससे जुड़े। मोदी जी ने बच्चों को मोटिवेट करते हुए क्रिकेट का उदाहरण देते हुए बैटिंग करने वाले खिलाड़ी की भूमिका निभाने का संदेश दिया तो टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करने, लिखने की आदत डालने, खुल कर अपनी बात कहने, मन को शांत रखने, केवल किताबी कीड़ा नहीं बनने, रोबोट नहीं इंसान बनने और पूरी नींद लेने के लिए मोटिवेट किया। सबसे खास बात यह कि बच्चों को स्वयं से प्रतिस्पर्धा करने का संदेश दिया।

करते हुए क्रिकेट का उदाहरण देते हुए बैटिंग करने वाले खिलाड़ी की भूमिका निभाने का संदेश दिया तो टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करने, लिखने की आदत डालने, खुल कर अपनी बात कहने, मन को शांत रखने, केवल किताबी कीड़ा नहीं बनने, रोबोट नहीं इंसान बनने और पूरी नींद लेने के लिए मोटिवेट किया। सबसे खास बात यह कि बच्चों को स्वयं से प्रतिस्पर्धा करने का संदेश दिया। हमें दूसरे के स्थान पर स्वयं से प्रतिस्पर्धा करनी है। स्वयं से प्रतिस्पर्धा करके तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। दरअसल होता यह है कि दूसरे प्रतिस्पर्धा करने के चक्कर में नकारात्मकता अधिक आती है। होना तो यह चाहिए कि अपनी कमियों को ही सबक बनाकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है।

आज बच्चों को खुला आसमान चाहिए। जहाँ वह अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन कर सकें। मोदी जी ने बच्चों को मोटिवेट करते हुए कहा है कि विफलताओं से निराश नहीं होकर उससे सबक लेना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए बहुत कुछ होता है। मोदी जी ने मन की बात में बच्चों, परिजनों और टीचर्स तीनों को ही संदेश देने का प्रयास किया है। होता यह है कि जो बच्चें हौशियार होते हैं या प्रभावशाली परिवार के हैं तो टीचर्स का उन पर विशेष ध्यान होता है और जो बच्चें कमजोर होते हैं तो पीटी मीटिंग के माध्यम से पैरेंट्स को नीचा दिखा कर इतिश्री कर लेते हैं। बच्चों की नाकामी पर कभी किसी स्कूल ने या टीचर ने जिम्मेदारी ली हो यह आज तो लगभग असंभव ही है। चाहे आप पढाई के नाम पर स्कूल को कितनी ही फीस देते हो आप पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर बच्चों को ट्यूशन कराने का दबाव तो आ ही जाता है। यदि शिक्षण संस्थानों में कमजोर और औसत बच्चों पर अधिक ध्यान दिया जाए तो तस्वीर का पहलू दूसरा ही हो सकता है। इसी तरह से पैरेंट्स को भी नसीहत देने में मोदी जी पीछे नहीं रहे हैं। पैरेंट्स को बच्चों की लगन, रुचि को समझना होगा। अपनी अपेक्षाएं उस पर लादने के स्थान पर दिशा देने का प्रयास करने होंगे। बच्चों के साथ बैठकर खुलकर बात करें। उनकी ईच्छा लगन और कोई परेशानी है तो उसे समझने का प्रयास करें। बच्चों में परस्पर तुलना करके बालक मन को कुंठित नहीं करना चाहिए। बच्चों को निराश करने के स्थान पर मोटिवेट करने के समग्र प्रयासों की आवश्यकता है। बच्चों को मशीन नहीं बनाया जाना चाहिए। बच्चों को समझाया यह जाना चाहिए कि 24 घंटे का समय सभी के पास होता है, इस समय को किस प्रकार से उपयोग करना है इस पर फोकस हो तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि बच्चों का मनोबल बढ़ाने उनमें सकारात्मकता विकसित करने की दिशा में हमें काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षाओं से पहले अपने प्रधानमंत्री काल में 8वीं बार परीक्षा पर चर्चा करते हुए बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को संदेश देने का सार्थक प्रयास किया गया है। अब सबका दायित्व हो जाता है कि इन सकारात्मक पक्षों को बच्चों तक पहुंचाया जाए। बच्चों को समझाना होगा कि बड़ी बात जीवन में सफल होना है।

-अतिथि सम्पादक,  
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा  
(वरिष्ठ लेखक)

## राशिफल

गुरुवार 13 फरवरी, 2025

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत् 2081, मघा नक्षत्र रात्रि 9:07 तक, शोभन योग प्रातः 7:31 तक, बाल्य करण प्रातः 7:52 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-मिथुन, बुध-कुम्भ, गुरु-वृष, शुक-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में। आज शब-ए-बारात है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:32 तक, चर 11:18 से 12:41 तक, लाभ-अमृत 12:41 से 3:27 तक, शुभ 4:50 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 7:09, सूर्यास्त 6:13

**मेघ**  
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ धन प्राप्त होगा।

**तुला**  
आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

**वृष**  
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता से बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**वृश्चिक**  
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक कार्य सुरामता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**मिथुन**  
व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। नौकरियों/व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

**धनु**  
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।

**कर्क**  
व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। नौकरियों/व्यक्तियों को मार्केटिंग तनाव रहेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

**मकर**  
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। नवीन कार्यों में परेशानी अभी यथावत बनी रहेगी। आज बनते कार्य विगड़ सकते हैं।

**सिंह**  
नौकरियों/व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा।

**कुंभ**  
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक योजना का क्रियान्वयन होगा। घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

**कन्या**  
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च होगा। धन हानि का भय है। घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

**मीन**  
अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

## क्या विज्ञान ही वास्तविक अलौकिकता है?



डॉ. रामावतार शर्मा

यदि हम आज से हजारों साल पहले की दुनिया के बारे में कल्पना करें और यदि धर्म कथाओं की किंवदंतियों को छोड़ दिया जाए जो कि वास्तविकता में बहुत बाद में प्रकाशित हुई हैं, तो हम स्पष्ट तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे अति प्राचीन पुरखों ने एयरोप्लेन, कार, कंप्यूटर, मोटरबाइक आदि डिजाइन करने के बारे में नहीं सोचा होगा। एक समय ऐसा भी रहा होगा जब आदि मानव ने घर या चारपाई तक के बारे में भी कल्पना न की होगी। ज्यादा दूर नहीं जाएं तो भी हम पाएंगे कि आज से चंद दशकों पहले किसी ने माइक्रोचिप और आधुनिक मोबाइल के बारे में सोचा भी नहीं होगा। यदि ध्यान से सोचा जाए तो उपरोक्त सभी विकास और आधुनिक तकरीबन सारी वस्तुएं भूतकाल में कभी भी पृथ्वी पर मानव जीवन और जीवन के प्रति सोच का हिस्सा नहीं रही हैं जबकि हम चौथी विकास क्रांति के तो अभी प्रारंभ में ही हैं। इस मानवीय विकास का कोई व्यक्ति

विशेष प्रणेत भी नहीं है और 17वीं से 20वीं सदी के नायक वैज्ञानिकों की तरह आज जन सामान्य में सर्व विदित वैज्ञानिक भी नहीं है। जिन्हें इस क्रांतिकारी विकास का बड़ा श्रेय दिया जा सके। आज का विज्ञान एक संस्थागत, व्यावसायिक और व्यापक आधार वाला तंत्र है जहां उपभोक्ता भी आविष्कार के विकास में सहायक है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता मोबाइल फोन और कार आदि के विकास में भी सहायक होते हैं, इनपुट्स देते हैं और एक तरह से आर्थिक भागीदारी करते हैं क्योंकि बड़ी मात्रा में उपभोग निर्माताओं के पास बहुत बड़ी मात्रा में धन प्रवाहित करता है। धन की यह उपलब्धता और नई खोज को जन्म देती है।

हमारे पूर्वजों ने तार, सूरज, चांद, बादल आदि को बहुत ही गौर से देखा होगा। वे अर्चिषि भी हुए होंगे और कितनी ही तीव्र उत्सुकताओं ने उनके मस्तिष्क के उन्हीं भागों को क्रियाशील बनाया होगा जिन भागों को आज की वैज्ञानिक उपलब्धत सक्रिय करती है। माना कि उनके पास दवाएं, उपकरण, कृषि ज्ञान, स्वचालित हथियार और धरेलू संसाधन नहीं थे परंतु मानव जीवन की प्रारंभिक अवस्था के हजारों साल बाद उन्होंने इस सब आयामों के बारे में कल्पना करना अवश्य प्रारंभ किया होगा फिर चाहे ऐसे लोग बहुत कम संख्या में ही क्यों न रहे हों। उन्होंने आकाशीय और तटीय घटनाओं को देखा होगा और उनका विश्लेषण करने के प्रयास भी किए होंगे परंतु ज्ञान एवं संसाधनों के अभाव वे ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। आज का वैज्ञानिक आधारभूत ढांचा तो आज से 20-25 वर्ष पहले तक ही उपलब्ध नहीं था। ऐसे हालातों में यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि बीती सदियों में हजारों साल के मापदंड पर देखा जाए तो किसी व्यक्ति के जीवन में एक भी क्रांतिकारी घटना या खोज न हुई हो क्योंकि उस समयकाल में क्रांतिकारी खोज तो सैकड़ों सालों में एक दो बार हुआ करती थी जैसे कि आग को पैदा करना, धातु तैयार करना, धनुष का विकास आदि।

मनुष्य ने निश्चित तौर पर उस दौरान भी एक आरामदायक और सुरक्षित जीवन के बारे में प्रयास किया होगा। विकास को गति देने की कोशिशें जरूर हुई होंगी लेकिन संसाधन नहीं होने से बात आगे नहीं बढ़ती थी। ऐसे में लोग कल्पनाएं करते थे जो आगे चलकर किंवदंतियां बनीं और एक समयकाल के बाद धार्मिक ग्रंथों का हिस्सा बन कर आज तक हमारे सोच पर छाई हुई है। मिथक की अपनी एक जीवन शक्ति होती है जो सदियों बाद भी उसे सजीव जैसा रखती है क्योंकि यह मिथक मानव मस्तिष्क के एक विशेष हिस्से को सदियों तक जागृत किए रखे था। मिथक से मुक्ति पाना आसान नहीं है फिर चाहे कोई विज्ञान पढ़े या मनोविज्ञान का अध्ययन करे। यहां एक भय यह है यदि एआई ने इस मानवीय मिथक कमजोरी को पकड़ लिया तो भविष्य में यह नई

शक्ति मनुष्य को पछाड़ कर उसके अस्तित्व पर हावी हो सकती है। 18वीं सदी के मध्य से आधुनिक औद्योगिक क्रांति कोयले की खोज से प्रारंभ हुई और 21वीं सदी के आते आते तो विकास की घटनाएं बड़ी तेज गति से बढ़ीं। आज स्थिति यह कि कोई 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अग्रसर सूर्य यान हमें अर्चिषि नहीं करता, इस बारे में आज का जन समूह बात तक नहीं करता, कोई नई खोज हमें उत्साहित तो करती है पर हम विस्मित नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब हमारे सौ साल के अपेक्षित जीवन में हजारों आसपास नई वस्तुएं हमारे आसपास निर्मित हो रही हैं और असंख्य छोटे-बड़े आविष्कार लगातार सामने आते रहते हैं। आविष्कार की निरंतरता ने आविष्कार से चमत्कृत होने के हमारे स्वभाव को समाप्त कर दिया है। ऐतिहासिक रूप में प्रबंधन या अलौकिकता को सत्ता ने अध्यात्म एवं धर्म से जोड़े रखा है।

यह एक सूक्ष्म तरीके का षडयंत्र है जिसके द्वारा सत्ता में बैठे लोग हर एक व्यक्ति को नियंत्रित रख सकें। विज्ञान की क्रांति ने एक विशेष प्रकार की अलौकिकता का विकल्प हमारे सामने रखा है। विज्ञान का ज्ञान हर समय हर जगह उपलब्ध है। आपका मोबाइल फोन विश्व की किसी भी लाइब्रेरी से कितने ही गुना अधिक सूचनाएं एवं विचार आप तक तुरंत प्रभाव से पहुंचा सकता है। ज्ञान की यह उपलब्धता एक क्रांति है

जो सत्ता में बैठे लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन कर उभर रही है। यही कारण है कि पूरे विश्व में लोगों को वापस पुराने धार्मिक ग्रंथों की तरफ धकेला जा रहा है। माना कि इन ग्रंथों में कुछ बेहतरीन ज्ञान है परन्तु इनमें अधिकांश तो कट्टर स्व-मताभिमान (डोगमा) की ही पाई जाती है। इन ग्रंथों में उपस्थित मिथ्या को इंगित करना जानलेवा हो सकता है। इसके विपरीत विज्ञान में हर थ्योरी का विरोध हुआ है, होता रहेगा और यह आलोचना ही विज्ञान के विकास का कारण रहा है। विज्ञान में हर सिद्धांत को सिद्ध होने की कसौटी से गुजरना ही पड़ेगा और यह बात ही विज्ञान के विकास का सबसे बड़ा कारण है।

यह एक बड़ा कारण है जिसके कारण विज्ञान को व्यापार के साथ गठबंधन में डाल कर सत्ता ने इसकी अलौकिकता को नष्ट कर दिया है ताकि लोग विज्ञान को अलौकिक मार्ग की बजाय धनोपार्जन का माध्यम मात्र मान लें। ऐसा करने में विश्व की सत्ताएं सफल हो रही हैं जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सामान्य लोग सत्ता में बैठे लोगों का अधानुकरण कर विज्ञान का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं बल्कि इसके दुर्योग द्वारा टारगेटेड झूठ के प्रसारण में सहायक हो रहे हैं। यह एक ऐसा कारण है जो विज्ञान के माध्यम से अलौकिकता तक पहुंचने में बड़ी बाधा बन रहा है।

-डॉ. रामावतार शर्मा,  
(चिकित्सक एवं लेखक)

## कुलधरा में मांडणा आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन

मांडणा आर्ट प्रदर्शनी का पर्यटकों ने लुत्फ उठाया



देशी-विदेशी सैलानियों ने स्थानीय मांडणों को बारिकी से देखा एवं अपने कैमरों में कैद किया।

जैसलमेर, (निर्स)। मरु महोत्सव के अंतिम दिवस 12 फरवरी बुधवार को प्राचीन ऐतिहासिक कुलधरा में मांडणा आर्ट प्रदर्शनी व रंगोली का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मांडणा आर्ट प्रदर्शनी व रंगोली को


देशी-विदेशी सैलानियों ने उत्साह के साथ देखा एवं वहां पर स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा दी जा रही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का लुत्फ उठाया। जैसलमेर का विकास समिति के सचिव चन्द्रप्रकाश व्यास के निर्देशन

में प्राचीन घरों पर मांडणा भी बेहतरीन व आकर्षक बनाये गये। वहीं रंगोली भी उकेरी गई। यहां पर आये देशी-विदेशी सैलानियों ने सहित कई लोगों ने स्थानीय मांडणों को बारिकी से देखा एवं अपने कैमरों में कैद किया।

## माघ मास की पवित्र पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाई

पुष्कर/अजमेर, (निर्स)। माघ मास की पवित्र पूर्णिमा के मौके पर बुधवार को पुष्कर सरोवर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान व पूजन कर धर्मलाभ कमाया। श्रद्धालुओं ने जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना की। आचार्य पवन शर्मा ने बताया कि धर्मशास्त्रों में माघ पूर्णिमा के स्नान, पूजन व दान-पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है, जिसके चलते हजारों श्रद्धालु पुष्कर पहुंचे। वहीं शाम को जयपुर घाट पर सरोवर की दिव्य महाआरती का आयोजन किया गया।

माघ पूर्णिमा के मौके पर बुधवार की शाम पुष्करराज दिव्य महाआरती संघ की ओर से जयपुर घाट पर सरोवर की महाआरती की गई। संघ के संरक्षक अजय शर्मा ने बताया कि पं. कैलाशनाथ दाधीच के आचार्यत्व में सरोवर का अभिषेक किया गया। इसके साथ ही पं. चंद्रशेखर गौड़,



माघ मास की पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान किया।

ईशान गौड़, यश गौड़ ने तीन मंचों से सरोवर की दिव्य महाआरती की। इस अवसर पर नगर सुधार न्यास

अजमेर के पूर्व अध्यक्ष धर्मेश जैन, मांगीलाल, विकास खटाना, इंद्रसिंह पवार, बाबूलाल दरदी, अर्पित

तिधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवानी ने पुष्कर में पवित्र सरोवर का दुग्धाभिषेक कर पूजा-अर्चना की

सांखला, गायत्री शर्मा, अर्चना गौड़, अरुणा शर्मा, अर्चना जैन, विक्रम सिंह, रवि मेहता, कथावाचक स्वामी के.शवचर्य महाराज काफी संख्या में धर्मप्रेमी महिला पुरुषों ने महाआरती में भाग लिया।

स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने जगतपिता ब्रह्मा मंदिर, रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर, वराह मंदिर, रमा वैकुंठ मंदिर, कल्याणजी मंदिर सहित सावित्री व पाप मोचनी पहाड़ी के दर्शन किए। माघ पूर्णिमा के अवसर पर तिधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवानी ने बुधवार को तीर्थ नगरी पुष्कर में

पवित्र सरोवर का दुग्धाभिषेक कर पूजा-अर्चना की और जगतपिता ब्रह्माजी की पूजा-अर्चना कर दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सिंधी समाज के कुलगुरु काली टोपी परिवार के पंडित सुरेश पायार और पंडित रवि पायार ने वेदोक्त मंत्रोच्चार के साथ तिधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवानी पुष्कर सरोवर में विशेष पूजा-अर्चना संपन्न करवाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

इस अवसर देवानी ने कहा कि माघी पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा, पुण्य और मोक्ष प्राप्ति का विशेष अवसर है। इस शुभ दिवस को तीर्थराज पुष्कर सरोवर पर पूजन व जगतपिता ब्रह्माजी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर उन्होंने देश व प्रदेश के लोगों के लिए सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हुए प्रार्थना की।

# आर.पी.एस.सी. बताए भर्ती प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक की कितनी शिकायतें मिली : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में बुधवार को याचिकाकर्ता पक्ष की बहस पूरी हो गई है। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को बहस जारी रखी जाएगी। वहीं अदालत ने आरपीएससी के अधिवक्ता एमएफ नेमा को यह बताने को कहा है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान आयोग को पेपर लीक को लेकर कितनी शिकायतें मिली। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा कि परीक्षा की तीनों पारियों के पेपर लीक हुए थे और उसी दिन पूरे प्रदेश में 11 एफ.आई.आर. दर्ज हो गई थी। इसके बावजूद आर.पी.एस.सी. की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई
- याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि इस परीक्षा के दौरान कोई फोन के जैमर इस्तेमाल नहीं किये गये थे, जो ऐसी परीक्षाओं में किया जाना आम बात है। इसके अलावा परीक्षा में वीडियोग्राफी भी नहीं की गई थी

कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने अदालत को बताया कि हाल ही में ईओ-आरओ भर्ती परीक्षा की जांच के दौरान केवल तीन एफआईआर दर्ज की थी जिसके बाद पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एफआईआर भर्ती परीक्षा के दौरान कोई फोन के जैमर इस्तेमाल नहीं किये गये थे, जो ऐसी परीक्षाओं में किया जाना आम बात है। आर.पी.सिंह ने बताया कि परीक्षा में वीडियोग्राफी भी नहीं की गई थी।

नाटकीय रूप से इसे तीन दिन कर दिया गया और फिर संपागोय जिलों के बाहर जाकर नये परीक्षा केंद्र बनाये जो कि नियम विरुद्ध था, बल्कि ऐसे ही एक परीक्षा केंद्र जो पाली में स्थित है में पेपर लीक होने और चीटिंग के आरोप लगाते हुए एक एफआईआर भी दर्ज की गई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इन सभी तथ्यों को वजह से आरपीएससी का पेपर लीक में भूमिका और भी संदिग्ध होती है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि पेपर लीक के कारण कई ऐसे अभ्यर्थी का चयन किया गया है जिनका आध्यात्मिक बैकग्राउंड है या उनके माता-पिता अपराधी रहे हुए हैं या अपराधी संगठन से तालमेल रखते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जहां दार्जी अभ्यर्थियों को चिन्तित नहीं किया जा सकता, उस स्थिति में भर्ती को रद्द किया जा सकता है। ऐसे में भर्ती को रद्द किया जाए।

# जयपुर-आभानेरी-भानगढ़ यात्रा के पोस्टर का विमोचन



उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन राजस्थान के प्रतिनिधियों के साथ जयपुर-आभानेरी-भानगढ़-जयपुर यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया।

जयपुर। होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन राजस्थान के प्रतिनिधियों ने पर्यटन सचिव रवि जैन से मुलाकात कर जयपुर-आभानेरी-भानगढ़-जयपुर यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भी पोस्टर का विमोचन किया। जयपुर-आभानेरी-भानगढ़-जयपुर की यात्रा में पर्यटकों को 1 दिन के टूर में आभानेरी-चाँद बावड़ी, हर्षत माता मंदिर, आभानेरी विलेज के साथ लंच शाहपुरा आभानेरी रिसोर्ट में करवाया जायेगा। इसके साथ विश्व प्रसिद्ध भानगढ़ किले का इतिहास भी बताया जायेगा। इस टूर में गाइड भी साथ रहेगा। इस टूर में प्रति व्यक्ति 2750 रूपए खर्च होगा।

पोस्टर विमोचन के दौरान होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन राजस्थान अध्यक्ष तरुण कुमार बंसल, अधिराज सिंह शाहपुरा, सचिव, कुलदीप सिंह चंदेला, अध्यक्ष, असीम पारख, रणविजय सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कौशल राठौड़, उपस्थित थे अधिराज सिंह ने बताया कि इस यात्रा के दौरान जो पर्यटक खुद के व्हीकल से नहीं जा सकते या उसका बजट नहीं है कि वो पर्यटन कार वहन कर सके उनके लिए ये यात्रा है तथा उनके बजट में यह यात्रा सही है। जयपुर आने वाले

पर्यटक एक दिन ज्यादा ठहराव करेंगे जिससे जयपुर में होटलों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। इस यात्रा से घरेलू कलाकार, दुकानदार को भी फायदा होगा तथा ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण लोगों को रोजगार भी उपब्ध होगा। आने वाले दिनों में जयपुर-पुष्कर-जयपुर एवं जयपुर-सांभर-जयपुर के बीच में भी इस तरह कि यात्रा को शुरूआत करेगा। इस पोस्टर के विमोचन के दौरान पर्यटन सचिव ने धन्यवाद दिया। दीया कुमारी ने इसे सराहनीय कदम बताया जिससे राजस्थान के पर्यटन में इजाफा होगा तथा जयपुर के आसपास पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी।

# भाजपा सरकार में किसी भी विधायक-मंत्री का कोई फोन टैप नहीं हुआ : बेदम

जयपुर। गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेदम ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने ओडी राजनीति शुरू कर दी है। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपसी मामला है और मामला भी एक झूठी खबर का है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब किरोड़ी लाल मीणा ने दे दिया, उन्होंने बता दिया कि उनका कोई फोन टैप नहीं हुआ और मैं गृह राज्यमंत्री के तौर पर कहता हूँ कि हमारी सरकार में किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री के फोन टैप नहीं हुआ।

- गृह राज्यमंत्री का कांग्रेसी नेता सचिन पायलट के बयान पर पलटवार
- 'राज्य सरकार के एक साल के सुशासन को देखकर कांग्रेस घबराई'

रूप से प्रेस के सामने आकर भी कहा था कि उनके फोन टैप हो रहे हैं। उस समय अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर कांग्रेस के नेता हल्लावर थे लेकिन चुप रहे और बाद में गलतबर्हिया भर रहे थे। गृह राज्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी

कमियों से बचने के लिए सदन में मुख्यमंत्री का राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब बाधित करने का षडयंत्र किया। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के 1 साल के सुशासन की बात जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखी। बेदम ने कांग्रेस के नेताओं को इस ओडी राजनीति को बंद करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और इसी कारण उपचुनाव में आपका पता भी साफ कर दिया। फिर भी कांग्रेस के लोग बयानबाजी करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब जनता गुमराह नहीं होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राजस्थान के विकास को देखकर जनता कांग्रेस को पूरी तरह नकार चुकी है।

# बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा आमजन : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक बैंक रहित परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए 2014 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन की शुरुआत की और इसका परिणाम यह हुआ कि जनवरी 2025 तक देशभर में 54.58 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले गए। इनमें 55 प्रतिशत खाता धारक महिलाएँ हैं। मोदी सरकार की ओर से विभिन्न वित्त वर्गों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, स्टैड एंड इंडिया और प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना जैसी कई योजनाओं को शुरू किया।

# डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने स्वीकारी अपनी गलती

जयपुर। फोन टैपिंग मामले पर अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा करने वाले कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नोटिस मिलने के साथ अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से दिए नोटिस के जवाब में मीणा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। बुधवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री किरोड़ी मीणा ने अपने नोटिस और कांग्रेस के हंगामे पर जवाब दिया। नोटिस में क्या जवाब दिया, ये किरोड़ी ने नहीं बताया लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उनसे अनुशासनहीनता हुई है, जिसकी वजह से पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस दिया। गौरतलब है कि किरोड़ी लाल मीणा को भाजपा ने अनुशासनहीनता का सोमवार को नोटिस जारी किया था। वहीं, बुधवार को मीणा ने नोटिस का जवाब संगठन को भेज दिया है। मीणा ने कहा कि मेरे से जो गलती हुई है, नोटिस में वह दर्शाई हुई है। गलती हुई थी, उसका जवाब दे दिया है। किरोड़ी

- 'अनुशासन तोड़ा तो नोटिस मिला, मैंने नोटिस का जवाब दे दिया'

ने इस दौरान फिर से कहा कि वह पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, तभी पार्टी ने उनको टिकट दिया है और तभी वे विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं। उधर पार्टी से नाराजगी के सवाल पर किरोड़ी लाल ने कहा कि नाराजगी तो उनकी पत्नी गोलमा देवी से भी हो जाती है। गोलमा देवी यह कहती हैं कि तुम चुप रहा करो, ज्यादा मत बोला करो, फिर भी मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। किरोड़ी मीणा ने इस दौरान विधानसभा सत्र में शामिल नहीं होने पर बीमारी का हवाला दिया और साथ ही कहा कि जब बीमारी सही हो जाएगी तो वह विधानसभा सत्र में शामिल होंगे। नोटिस से संतुष्ट नहीं होने के सवाल पर किरोड़ी लाल ने कहा कि मैंने क्या जवाब दिया, वह नहीं बताऊंगा। मेरी

# राजस्थान पर्यटन नीति और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को बनाया जा रहा है आसान : दिया कुमारी

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा है कि राजस्थान पर्यटन नीति और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को आसान बनाया जा रहा है। इससे पर्यटन और फिल्म पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में 8 व 9 मार्च को आई आई एफ ए 25 पुरस्कार समारोह आयोजित होना है, इससे राजस्थान पर्यटन को विश्व में भव्य पहचान मिलेगी। इससे राजस्थान में फिल्मों की शूटिंग्स में भी बढ़ोतरी होगी।

उन्होंने कहा राजस्थान पर्यटन का वैश्विक स्तर पर सशक्त ब्रांडिंग हो इस पर दोनों ही नीतियों में फोकस किया जाए। दिया कुमारी ने कहा कि पर्यटन नीति के द्वारा सेगमेंटवाइज नवाचार किए जाए जिससे पर्यटन से जुड़ी इकड़याँ और स्टेकहोल्डर्स तथा अन्य सभी राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने में अपना अधिकतम योगदान दें सके। उन्होंने कहा कि पर्यटन नीति में डिजिटल इनीशिएटिव को भी शामिल किया जाए।

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि आई आई एफ ए 25 पुरस्कार समारोह साकार रूप लेने जा रहा है। इसके सफल आयोजन की तैयारियाँ चल रही हैं। इससे सम्बंधित कई तरह की शूटिंग भी राजस्थान की विभिन्न लोकेशन पर चल रही हैं। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को इस दौरान लॉन्च किया जाना है। उन्होंने निर्देशित किया कि फिल्म नीति सरल बनाया जाए ताकि राजस्थान में अधिक से अधिक फिल्मों की शूटिंग हो जिससे राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा मिले। उपमुख्यमंत्री ने कहा दोनों नीतियों से राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इसके साथ ही यहां के लोगों को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे।

# सुधांशु महाराज 15-16 फरवरी को जयपुर प्रवास पर

जयपुर । विश्व जागृति मिशन (विजामि) के संस्थापक और देश के जाने माने आध्यात्मिक संत आचार्य सुधांशु महाराज के पानन सानिध्य में गुलाबी नगर वासियों को दिव्य भक्ति सत्संग में धर्म और अध्यात्म की गंगा में डुबकी लगाने का सुअवसर मिलेगा। विजामि प्रमुख आचार्य सुधांशु महाराज शनिवार और रविवार को अपने जयपुर प्रवास के दौरान विशेष सत्रों में श्रद्धालुओं को धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन में सकारात्मकता, आनंद और उल्लास के साथ प्रगति के नए सोपान तय करने के गुर सिखायेंगे।



सुधांशु महाराज

विश्व जागृति मिशन जयपुर मंडल की ओर से आयोजित किए जा रहे इस दिव्य भक्ति सत्संग के लिए आचार्य सुधांशु जी महाराज शनिवार को जयपुर पहुंचेंगे। प्रधान श्री मदन लाल अग्रवाल ने बताया कि आचार्य श्री सुधांशुजी महाराज शनिवार को गुलाबी नगरी पहुंचने के बाद आदर्श नगर में वीस दुकान स्थित सोमश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्थित जयपुर मंडल के आश्रम में श्रद्धालुओं और शिष्यों से मुखातिब होंगे और जयपुर मंडल द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों का अवलोकन करेंगे।

जयपुर मंडल प्रधान ने बताया कि रविवार को जवाहर नगर के सैक्टर-4 में माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के तक्षिशाला ऑडिटरियम में दिव्य भक्ति सत्संग के दो विशेष सत्रों का आयोजन होगा। पहला सत्र प्रातः 10 से 12 बजे तक तथा दूसरा सत्र शाम 4 से 6 बजे तक आयोजित होगा। इन सत्रों में प्रवेश निःशुल्क रहेगा, गुलाबी नगर वासियों को पहले आओ-पहले स्थान पाओ के आधार पर ऑडिटरियम में प्रवेश दिया जाएगा। आचार्य श्री सुधांशु जी महाराज इसी दिन दोपहर 12 बजे तक्षिशाला ऑडिटरियम में ही नए श्रद्धालुओं को दीक्षा देंगे।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग कर जेडीए की योजनाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रूपए हर्जाने की लानग्या है। सोने एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश भगवान सहाय चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पूर्व में भी समान मुद्दे पर जेडीए के विकास को रोकने के लिए एक अन्य प्रार्थी के साथ याचिकाकर्ता बनकर पीआईएल दायर की थी। उस याचिका को अदालत ने 5000 रूपए हर्जाने सहित खारिज किया था। पीआईएल के नाम पर कानून को दुरुपयोग करने का एक टूट बनाता जा रहा है। यह याचिका एक तुच्छ प्रकृति की है। अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह एक लाख रूपए की हर्जाना राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराए।

# 'ईआरसीपी में 13 जिलों को मिलेगा पेयजल'

जयपुर। राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता धनश्याम तिवारी ने सदन में ईआरसीपी प्रोजेक्ट में राजस्थान को न केवल सिर्फ पीने का पानी मिलेगा बल्कि सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के इस समझौते को लेकर लगाए गए आरोप लिए 1744 एमसीएम, दिल्ली-मुंबई

इंडस्ट्रीय कॉरिडोर को 205 एमसीएम और सिंचाई के लिए 1360 एमसीएम पानी देने की बात कही गई है। तिवारी ने कहा है कि इस जवाब के बाद वह बिल्कुल स्पष्ट है कि नए ईआरसीपी प्रोजेक्ट में राजस्थान को न केवल सिर्फ पीने का पानी मिलेगा बल्कि सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के इस समझौते को लेकर लगाए गए आरोप लिए 1744 एमसीएम, दिल्ली-मुंबई

# कानून का दुरुपयोग कर दायर जनहित याचिका खारिज

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग कर जेडीए की योजनाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रूपए हर्जाने की लानग्या है। सोने एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश भगवान सहाय चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पूर्व में भी समान मुद्दे पर जेडीए के विकास को रोकने के लिए एक अन्य प्रार्थी के साथ याचिकाकर्ता बनकर पीआईएल दायर की थी। उस याचिका को अदालत ने 5000 रूपए हर्जाने सहित खारिज किया था। पीआईएल के नाम पर कानून को दुरुपयोग करने का एक टूट बनाता जा रहा है। यह याचिका एक तुच्छ प्रकृति की है। अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह एक लाख रूपए की हर्जाना राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराए।

# कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में राजस्थान को देश में पहले स्थान पर लाना हमारी प्राथमिकता : कुमावत

जयपुर। पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बुधवार को राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के सभागार में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 13 जिलों में तरल नम्रजन भंडारण हेतु 3000 लीटर के साइलो का वचुअल लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि तरल नम्रजन पशु नस्ल सुधार के लिए किए जाने वाले कृत्रिम गर्भाधान में काम आता है। तरल नम्रजन की भण्डारण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए राज्य के 16 जिलों में 3-3 हजार लीटर क्षमता के वर्टिकल साइलो पूर्व में स्थापित हो चुके हैं। इस तरह अब राज्य के 29 जिलों में वर्टिकल साइलो की स्थापना हो जाने से तरल नम्रजन भंडारण की कुल क्षमता 93 हजार लीटर हो गई है। जयपुर और उदयपुर के साइलो की क्षमता 6-6 हजार लीटर की है।

- पशुपालन मंत्री ने तरल नम्रजन भंडारण के लिये 13 जिलों के लिए साइलो का वचुअल लोकार्पण किया

को ए आई किट का वितरण भी किया। उन्होंने मंत्री कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करें और कृत्रिम गर्भाधान में राजस्थान को देश में पहला स्थान दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। शासन सचिव पशुपालन, गोपालन और मत्स्य डॉ. समित शर्मा ने कहा कि आज दौसा, टोंक, बाड़मेर, सर्वाडीमाधोपुर, बारां, जैसलमेर, जालौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर और चुरू जिलों में 218 लाख रूपये के नवीन वर्टिकल साइलो का लोकार्पण किया गया। 5 अन्य जिलों धौलपुर, सिरोंही, झालावाड़, बूंदी और कुचामनसिटी में 3 हजार लीटर की क्षमता वाले साइलो की स्थापना आने वाले दिनों में भारत सरकार से बजट प्राप्त होने पर कर दी जाएगी। इस अवसर पर राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा पशुपालन निदेशक डॉ. आनंद सेजरा, पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ सुरेशचंद्र मीना सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद थे।

# राजस्थान में वर्ष 2025-26 में 4.40 लाख करोड़ रु. के ऋण वितरण का आंकलन किया नाबार्ड ने

जयपुर (कांस)। राजस्थान में एकीकृत और सतत ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रु 4.40 लाख करोड़ के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरण का अनुमान लगाया है। ऋण की संभावित राशि पिछले वर्ष के अनुमान की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है। नाबार्ड द्वारा बुधवार को आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार के दौरान सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तैयार किए गए स्टेट फोकस पेपर (एसएफपी) का विमोचन किया। इस मौके पर सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल, एसकेएनएयू, जोबनेर के कुलपति बलराज सिंह, राजफेड के प्रबंध निदेशक टीकम चंद बोहरा, और नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. राजीव सिवाच भी मौजूद थे। सहकारिता मंत्री ने नाबार्ड द्वारा तैयार की गई ऋण योजना और स्टेट फोकस पेपर 2025-26 की सराहना की। उन्होंने बैंकों संबंधित विभागों और अन्य हितधारकों को नाबार्ड द्वारा स्टेट फोकस पेपर में किए गए अनुमानों पर राय देना, सहकारिता में सहकार पर ग्राह्यताओं और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंकों को मजबूती को शामिल किया है। सहकारिता विभाग की प्रमुख



सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने नाबार्ड द्वारा बुधवार को आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार के दौरान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तैयार किए गए स्टेट फोकस पेपर (एसएफपी) का विमोचन किया।

बहुउद्देश्यीय की स्थापना, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, सहकारिता में सहकार पर ग्राह्यताओं और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंकों को मजबूती को शामिल किया है। सहकारिता विभाग की प्रमुख

शासन सचिव मंजू राजपाल ने राज्य फोकस पेपर 2025-26 के महत्व पर जोर दिया। राजपाल ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटीकरण में नाबार्ड के प्रयासों का उल्लेख किया और मई 2025 तक 5000 पैक्स को 'गो लाइव' करने

के सरकार के लक्ष्य को साझा किया। उन्होंने बताया कि राज्य में भंडारण और खरीद सुविधाओं में सुधार के लिए सहकारी क्षेत्र में 500 से 1000 मॉडिक टन क्षमता वाले 150 गोदाम बनाये जा रहे हैं। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ.

सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने में नाबार्ड का महत्वपूर्ण योगदान : दक

राजीव सिवाच ने स्टेट फोकस पेपर के विषय में बताया कि यह एक कूल अनुमानित ऋण संभाव्यता में 47 प्रतशत कृषि और संबद्ध कार्यों के लिए आंकलित किया गया है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 45 प्रतिशत और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कि आवास, शिक्षा आदि के लिए 8 प्रतिशत आंकलित किया गया है। उन्होंने बताया कि एसएफपी में आंकलित ऋण संभाव्यता का उपयोग वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक ऋण योजना तैयार करने के लिए एक आधार दस्तावेज के रूप में किया जाएगा। डॉ. सिवाच ने आगे यह कहा कि कृषि आधारभूत सुविधाओं में निवेश की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। सेमीनार के दौरान, राज्य में वर्ष 2024-25 के दौरान सहकारिता के क्षेत्र में उकृष्ट कार्य करने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और कृषक उत्पादक संगठनों को भी सम्मानित किया गया।

# फाइनेंस कर्मियों से 36 लाख लूट मामले में तिहाड़ जेल से दो आरोपी गिरफ्तार

## पुलिस इस मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है

कोटा, (निर्सं)। गुमानपुर इलाके में फाइनेंस कर्मियों से 36 लाख रुपये लूट के मामले में पुलिस टीम ने तिहाड़ जेल रोहिणी दिल्ली से प्रोडक्शन वॉरंट पर दो आरोपियों को बापदा गिरफ्तार किया। पुलिस इस मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से दो आरोपियों को पूर्व में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

शहर पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि गुमानपुर इलाके के टीचर्स कॉलोनी में फाइनेंस कर्मियों से 36 लाख लूट के मामले में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस उपअधीक्षक योगेश शर्मा के निर्देशन में गुमानपुर थाताधिकारी अनिल कुमार टेलर के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए तिहाड़ जेल रोहिणी दिल्ली से प्रोडक्शन वॉरंट पर रामा विहार नई दिल्ली निवासी राहुल गुला उर्फ नकटा (34) एवं कमलजीत उर्फ तोती (33) को बापदा गिरफ्तार किया है। शहर एसपी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों से मामले में अनुसंधान के बाद न्यायालय में पेश किया गया। जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज



36 लाख की नगदी लूट के मामले में दो आरोपियों को बापदा गिरफ्तार किया।

दिया गया। शहर एसपी ने बताया कि इस मामले में पुलिस टीम ने पूर्व में दो आरोपी संजीव चौपड़ा उर्फ शेर व

अमित भाई को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

शहर एसपी अमृता दुहन ने

बताया कि 25 नवम्बर 2011 को टीचर्स कॉलोनी निवासी फरियादी ने गुमानपुर थाने में रिपोर्ट दी थी।

## आरोपियों में से कुछ ने पुलिस की वर्दी पहनकर वारदात को अंजाम दिया था

फरियादी ने शिकायत में कहा था कि वह कोटा में किराये से रहता है उसके पास तीन लोग आये जिसमें से दो जनों से पुलिस वर्दी पहन रखी थी और उससे कहा कि ड्रस बेचना है और उसके कम्परे की तलाशी ली तो अलमारी में रखे काले रंग का बैग जिसमें 36 लाख रुपये थे। उस बैग और मुझे कार में ले गये और रावतभाटा रोड पर फोरलेन के पास उतार दिया और पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गये। शहर एसपी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर मामले में कार्रवाई करते हुए पूर्व में पुलिस की वर्दी पहन कर वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं मामले में वांछित चार दो आरोपियों को प्रोडक्शन वॉरंट पर तिहाड़ जेल से बापदा गिरफ्तार किया है।

## लापता छात्रा का कुण्ड में तैरता मिला शव

### परिजनों ने हत्या करने अथवा आत्महत्या के लिये उकसाने का अंदेशा जताया

मालपुरा, (निर्सं)। मालपुरा उपखण्ड क्षेत्र के लाम्बाहरिसिंह कस्बे के हरि शगर कुण्ड में बुधवार को एक किशोरी का लावारिस शव संदिग्ध परिस्थितियों में तैरता मिला। ग्रामीणों के सहयोग से शव को पुलिस ने बाहर निकाल पुलिस सुरक्षा में लिया। शव की पहचान लाम्बाहरिसिंह कस्बा निवासी प्रिया पुत्री सुरेश जांगिड की रूप में की गई, जो कि रविवार की शाम से ही घर से निकली थी। परिजनों ने प्रिया की हत्या या फिर आत्महत्या करने के लिये उकसाने का अंदेशा जता नामजद रिपोर्ट देकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर शव लेने से इंकार कर दिया।

मृतक प्रिया के पिता सुरेश कुमार जांगिड की ओर से थाना पुलिस को दी जानकारी में बताया कि उसकी बेटी प्रिया जो कि राजकीय बालिका विद्यालय में कक्षा 10 में पढ़ती थी। डेटाणी गांव निवासी एक युवक उसकी पत्नी के मोबाइल पर बने प्रिया के इंस्टाग्राम पर चैटिंग कर आये दिन परेशान करता था। स्कूल जाने व आने के दौरान भी उसे परेशान करता था, जिससे वो तनाव में थी। रविवार को वो अपनी पत्नी के साथ पारिवारिक काम से बाहर गया हुआ था। शाम को लोटा तो उसके परिवारजनों ने बताया कि प्रिया शाम से ही घर पर नहीं है। जगह-जगह तलाश की गई, लेकिन प्रिया का कोई सुराग नहीं मिला। प्रिया के पास मोबाइल भी नहीं था। बुधवार को दोपहर बाद जयिते दूरभाष के ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि

हरिसागर कुण्ड में एक किशोरी का शव मिला है। सूचना पर वो मौके पर पहुंच शव को देखा तो वो शव उसकी बेटी प्रिया का ही था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुये शव को पुलिस सुरक्षा में ले मालपुरा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जहां परिजनों की मांग पर पुलिस वृत्ताधिकारी आशीष प्रजापत व थानाधिकारी राजकुमार की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बुधवार की शाम साढ़े सात बजे तक शव अस्पताल के मुर्दाघर में पुलिस सुरक्षा में रखा हुआ था। छात्रा प्रिया के पिता ने डेटाणी निवासी युवक के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दे उसकी बेटी प्रिया की हत्या कर शव पानी में फेंक देने अथवा प्रिया को आत्महत्या के लिये उकसाने का अंदेशा जताते हुये शव लेने से इंकार कर दिया। छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की सूचना पर जांगिड समाज के प्रबुद्धजन सहित बड़ी संख्या में लोगों ने अस्पताल पहुंच पुलिस वृत्ताधिकारी से मिलकर मामले में निष्पक्ष व त्वरित कार्यवाही व जांच कर दोषी की गिरफ्तारी की मांग की।

डीएसपी ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के विवरण एफएसएल टीम को भेजने तथा मामले में अनुसंधान अधिकारी से निष्पक्ष जांच करवाने का विश्वास दिलाते हुये शव उठाने की समझाइश की, लेकिन परिजन व समाज बंधुओं ने शव लेने से इंकार कर दिया।

## नशे में उपयोग होने वाली टैबलेट्स बरामद

पाली, (निर्सं)। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री व पुलिस अधीक्षक पाली के नशे के विरुद्ध अभियान के अन्तर्गत एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान के निर्देशन में बुधवार को नशे के उपयोग में ली जाने वाली टैबलेट्स बरामद की। कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण पाली के सहायक आयुक्त व पुत्र कुम्भाराम निवासी कुम्हारों का वास, ग्राम केलवाड सोजत जिला पाली के रहवासीय मकान से नशे में उपयोग होने वाली गैर एनडीपीएस घटक की पांच हजार टैबलेट्स बरामद की गयी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ चौकी को परिवारी द्वारा शिकायत दी गई कि, प्रार्थी पिछले 10 साल से चारागाह भूमि पर खेती करता आ रहा है, जो करीब 2.5 बीघा है, जिसका सरकार की तरफ से जुर्माना आता था, जिसको प्रार्थी

## रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार

झालावाड़, (निर्सं)। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की झालावाड़ चौकी द्वारा रामनिवास बैरवा पटवारी पटवार हल्का पिण्डोला तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ को परिवारी से चार हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

इस पर 11 फरवरी को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाये जाने पर परिवारी से आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करना प्रमाणित पाया गया। जिस पर 12 फरवरी को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर ए.सी.बी. कोटा रेंज कोटा के उपमहानिरीक्षक पुलिस

शिवराज मीना के सुपरवीजन में ए.सी.बी. झालावाड़ चौकी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगमाम मीना द्वारा मय टीम के कार्यवाही करते हुए आरोपी रामनिवास बैरवा पटवारी पटवार हल्का पिण्डोला तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ को परिवारी से 4,000 रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। ए.सी.बी. की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिम्ता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

## मदिरा दुकानों के बंदोबस्त में अभूतपूर्व सफलता

### प्रदेश में वर्षों बाद फरवरी माह के द्वितीय सप्ताह में ही मदिरा दुकानों के नवीनीकरण का 85 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है

उदयपुर, (निर्सं)। राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 के तहत आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशन में अनुज्ञाधारियों के विश्वास व उन्साह को कायम रखते हुए मदिरा दुकानों का बंदोबस्त पारदर्शिता, सुगमता व सरलीकरण के साथ करते हुए अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की गई है। प्रदेश में वर्षों बाद फरवरी माह के द्वितीय सप्ताह में ही मदिरा दुकानों के नवीनीकरण का 85 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

आबकारी आयुक्त के अनुसार राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 के तहत पुरानी मदिरा दुकानों के नवीनीकरण की

प्रक्रिया के तहत प्रदेश में 7665 मदिरा दुकानों में से 6500 दुकानों के नवीनीकरण के साथ 85 प्रतिशत लक्ष्य बुधवार सांय सात बजे तक प्राप्त कर लिया गया है। यह अंकड़ा रात्रि 12 बजे तक 90 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। इसी क्रम में फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में ही दुकानों के बंदोबस्त में अभूतपूर्व सफलता मिली है जो कि बीते कई वर्षों से अधिक है। मदिरा दुकानों के सफलतापूर्वक हुए

बंदोबस्त से राजस्व लक्ष्यों की वांछित पूर्ति हो सकेगी साथ ही अनुज्ञाधारियों, निर्माता व आपूर्तिकर्ताओं को भी लाभ होगा। अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रदीप सिंह सांगवात ने बताया कि आबकारी आयुक्त निर्देशानुसार राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 के तहत नवीनीकरण से श्रेष्ठ रही मदिरा दुकानों का बंदोबस्त अथवा सेटलमेन्ट भी

## 12 हजार रुपए भरण-पोषण देने का आदेश

जोधपुर, (कांसं)। जोधपुर पारिवारिक न्यायालय संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी दलपतसिंह राजपुरोहित ने एक बीएड डिग्रीधारी महिला को उसके 12वीं पास पति से गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में महिला और उसकी दोनों बच्चों को मासिक 12 हजार रुपए भरण-पोषण देने का आदेश दिया। जानकारी के अनुसार वेणु पंवार (42) ने न्यायमित्र हेमंत बवेजा के माध्यम से कोर्ट में मुकदमा दायर किया। इसमें बताया कि वर्ष 2013 में उसकी शादी बागर चौक निवासी महेंद्र सिंह सांखला के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। इससे उसके 2 बच्चों का जन्म हुआ। इसके बाद से ही उसे कम दहेज लाने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया वहीं, पति महेंद्र कुमार (52) ने सभी आरोपों को बूटा बताते हुए कहा कि वह 12वीं पास है। वह पूर्ण स्वस्थ व हट्ट-पुष्ट होने के बावजूद बेरोजगार है, जबकि, उसकी पत्नी व्यवसायिक डिग्री बीएड शिक्षित होकर महीने की आय प्राप्त कर रही है। इसके बाद कोर्ट ने पति की दलीलों को खारिज करते हुए आदेश दिया कि अप्राथी का पत्नी व नाबालिग बच्चों को अपने आर्थिक व सामाजिक स्तर के अनुरूप भरण पोषण करा। इसके साथ ही कोर्ट ने वर्तमान समय में महंगाई सूचकांक, जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का पत्नी के पक्ष में निर्णय दिया।

## भीलवाड़ा में "विधायक आपके वार्ड" अभियान की शुरुआत



विधायक द्वारा वार्ड नम्बर 59 में बैठक कर "विधायक आपके वार्ड" का शुभारंभ किया गया।

भीलवाड़ा, (निर्सं)। शहर विधायक अशोक कोठारी निरंतर जनता से कार्यालय पर जनसुनवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कभी जनसंवाद तो कभी नए-नए नवाचार करके जनता की समस्या का समाधान कर रहे हैं। विधायक द्वारा एक नवाचार का शुभारंभ वार्ड नम्बर 59 में बैठक कर "विधायक आपके वार्ड" का किया गया।

मौडिया प्रभारी पंकज आडवाणी ने बताया कि, विधानसभा क्षेत्र की जन समस्या का समाधान करने के लिए एक नया नवाचार किया है। इस अभियान का

नाम "विधायक आपके वार्ड" है। निरंतर हर वार्ड के लोगों के साथ बैठक कर समस्या सुनेंगे और अतिशोष समस्या का समाधान करवाएंगे। विधायक आपके वार्ड अभियान के तहत प्रदेश व केंद्र सरकार की जनहित योजना की उपलब्धियां गिनाते हुए जनता की समस्याएं सुनीं। कोठारी ने युवाओं से नवाचार को बढ़ावा देने तथा नए शोध करने का आग्रह किया। वार्ड संख्या 59 में बैठक कर आमजन की समस्या सुनी, विधायक कोठारी ने जनता के हर विषयों को पूरा सुना, समझा व विधायक स्तर

## जंगल में लगी भीषण आग, 500 हैक्टियर एरिया में फैली

### विराटनगर के छितौली, लुहाकना, बाणयावास तन जंगल में आग लगी

पावटा, (निर्सं)। विराटनगर के छितौली, लुहाकना, बाणयावास, गोगेरा एवं भेरू जी का मंदिर के आस-पास जंगल और पहाड़ी पर आग लगने से हड़कंप मच गया। बुधवार सुबह अचानक आग लगने से आसमान में चारों तरफ धुंआ ही धुंआ हो गया। लोगों ने आग लगने की सूचना वन विभाग और दमकल को दी। सूचना मिलते ही शाहपुर, विराटनगर, पावटा के दमकल की गाड़ियां और वन विभाग के कर्मचारी-अधिकारी मौके पर पहुंचे और दमकल कर्मियों व पानी के टैंकों से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। वहीं, पहाड़ी पर दमकल नहीं पहुंचने की वजह से वन विभाग के कर्मचारियों ने पारंपरिक तरीके से आग बुझाने का प्रयास किया।

भारतीय किसान संघ जिला सहमंत्री भगवत, कांग्रेस नेता दौलत सिंह, प्रहलाद भगत, गोकुल मीना, नरपत सिंह ने बताया कि पावटा के फायर इंजिन प्रकाश सिंह शेखावत, विकास, सतवीर ने अपने टीम के साथ बहुत विकट रास्ते में गाड़ी ले जाकर आग बुझाने का सराहनीय

कई जंगली जानवर भी आग की चपेट में आ गए, विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया

पहाड़ी पर दलकम नहीं पहुंचने से पारम्परिक तरीके से आग बुझाने का प्रयास किया

आग पर काबू पाया। वन इलाके क्षेत्र में आग से बड़ी संख्या में पेड़-पौधे जलकर राख हो गए। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वन विभाग के अधिकारियों ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जंगल और आसपास में जलती हुई बीड़ी-सिगरेट नहीं फेंके, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा।

**कार्यालय नगरपरिषद चूरू (राजस्थान)**  
क्रमांक: न.प./सफाई शाखा/2024-25/13444787 दिनांक: 06.02.2025  
ई-निविदा सूचना 109 वर्ष 2024-25  
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से नगरपरिषद, चूरू द्वारा कार्य की निविदा आईडी नम्बर DLB2425A5482 आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण वेबसाइट <http://eproc.raajasthan.gov.in> तथा कार्यालय सभ्य में किसी भी कार्य दिवस को नगरपरिषद चूरू के कार्यालय में सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है।  
UBN Code :- DLB2425SSL0816628, DLB2425SSL0816629  
राज.सं.वा.द./सी/24/11554 आयुक्त, नगरपरिषद, चूरू

**राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर**  
विज्ञापित दिनांक-10.02.2025  
आयोग के वि.सं. 18/2024-25 दिनांक 22.10.2024 द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए सहायक आचार्य की Nuclear Medicine एवं Endocrinology विशिष्टताओं के क्रमशः 01 एवं 03 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। विभाग द्वारा पदों की संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप उक्त पदों हेतु दिनांक 12.02.2025 से दिनांक 21.02.2025 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन पत्र पुनः आमंत्रित किये जाते हैं। इसके पश्चात लिंक निम्निये हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, विभाग संप्राप्त संशोधित वॉरवर वर्गीकरण एवं अन्य सूचना के संदर्भ में अर्थात् आयोग की वेब-साइट पर जारी शुद्धि पत्र संख्या 20/2024-25 का अवलोकन कर सकते हैं।  
DIPRC/1914/2025 (रामनिवास मेहता) सचिव

**कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड नाथद्वारा जिला राजसमन्द राजस्थान**  
क्रमांक: 14 निविदा सूचना संख्या 12/2024-25 दिनांक: 05.02.2025  
NIB: PWD2425A4051  
नवीन सड़को एवं भवनों के निर्माण कार्य हेतु ई-ट्रेंडर संकेदको से निविदा दिनांक 20.02.2025 सायं 06:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा के सम्बन्ध में अन्य विवरण आगमन वेबसाइट (<http://www.eproc.raajasthan.gov.in>) पर देखा जा सकता है।  
उपान की कुल अनुमानित राशि 137.00 लाख रुपये है।  
S.No. of Work UBN No.  
1 PWD2425WSOB14535 (भानु प्रकाश माधुर)  
2 PWD2425WSOB14536 अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड नाथद्वारा  
DIPRC/1670/2025

**कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर**  
क्रमांक: - अ.अ./विद्युत-व/कलकता 1523021 दिनांक: - 11/02/2025  
ई-निविदा सूचना संख्या :- जोध विद्युत-11/09/2024-25  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्यों की अनुमानित लागत, निविदा वेधे जाने तथा प्राप्त करने की तिथि, निविदा पत्रों आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट [www.jodhpurjda.org](http://www.jodhpurjda.org), [www.eproc.raajasthan.gov.in](http://www.eproc.raajasthan.gov.in) एवं [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in) पर देखी जा सकती है।  
NIB CODE :- JOD2425A0167  
UBN/TENDER ID :- JOD2425WSOB00370, JOD2425WSOB00371  
कार्य की अधिकतम अनुमानित लागत - रुपये 47,79,326/-  
राज.सं.वा.द./सी/24/11547 अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत-11)

**कार्यालय नगरपालिका, आहोर (जिला-जालौर)**  
(हॉस्पिटल चौराहा, रेल्वे स्टेशन रोड, जालौर-343001)  
क्रमांक: /नयाआहोर/विकास/2024-25/3125 दिनांक: 11.02.2025  
:: निविदा सूचना संख्या 13/2024-25 ::  
नगरपालिका, आहोर में विधायक स्वामीय विकास योजनाअन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य हेतु राजस्थान के विभिन्न विभागों/निर्मित/स्वायत्तशासी संस्था/बोर्डों/उपखण्डों/उपखण्डों में AA एवं A श्रेणी में पंजीकृत तथा स्वायत्त शासन राजस्थान के अधीन विभागों/संस्थानों नगर पालिका/परिषद/निगम व बोर्डों में निर्धारित श्रेणी में निविदा जारी होने की दिनांक को पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त संवेदकों से निर्धारित शर्तों के अनुसार ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त ई-निविदा <https://sppp.raajasthan.gov.in> एवं <https://eproc.raajasthan.gov.in> पर देखी तथा डाउनलोड की जा सकती है।  
NIB CODE - DLB2425A5523  
UBN CODE - DLB2425WSOB16736 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, आहोर  
राज.सं.वा.द./सी/24/11542

**राजस्थान सरकार कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, जालौर**  
क्रमांक F.32(B)(1)(A)After Policy-2025-26/EXL/2025-04359-49174-Part File(2)1496 दिनांक 12.02.2025

कुपोषित रिटेल ऑफ मदिरा दुकानों के वर्ष 2024-25 के अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2025-26 के लिये अनुज्ञापन नवीनीकरण के लिये आवेदन विकल्प प्रस्तुत करने की मित्य तिथि को बढ़ाई जाने की सूचना

इस कार्यालय की समसंख्यक विज्ञापित क्रमांक 1480 दिनांक 03.02.2025 के सन्दर्भ में राज्य के कुपोषित रिटेल ऑफ मदिरा दुकानों के वर्ष 2024-25 के समस्त अनुज्ञाधारियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2025-26 के लिए अनुज्ञापन के नवीनीकरण के लिए पाए एवं इच्छुक अनुज्ञाधारी अपना नवीनीकरण आवेदन (विकल्प) पत्र न्य निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ दिनांक 15.02.2025 तक संघटित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। दिनांक 15.02.2025 तक नवीनीकरण आवेदन (विकल्प) प्राप्त नहीं होने पर अनुज्ञाधारी का नवीनीकरण कठाने का विकल्प समाप्त हो जायेगा तथा दुकान/समूह (Cluster) का आवेदन ई-निविदा/ई-निविदा द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2025-26 हेतु अनुज्ञापन नवीनीकरण से संबंधित समस्त जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट <https://excise.raajasthan.gov.in> का अवलोकन करें।  
अन्य सभी शर्तें पूर्वज्ञापन पत्रांक रहेगी।  
आबकारी आयुक्त, राजस्थान

**राजस्थान सरकार निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर**  
क्रमांक-निदे/अ.ख.अ.नीलामी/नीलामी (ML Bajri 04) /2025/5-10076  
ई-नीलामी विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अध्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के अन्वय-गा के तहत विभाग के अध्रधान खनिज बजरी के खननपट्टे को आवेदन के लिए निम्नलिखित प्लॉट ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर खुली बोली आमंत्रित की जाती है। संबंधित विवरण इस प्रकार है:-

जिला	तहसील	राजस्व ग्राम	प्लॉट्स की संख्या
पाली	रोहट	कुल्याना व घोगाणा	1
		कसौली	1
		भूरियासनी	1
		राखणा व घोगाणा	1
		चाटेलवां व जेतपुर	1
		चाटेलवां, जेतपुर गढवाडा	1
		जैतपुर व गढवाडा	2
		गढवाडा	2
		गढवाडा व घोलेरिया जामौर	1
अजमेर	भिनाय	खेडी व गुडा सूई	4
		देवालिया कर्णा	4
		योग	15

विशेष नोट:- 1. प्लॉटों का विस्तृत विवरण, अमानत राशि, बोली बस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण ई-ऑनलाइन की शर्तें विभागीय वेबसाइट [www.mines.raajasthan.gov.in](http://www.mines.raajasthan.gov.in) एवं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता कंपनी MSTC Ltd की वेबसाइट [www.mstccommerce.com](http://www.mstccommerce.com) पर उपलब्ध है।  
DIPRC/1618/2025 (भगवती प्रसाद) IAS, निदेशक

**कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड मालपुरा**  
पता-व्यास सर्किल के पास, सदरपुरा रोड जलदाय विभाग केम्पस, मालपुरा जिला टोंक  
Mobile No. 8279108410 E-mail ID- eemal.tonk.phe@rajasthan.gov.in  
क्रमांक-अ.अ./जन स्वा./माल./2024-25/4285-98 दिनांक-05.02.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 109 से 119/2024-25  
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जन स्वा.अभि. विभाग खण्ड मालपुरा के अधीन विभिन्न क्षेत्रों में कार्यों हेतु उपयुक्त श्रेणी में जन स्वा.अभि. विभाग में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्यस्वा.कार/केंद्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं रूर संचार विभाग/रिजर्व इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के सक्षम श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो से निर्धारित पत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया में तहत ऑन लाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।  
निविदा फार्म ऑन लाइन वेबसाइट <http://www.eproc.raajasthan.gov.in> से निम्न विवरण में अकिड अनुसार अवधि में निविदा पत्र प्राप्त कर जा करये जा सकते हैं। निर्धारित तिथि को यदि किसी कारणवश अवकाश रहता है। तो उसके अगले कार्यदिवस में उसी समय परतकनीकी बिड खोली जायेगी। निम्न हस्ताक्षरकर्ताओं को विना कारण बताये किसी भी निविदा अथवा भाग को निरस्त करने का अधिकार होगा। निविदा की लागत कम व अधिक की जा सकती है।  
विस्तृत विवरण ऑन लाइन वेबसाइट <http://dipr.raajasthan.gov.in> /tenders.asp.sppp.raajasthan.gov.in, <http://www.eproc.raajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों का अपने digital Signature certificate (DSC) के माध्यम से वेबसाइट <http://www.eproc.raajasthan.gov.in> पर फर्म को रजिस्टर्ड करवाया आवश्यक है उक्त निविदाओं का वेबसाइट [sppp.raajasthan.gov.in](http://sppp.raajasthan.gov.in) पर सूक्ति बिड नं. निम्नानुसार है।  
निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 05.02.2025 से 19.02.2025 सायं 06 बजे तक  
निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि 05.02.2025 से 19.02.2025 सायं 06 बजे तक

S.NO.	Nit No.	NIB CODE	UBN No.
1	109/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09198
2	110/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09199
3	110/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09200
4	112/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09201
5	113/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09202
6	114/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09203
7	115/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09204
8	116/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09205
9	117/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09206
10	118/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09207
11	119/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09209

अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड मालपुरा  
DIPRC/1627/2025

# 35 बीघा जमीन पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त

सांगानेर के ग्राम पवालिां में "वृंदावन सिटी" के नाम से बसाई जा रही थी कॉलोनी

जयपुर (कासं)। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने 35 बीघा जमीन पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनीयों को ध्वस्त किया। इसके साथ ही दुर्गापुरा स्थित लाल बहादुर नगर में 2 मंजिला अवैध कमर्शियल बिल्डिंग को भी सील किया। बीलवा कलां स्थित ग्राम बडी का बास में 8 अवैध विला-डुप्लेक्स भी ध्वस्त किए। पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चन्द्र विश्वा ने



जे.डी.ए. के प्रवर्तन दस्ते ने बुधवार को सांगानेर स्थित ग्राम पवालिां में बसाई जा रही अवैध कॉलोनी में निर्माणाधीन मकानों को ध्वस्त किया।

दुर्गापुरा स्थित लाल बहादुर नगर में बिना अनुमति बनाई जा रही दो मंजिला व्यावसायिक इमारत को सील किया

बीलवा कलां स्थित ग्राम बडी का बास में भी 8 अवैध विला और डुप्लेक्स को ध्वस्त किया

ने बताया कि दुर्गापुरा स्थित लाल बहादुर नगर में भूखण्ड संख्या-एफ-18 में व्यावसायिक उपयोग के लिए बेसमेंट समेत 2 मंजिला अवैध इमारत बनायी जा रही थी, जिसे पुछा सील किया। इसके अलावा जोन-14 स्थित ग्राम बडी का बास, बिलवा कलां में खसरा नं. 98 पर अवैध

तरीके से बनाई जा रहे 8 विला व डुप्लेक्स भी सील किए। निर्माणाधीन जेडीए प्रशासन से कोई निर्माण स्वीकृति भी नहीं ली थी। इसके अलावा सांगानेर स्थित ग्राम पवालिां में करीब 35 बीघा कृषि भूमि पर "वृंदावन सिटी" के नाम से बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को भी खुर्द-बुर्द किया। काश्तकार ने जेडीए की बिना अनुमति-स्वीकृति और बिना

भू-रूपांतरण करवाये रातोंरात मिट्टी समतल करके, ग्रेवल रोड, 6 विला और बाउंड्रीवाल समेत कई निर्माण कर लिए गए थे। यह कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में की गईं। कैलाश विश्वा ने बताया कि वर्ष 2024 में जे.डी.ए. की प्रवर्तन टीम ने 383 तथा वर्ष 2025 में 48 अवैध कॉलोनीयों पर कार्रवाई की है।

## छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर भगवा रैली



छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर का विमोचन भारत क्रांति मिशन के विलासराव भाऊ पंगारकर, विजय काकडे पाटिल, सुशील जाधव, शशांक शर्मा व कीर्ति राठौड़ ने किया।

जयपुर। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर 19 फरवरी को जयपुर में एक भव्य भगवा रैली का आयोजन किया जाएगा। यह ऐतिहासिक रैली शिवाजी महाराज के शौर्य और उनके हिंदवी स्वराज के सपने को साकार करने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भारत क्रांति मिशन के विलासराव भाऊ पंगारकर, विजय काकडे पाटिल, सुशील जाधव, शशांक शर्मा व कीर्ति राठौड़ दी।

19 फरवरी को जयपुर में होने वाले इस कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री होंगे।

इस कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मंत्री एवं जनसेवक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऐतिहासिक धरोहरों, चौकों और प्रमुख मार्गों को भगवा ध्वजों और रोशनी से सजाया जाएगा। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वीर रस के कवि सम्मेलनों और शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित प्रदर्शनों का भी आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से शिवाजी महाराज के सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाने और राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने का संकल्प लिया जाएगा। जयपुरवासियों से अपील की गई है कि वे इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनें और अधिक से अधिक संख्या में भगवा रैली में भाग लें।

## प्रसारण निगम को 122 करोड़ रु.लाभ

जयपुर। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 122 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक नथमल डिंडेल ने बताया कि प्रसारण निगम की 326वीं बोर्ड मीटिंग में निगम के वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के लेखे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये गये, जिसके अनुसार प्रसारण निगम की कुल आय लगभग 1143 करोड़ रुपये एवं कुल खर्च लगभग 1021 करोड़ रुपये रहा, जिससे प्रसारण निगम ने लगभग 122 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

## संजय सरदाना को सेवा रत्न अवॉर्ड



जयपुर। जयपुर शहर के संजय सरदाना को बेंगलुरु में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवॉर्ड-2025 से सम्मानित किया गया। संजय एक्टर और सोशल वर्कर हैं और बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। जिनमें एक्टर कमल हसन के साथ इण्डियन-2, शाहिद कपूर की फिल्म तेरी बालों में पेसा उलझा जिया जैसी फिल्में प्रमुख हैं। उन्हें फिल्म और सामाजिक क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए यह सम्मान दिया गया है। मुंबई में आयोजित इस नेशनल अवॉर्ड फंक्शन में संजय सरदाना के साथ साथ देश में अलग अलग क्षेत्रों में अग्रणी कार्य कर रहे लोगों को भी फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले भी उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम और महात्मा गांधी नेशन अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थान की टॉप-10 हस्तियों में भी उनको शामिल किया जा चुका है।

## अवैध शराब गुजरात लेकर जा रहे दो तस्कर गिरफ्तार

जयपुर। विधायकपुरी थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से 22 महंगी अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, जिन्हें हरियाणा से गोधरा (गुजरात) ले जाया जा रहा था। जयपुर शहर में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस उपायुक्त दक्षिण दिगंत आनंद के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विधायकपुरी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि दो लोग अवैध रूप से शराब को तस्कर कर रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए विशेष टीम का गठित

गुजरात में शराब को दोगुनी कीमत पर बेचने की थी योजना

की गई। टीम ने मुखबिर से सूचना मिली थी कि दिल्ली से गोधरा (गुजरात) के लिए अंग्रेजी शराब सप्लाई करने वाले दो लोग जयपुर पहुंचे हैं। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर दोनों आरोपियों सुखविन्द्र सिंह गोरवाल और पुवार प्रधुमन सिंह उर्फ पट्टू को जयपुर में ही पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी दिल्ली से शराब खरीदकर जयपुर होते हुए गुजरात में इसे दोगुनी कीमत पर बेचने की फिराक में थे।

## "रोड रोमियो" पर कसा जयपुर पुलिस ने शिकंजा

जयपुर। जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने रोड रोमियो पर शिकंजा कसते हुए ब्लैक फिल्म लगी 6 थार 2 स्कॉर्पियो और 4 मॉडीफाइड बाइक जब्त कर एक स्टंटबाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) तेजस्वीनी गौतम ने बताया कि सोशल मीडिया पर काली थार और स्कॉर्पियो से स्टंटबाजी की रील्स बनाने वाले उत्पातियों के खिलाफ एक्शन व स्टंटबाजों की धड़ पकड़ पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये थे।

ब्लैक फिल्म लगी 6 थार, 2 स्कॉर्पियो और 4 मॉडीफाइड बाइक जब्त


जिसके चलते गठित पुलिस टीम ने जवाहर सर्किल क्षेत्र में दौरान राफ्त देखा गया कि ज्यादातर थार व काले रंग की स्कॉर्पियो पर लोग ब्लैक फिल्म लगाकर आस-पास बड़ी सड़कों पर रात के समय स्टंट कर लोगों में दहशत फैला रहे थे। गाड़ियों की जांच की तो किसी के पास दस्तावेज नहीं थे। किसी ने नंबर प्लेट नहीं लगा रखी थी। इसके अलावा

कुछ गाड़ियों पर रेड पट्टी लगा रखी थी और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगा रखी थी। इन गाड़ियों को एमवी एक्ट के तहत जब्त किया गया और एक स्टंटबाज को शांतिभंग में गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि कई युवक घर से दोस्तों से मिलने के बहाने घर से गाड़ियां लेकर निकलते हैं। घर से निकलने के बाद सीधे कैफे पर जाकर बैठते थे और शाम के समय सड़क पर स्टंट कर दहशत फैलाते हैं। युवाओं में "काली थार" का ऐसा भूत सवार है कि वे इसे सिर्फ सड़क पर नहीं दौड़ाते, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसकी धाक जमाते हैं।

# झुंझुनू की युवती का मददगार बना "राजकाँप सिटीजन एप"

मोबाइल एप में एक क्लिक पर युवती को मिली पुलिस की मदद

जयपुर (कासं)। राजस्थान पुलिस द्वारा महिलाओं की मदद के लिए राजकाँप ऐप पर डवलप किए गए नए फीचर नीड हेल्प की मदद से झुंझुनू की रहने वाली एक युवती को ना केवल तत्काल पुलिस की मदद मिली अपितु पुलिस ने छेड़छाड़ और दोस्ती का दबाव बना रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। आईजी एससीआरबी शरत कविराज ने बताया कि बुधवार सुबह राजकाँप एप में करीब 6:26 बजे एक सन्देश आया। झुंझुनू निवासी एक युवती जो जयपुर में एक हॉस्टल में रहकर फस्ट ग्रेड टीचर की कोचिंग कर रही थी, के इस सन्देश के अनुसार त्रिवेणी बती के सामने उसके साथ एक लड़का छेड़छाड़ और गाली गलौज कर उसका मोबाइल छीन रहा था। संदेश पर बिना समय गवाएं राजकाँप एप रूम में कार्यरत प्रभारी एसआई सुनीता शर्मा द्वारा अभय कमांड सेंटर को सूचना दी। इसके आधार पर महेश नगर थाना पुलिस की 112 गाड़ी तुरंत गोपालपुरा बायपास रिडि सिडिड चौराहा पर पहुंची और आरोपी पवन तंवर पुत्र रतन सिंह (24) निवासी गांव गांवली थाना पाटन जिला सीकर को दस्तयाब कर थाने पर लाये। युवती से समझाइश कर रिपोर्ट ले मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित युवती ने पुलिस को बताया



युवती पर दोस्ती का दबाव बनाने वाले आरोपी को पुलिस टीम ने तुरंत गिरफ्तार किया

जाने के बावजूद पुलिस को लोकेशन ट्रेस करने में परेशानी न हुई। युवती ने यह भी बताया कि राजकाँप सिटीजन एप की मदद से जानकारी उसे पुलिस की कालिका टीम द्वारा कोचिंग सेंटर पर चलाए गए जागरूकता अभियान के दौरान प्राप्त हुई थी।

ऐसा है राजकाँप सिटीजन एप

आईजी एससीआरबी शरत कविराज ने बताया कि राजकाँप सिटीजन एप, राजस्थान पुलिस की एक ऐप है। इस ऐप से नागरिक सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस ऐप में कई फीचर हैं, जैसे कि शिकायत दर्ज कराना, किराएदार का सत्यापन कराना, अपनी पंजीकृत शिकायतों का ट्रैक करना, महिला सुरक्षा से जुड़ी सुविधा, अबोएस पैमैक बटन आदि। राजकाँप सिटीजन एप में महिला सुरक्षा सेक्शन में मदद चाहिए टैब है, इस टैब पर क्लिक करके महिलाएं तुरंत पुलिस की मदद पा सकती हैं।

## समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद अब 28 फरवरी तक

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गोमन कुमार दक ने बताया कि प्रदेश में मूंगफली खरीद की अवधि को 28 फरवरी तक बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखकर खरीद अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था। दक ने बताया कि भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार पूर्व में पंजीकरण करवा चुके किसान उक्त बढ़ी हुई अवधि में अपनी जिनस का विक्रय कर सकेंगे। इसके अंतर्गत नये पंजीकरण नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्त पात्र किसानों से नियमानुसार तुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे मूंगफली विक्रय के इच्छुक किसान तुलाई से वंचित नहीं रहे। साथ ही, किसानों को तुलाई केन्द्रों पर कोई पुरानी नहीं हो, इसके लिए भी सभी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि पूर्व में मूंगफली खरीद की अवधि 15 फरवरी तक निर्धारित थी। किसानों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार से खरीद अवधि बढ़ाने का आग्रह किया गया था। दक ने बताया कि मूंगफली विक्रय के लिए 1 लाख 33 हजार 296 किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया है, जिनमें से अब तक 85 हजार 506 किसानों से खरीद की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक किसानों से 2058 करोड़ रुपये कीमत पर 3.03 लाख मीट्रिक टन से अधिक मूंगफली की खरीद की जा चुकी है।

## सार-समाचार

### राजस्थान विवि.टीम की स्वच्छता मुहिम



जयपुर (कासं)। राजस्थान विश्वविद्यालय की केमिस्ट्री एन.एस.एस. इकाई की ओर से बुधवार को एनएसएस शिविर लगाया गया। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मीनाक्षी जैन ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए स्वच्छता का महत्व समझाया। प्रो. जैन ने विद्यार्थियों को जल की महत्ता बताते हुए कहा कि आज के समय में विद्यार्थी जल संरक्षण की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए जल की हर एक बूँद का संरक्षण करना नितांत आवश्यक है। इस शिविर के प्रथम चरण में अपने विश्वविद्यालय को जानने प्रतियोगिता के दूसरे भाग का भी आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान विवि. से संबंधित सामान्य प्रश्न किए गए। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, भारत सरकार की पहल के तहत स्वच्छ भारत विकसित भारत वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अमित शर्मा ने विद्यार्थियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराया। डॉ. शर्मा ने बताया कि जनता स्टर मार्केट परियोजना से लगभग 10 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक संग्रहित किया। लगभग 100 कॉलेजियट की डेडिकेटेड टीम ने कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अमित शर्मा के निर्देशन में राजस्थान विवि. से जनता स्टर मार्केट तक एक स्वच्छता जागरूकता रैली भी निकाली।

### स्कूल के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण



जयपुर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटर वर्क्स में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। साथ ही विद्यालय के भामाशाह पं. राम किशन शर्मा द्वारा भवन निर्माण के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में विधायक डॉ. गोपाल शर्मा, पूर्व विधायक नवरत्न राजोरिया, शिक्षा विभाग के सीबीईओ ओमप्रकाश गौड़, नवनाथ महाराज, निखिल वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रधानाचार्य दामोदर लाल ने सभी का आभार प्रकट किया।

### मालवीय नगर में 8 अवैध निर्माण सीज

जयपुर। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रूकमिणी रियाड़ के निर्देशानुसार उपायुक्त मालवीय नगर जोन प्रियव्रत सिंह चारण को टीम ने बुधवार को 8 अवैध निर्माणों और अवैध रूप से संचालित लाईनेरी को सीज किया। उपायुक्त प्रियव्रत सिंह चारण ने बताया कि मालवीय नगर जोन में प्लांट संख्या-बी-140, विजय थथ, तिलक नगर, प्लांट संख्या-454, गली नं.-3 राजापार्क, प्लांट संख्या-97, गुरुनानकपुरा, राजापार्क, प्लांट संख्या-बी-67, बजाज नगर, प्लांट संख्या-4 गली नं.-18 बरकत नगर, श्री राधाकृष्ण लाईनेरी, प्लांट संख्या-ए-3 किसान मार्ग बरकत नगर श्री फ्यूचर फर्ट लाईनेरी, प्लांट संख्या-ए-7, 8, किसान मार्ग बरकत नगर श्री राधाकृष्ण एवं प्लांट संख्या-ए-13 अमित ज्यूस सेन्टर के पीछे बरकत नगर राज लाईनेरी पर सीजर की कार्रवाई की गई।

### 86 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी

जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ जिला रसद अधिकारी का सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मोणा ने बताया कि कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार कार्यालय जिला रसद अधिकारी के द्वारा नोटिस जारी किये जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा 44 अपात्र लाभार्थियों एवं जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 42 अपात्र लाभार्थियों सहित कुल 86 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किये गये हैं।

### राज्यपाल ने जताई शोक संवेदना

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या धाम के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र कुमारदास महाराज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बागडे ने कहा कि उनका गोलोक जन्म अग्र्यात्म की हमारी सनातन संस्कृति की अपूर्णीय क्षति है। बागडे ने ईश्वर से पुण्यात्मा की शांति और शोकाकुल अनुयायियों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है।

# जयपुर डेयरी ने स्थापित किया राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र

यह अत्याधुनिक तकनीक हर दिन 6.5 लाख लीटर यानि प्रतिवर्ष 24 करोड़ लीटर पानी बचाने में सहायक होगी : श्रुति भारद्वाज

जयपुर (कासं)। जयपुर डेयरी ने राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेड.एल.डी.) संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया है। पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इस संयंत्र को नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड के तकनीकी परामर्श से 20 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है।




आर.सी.डी.एफ. की प्रशासक एवं प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज और प्रबंध संचालक मनीष फौजदार ने बुधवार को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र का निरीक्षण किया।

ज्ञात रहे कि जयपुर डेयरी प्रतिदिन 12 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण करती है, इसमें रोजाना 15-19 लाख लीटर पानी की जरूरत होती है।

संरक्षण में सहायक है, बल्कि जयपुर डेयरी को वित्तीय रूप से भी लाभान्वित करेगा। इस संयंत्र के माध्यम से डेयरी को प्रति किलोलीटर 55-60 रुपये की बचत होगी, जिससे वार्षिक स्तर पर लगभग 1.3 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, जयपुर शहर की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यह संयंत्र 2 लाख लोगों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। आरसीडीएफ की प्रशासक एवं प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि जयपुर डेयरी द्वारा जो संयंत्र बनाया गया है, वह जल संरक्षण एवं पर्यावरण की दृष्टि से एक आदर्श मॉडल साबित होगा। इसकी सफलता को देखते हुए अन्य जिला संघ में भी संयंत्र स्थापित किया जाएगा। जयपुर डेयरी की

यह पहल माननीय मुख्यमंत्री के जल संरक्षण अभियान को आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जयपुर डेयरी के अध्यक्ष ओमप्रकाश पुनिया ने बताया कि यह संयंत्र जयपुर डेयरी के पर्यावरण व जल संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। प्रबंध संचालक मनीष फौजदार ने बताया कि यह संयंत्र राजस्थान के सहकारिता क्षेत्र में प्रथम ही नहीं अपितु भारत के डेयरी क्षेत्र में एक अभिनव पहल है, प्रतिदिन 5 से 6 लाख लीटर पानी की बचत से न केवल राजस्व का लाभ होगा, अपितु इससे भूजल संरक्षण क्षेत्र में जयपुर डेयरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।



## Digital Learning Day

Digital Learning Day is a testament to the transformative power of technology in education. It's an opportunity to reflect on the advancements in digital teaching methods and the potential they hold for future generations. While the day is a celebration of progress, it also serves as a stark reminder of the digital divide that persists, emphasizing the importance of ensuring equitable access to digital resources for all. Organize a tech fair where students can display their digital projects. This encourages peer-to-peer learning and fosters a spirit of innovation.

### #PSYCHOLOGY


## Hidden 'Good' In Villians

Inside, villains are a little less evil than they outwardly seem, while heroes are fully good guys inside and out.



Both adults and children more often reported that villains were inwardly good than that heroes were inwardly bad, a study finds. "In other words, people believe there is a mismatch between a villain's outward behaviours and their inner, true self, and this is a bigger gap for villains than for heroes," says Valerie Umscheid, a doctoral student in Psychology at the University of Michigan and the study's lead author.

Inside, villains are a little less evil than they outwardly seem, while heroes are fully good guys inside and out. Umscheid and colleagues conducted three studies with 424 children (ages 4-12) and 277 adults to determine how individuals make sense of antisocial acts committed by evildoers. They focused on participants' judgments of both familiar and novel fictional villains and heroes, such as Disney's Ursula and Pixar's Woody from *Toy Story*. The first study established that children viewed villains' actions and emotions as over-



Anjali Sharma  
Senior Journalist &  
Wildlife Enthusiast

Bernier had a low opinion of the artisan workshops, and the way people treated them in Delhi. He goes on to describe the sorrowful representations, thus. Occupied by skillful artisans would be vainly sought for in Delhi, which has very little to boast of, in that respect. This is not owing to any inability in the people to cultivate the arts, for there are ingenious men in every part of the Indies. Numerous are the instances of handsome pieces of workmanship made by persons, destitute of tools, and who can scarcely be said to have received instruction from a master. Sometimes, they imitate so perfectly articles of European manufacture that the difference between the original and copy can hardly be discerned. Among other things, the Indians make excellent muskets, and fowling-pieces, and such beautiful gold ornaments that it may be doubted if the exquisite workmanship of those articles can be exceeded by any European goldsmith.

I have often admired the beauty, softness, and delicacy of their paintings and miniatures, and was particularly struck with the exploits of Ekbar, painted on a shield by a celebrated artist, who is said to have taken seven years in completing the picture. I thought it a wonderful performance. The Indian painters are chiefly deficient in just proportions, and in the expression of the face, but these defects would soon be corrected if they possessed good masters, and were instructed in the rules of art.

In *The Times* newspaper of 20th March, 1891 will be found an interesting account of a shield, called the *Ramayana shield*, then just completed, the work of the premier Jeypore state workman, Ganga Baksh, Khati, who executed the work under the direction of Surgeon-Major T. H. Hendley, C.I.E., the Residency Surgeon, and Honorary Secretary, Jeypore

Museum. On this shield, the story of the Ramayana is told in a series of plaques, 'nearly all of which are faithful reproductions in relief, in silver-plated brass, of paintings by the most celebrated artists who flourished in Akbar's time.' It is further stated that Dr. Hendley has arranged for the production of two more large shields. One of these will be a companion to the Ramayana shield, the story of the *Mahabharata* being taken as the second great epic poem of the *Hindoos*. Here, again, the paintings of Akbar's time will be copied. The other shield will be known as the *Ashwamedha* (horse sacrifice) shield, and will contain seven plaques, illustrating the sacrifice which Yudhishtira performed, an incident in Mahabharata, the drawings being taken from Akbar's own copy of the *Razmanamah*, or Persian version of the great Hindoo epic. Jeypore will, thus, eventually possess three specimens of metal-work in relief, unrivalled throughout India.

I have to notice that the observing of the figures of objects and the making of likeness of them, which are often looked upon as an idle occupation, are, for a well-regulated mind, a source of wisdom, and an antidote against the poison of ignorance. Bigoted followers of the letter of the law are hostile to the art of painting, but their eyes now see the truth. One day at a private party of friends, His Majesty (the Emperor Akbar), who had conferred on several the pleasure of




I have to notice that the observing of the figures of objects and the making of likeness of them, which are often looked upon as an idle occupation, are, for a well-regulated mind, a source of wisdom, and an antidote against the poison of ignorance. Bigoted followers of the letter of the law are hostile to the art of painting.

drawing near him, remarked, "There are many that hate painting, but such men I dislike. It appears to me as if a painter had quite peculiar means of recognising God, for a painter in sketching anything that has life, and in devising its limbs, one after the other, must come to feel that he cannot bestow individuality upon his work, and is thus forced to think of God, the giver of life, and

# The Tool-Less Artisans and No Respect Either

One day at a private party of friends, His Majesty (the Emperor Akbar), who had conferred on several the pleasure of drawing near him, remarked, "There are many that hate painting, but such men I dislike. It appears to me as if a painter had quite peculiar means of recognising God, for a painter in sketching anything that has life, and in devising its limbs, one after the other, must come to feel that he cannot bestow individuality upon his work, and is thus forced to think of God, the giver of life, and will thus increase in knowledge." (Ain, vol. i. p. 108)

### #FRANCOIS BERNIER




article at a cheap rate. When an Omrah or Mausebar requires the services of an artisan, he sends to the bazar for him, employing

the lips of the King, if at all to the purpose, how trifling soever may be its import, it is immediately caught by the surrounding throng, and the chief Omrahs, extending their arms towards heaven, as if to receive some benediction, "Exclaim Karamat ! Karamat ! Wonderful ! Wonderful ! He has spoken wonders ! Indeed, there is no Mogol who does not know and does not glory in repeating this

manufacturer? Instead of contending for a superiority of reputation, his only anxiety is to finish his work, and to earn the pittance that shall supply him with a piece of bread. The artists, therefore, who arrive at any eminence in their art, are those only who are in the service of the King or of some powerful Omrah, and who work exclusively for their patron. The artisans repair every morning to their respective Kar-kanays, where they remain employed the whole day, and in the evening, return to their homes. In this quiet and regular manner, their time glides away, no one aspiring after any improvement in the condition of life wherein he happens to be born. The embroiderer brings up his son as an embroiderer, the son of a goldsmith becomes a goldsmith, and a physician of the city educates his son for a physician. No one marries but in his own trade or profession, and this custom is observed almost as rigidly by Mahometans as by the Gentiles, to whom it is expressly enjoined by their law. Many are the beautiful girls thus doomed to live singly, girls who might marry advantageously if their parents would connect them with a family less noble than their own.



What I have stated in the proceedings of the assembly of the Am-Kas appears sufficiently rational and even noble, but I must not conceal from you the base and disgusting adulation, which is invariably witnessed there. Whenever a word escapes



Replay: "The moon and stars shine bright."

The vice of flattery pervades all ranks. When a Mogol, for instance, has occasion for my services, he comes to tell me by way of preamble, and as matter of course, that I am the Aristotals, the Bocrate, and the Abiisyma-Ulzaman!, the Aristotle, the Hippocrates, and the Avicenna of the age. At first, I endeavoured to prevent this fulsome mode of address by assuring my visitors that I was very far from possessing the merit they seemed to imagine, and that no comparison ought to be made between such great men and me, but finding that my modesty only increased their praise, I determined to accustom my ears to their flattery, as I had done to their music.

I shall here relate an anecdote, which I consider quite characteristic. A *Brahmen Pendet* or Gentle doctor, whom I introduced into my Agah's service, would fain pronounce this panegyric, and after comparing him to the greatest Conquerors that the world has ever known, and making for the purpose of flattery a hundred nauseous and impertinent observations, he concluded his harangue in these words, uttered with all conceivable seriousness, "When, my Lord, you place your foot in the stirrup, marching at the head of your cavalry, the earth trembles under your footsteps, the eight elephants, on whose heads it is borne, finding it impossible to support the extraordinary pressure."

The conclusion of this speech produced the effect that might be expected. I could not avoid laughing, but I endeavoured, with a grave countenance, to tell my Agah, whose risibility was just as much excited, that it behoved him to be cautious how he mounted on horseback and created earthquakes, which often caused so much mischief. "Yes, my friend," he answered without hesitation, "and that is the reason why I generally choose to be carried in a Paleky"

Agar Shah rozra gayad shab ast in, Bibayad guft, binam mah u Parvin.

If the monarch says that day is night, The moon and stars shine bright.

Research has found that people tend to consume more calories in the autumn and winter months than they do in spring and summer. The absence of light in the winter makes us want more food and to consume it quicker. However, the more food consumed at any one time, the harder the body has to work to digest it. This makes it difficult to fall asleep and therefore, it is recommended

Getting up in the mornings is even more difficult on a cold, dull morning, all you want to do is stay in bed all day. This is especially true on the weekends but try and keep to your

regular sleeping pattern. Catching up on a little extra sleep at the weekend is a given, but oversleeping can only damage your weekday sleeping pattern. Try not to alter your sleeping pattern by more than an hour or two.

Research has found that people tend to consume more calories in the autumn and winter months than they do in spring and summer. The absence of light in the winter makes us want more food and to consume it quicker. However, the more food consumed at any one time, the harder the body has to work to digest it. This makes it difficult to fall asleep and therefore, it is recommended

Getting up in the mornings is even more difficult on a cold, dull morning, all you want to do is stay in bed all day. This is especially true on the weekends but try and keep to your

regular sleeping pattern. Catching up on a little extra sleep at the weekend is a given, but oversleeping can only damage your weekday sleeping pattern. Try not to alter your sleeping pattern by more than an hour or two.

Research has found that people tend to consume more calories in the autumn and winter months than they do in spring and summer. The absence of light in the winter makes us want more food and to consume it quicker. However, the more food consumed at any one time, the harder the body has to work to digest it. This makes it difficult to fall asleep and therefore, it is recommended

Getting up in the mornings is even more difficult on a cold, dull morning, all you want to do is stay in bed all day. This is especially true on the weekends but try and keep to your

regular sleeping pattern. Catching up on a little extra sleep at the weekend is a given, but oversleeping can only damage your weekday sleeping pattern. Try not to alter your sleeping pattern by more than an hour or two.

Research has found that people tend to consume more calories in the autumn and winter months than they do in spring and summer. The absence of light in the winter makes us want more food and to consume it quicker. However, the more food consumed at any one time, the harder the body has to work to digest it. This makes it difficult to fall asleep and therefore, it is recommended

Getting up in the mornings is even more difficult on a cold, dull morning, all you want to do is stay in bed all day. This is especially true on the weekends but try and keep to your

regular sleeping pattern. Catching up on a little extra sleep at the weekend is a given, but oversleeping can only damage your weekday sleeping pattern. Try not to alter your sleeping pattern by more than an hour or two.

Research has found that people tend to consume more calories in the autumn and winter months than they do in spring and summer. The absence of light in the winter makes us want more food and to consume it quicker. However, the more food consumed at any one time, the harder the body has to work to digest it. This makes it difficult to fall asleep and therefore, it is recommended

Getting up in the mornings is even more difficult on a cold, dull morning, all you want to do is stay in bed all day. This is especially true on the weekends but try and keep to your

regular sleeping pattern. Catching up on a little extra sleep at the weekend is a given, but oversleeping can only damage your weekday sleeping pattern. Try not to alter your sleeping pattern by more than an hour or two.

Research has found that people tend to consume more calories in the autumn and winter months than they do in spring and summer. The absence of light in the winter makes us want more food and to consume it quicker. However, the more food consumed at any one time, the harder the body has to work to digest it. This makes it difficult to fall asleep and therefore, it is recommended

Getting up in the mornings is even more difficult on a cold, dull morning, all you want to do is stay in bed all day. This is especially true on the weekends but try and keep to your

regular sleeping pattern. Catching up on a little extra sleep at the weekend is a given, but oversleeping can only damage your weekday sleeping pattern. Try not to alter your sleeping pattern by more than an hour or two.

Research has found that people tend to consume more calories in the autumn and winter months than they do in spring and summer. The absence of light in the winter makes us want more food and to consume it quicker. However, the more food consumed at any one time, the harder the body has to work to digest it. This makes it difficult to fall asleep and therefore, it is recommended

Getting up in the mornings is even more difficult on a cold, dull morning, all you want to do is stay in bed all day. This is especially true on the weekends but try and keep to your

## #WAY-OF-LIFE Sleep Better in Winter

How to keep yourself warm in bed is not only comfort, but has a lot to do with the quality of sleep.



Adjusting our sleeping habits for different seasons can be difficult. The long evenings and warm nights of the summer months are very different from winter months, with their dark evenings and cold nights. Here are some tips for you to sleep comfortably during the winter.

### Room Temperature

It's important to keep the room temperature just right. Sleeping in a room that's too warm, although cosy, can keep you awake at night. The same can be said for sleeping in a room that's too cold, which also makes it difficult to fall asleep, and stay asleep. Maintaining a moderate room temperature can make all the difference. The ideal temperature for sleep is between 20-22°C. This is because body temperature drops during sleep, and so, a cooler room makes sleep more restful.

### Lack of Sunlight

Excessive cloud cover in winter can make daily life duller. When we don't get enough sunlight during the winter, we tend to feel more lethargic during the day, and completing daily tasks can take a lot of effort. When it does get dark in the evening, the body may not feel ready for bed because it has been so tired during the day. To help reduce this, try to get out in the sunshine where possible (if there is a break in the clouds). Take a short walk on your lunch break to wake you up during the day. In the evenings, try to turn off televisions and laptops at least an hour before bed, as the light from these works as a stimulant and makes falling asleep more difficult.

### Overeating

Research has found that people tend to consume more calories in the autumn and winter months than they do in spring and summer. The absence of light in the winter makes us want more food and to consume it quicker. However, the more food consumed at any one time, the harder the body has to work to digest it. This makes it difficult to fall asleep and therefore, it is recommended

### Warm Pyjamas

Pyjamas are a very personal thing. There are those who love them and those who hate them, and they sleep completely naked. But if it's cold outside, pyjamas, that cover the whole body, are a great way to keep warm. Those with natural fabrics, such as wool or cotton, are better insulators. For extreme cold, try flannel ones.



that we avoid heavy meals in the 4-5 hour period before bedtime.

### Exercise

During winter, the cold weather makes it difficult to motivate yourself to exercise. As has been previously mentioned, people feel more sluggish and tired throughout the day, causing physical activity levels to drop even further. This means we don't burn up all our energy, which can affect our sleep quality and quantity. However, simple steps can be taken to increase activity, such as walking or cycling to work where possible, or taking a brisk walk in the evenings to help burn off excess energy. Keeping active during winter is important for physical and mental health.

### Warm Bath

Raising body temperature with a warm, not extremely hot, bath is a quick way to reach the right state before going to sleep. In addition, bathing often causes drowsiness, so it's like killing two birds with one stone.


### More Blankets

Air is a very poor conductor of heat, so, trapping it between different layers makes the insulation greater, conserving as much of your body temperature as possible. Blankets also have the advantage that you can remove or add more layers whenever you need to, so, it's a flexible solution.


### Warm Pyjamas

Pyjamas are a very personal thing. There are those who love them and those who hate them, and they sleep completely naked. But if it's cold outside, pyjamas, that cover the whole body, are a great way to keep warm. Those with natural fabrics, such as wool or cotton, are better insulators. For extreme cold, try flannel ones.

### THE WALL



### BABY BLUES



By Rick Kirkman & Jerry Scott

### ZITS



By Jerry Scott & Jim Borgman

# प्रदेश में हुये अलग-अलग तीन सड़क हादसों में सात जनों की मौत

नोखा, धौलपुर, श्रीमाधोपुर में हुये सड़क हादसे, पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया

## हाइवे किनारे खड़े ट्रॉले में घुसी कार, दो दोस्तों की मौत

## सड़क हादसे में देवर, भाभी व भतीजी की दर्दनाक मौत

नोखा, (निसं)। होटल से खाना खाकर लौट रहे दो दोस्तों की कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े कबाड़ से भरे ट्रॉले से टकरा गई।

- देर रात को होटल से खाना खाकर लौट रहे दो दोस्त
- बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े कबाड़ से भरे ट्रॉले से टकरा गई कार



सड़क दुर्घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार को पहचानना मुश्किल हो गया। लेफ्ट साइड से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आसपास के लोगों ने पुलिस को बुलाया जो जानकारी दी। मामला नोखा थाना इलाके के चरकड़ा

गांव के पास नोखा-नागौर रोड का देर रात करीब बारह बजे का है। नोखा एसएचओ अमित स्वामी ने बताया कि बेरासर निवासी राकेश शर्मा (25) और कक्कू निवासी

शिवनारायण जाट (26) दोनों दोस्त हैं। दोनों देर रात नोखा से करीब एक किमी दूर नागौर रोड स्थित एलिनर होटल पर खाना खाने के लिए गए थे। जहां से वापस लौटते समय चरकड़ा

गांव के मिथी मार्केट के पास उनकी कार बेकाबू होकर सड़क किनारे कबाड़ से भरे ट्रॉले से टकरा गई। एसएचओ ने बताया कि हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी नोखा पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को बागड़ी अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवाया, जहां पोस्टमॉर्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। जानकारी के अनुसार, राकेश शर्मा और शिवनारायण जाट दोनों की शादी नहीं हुई थी। राकेश दिल्ली में कूरियर का काम करता था। राकेश के पिता श्रीकिशन शर्मा की रावसिंहनगर के पास परचून की दुकान है। राकेश के एक भाई और एक बहन है। शिवनारायण शेयर मार्केट का काम करता था। शिवनारायण के पिता मधुदरी का काम करते हैं। शिव की दो बहनें हैं।

## अज्ञात वाहन ने बाइक सवार देवर-भाभी एवं भतीजी को टक्कर मार दी थी

धौलपुर, (निसं)। मनिया थाना इलाके में बुधवार को आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सुआ का वाग चौराहे के नजदीक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार देवर-भाभी एवं भतीजी को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं भतीजा दूर जाकर गिर गया, जिससे बाल-बाल बच गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर मनिया सरकारी अस्पताल की मोर्चरी पर रखवाया है।



मृतक देवर राकेश व भाभी नूतन।



■ भतीजा बाल-बाल बचा, रिश्तेदारी में धार्मिक आयोजन में शामिल होने जा रहे थे

जैसे ही सुआ का वाग चौराहे के पास पहुंचा तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। इस सड़क हादसे में विकास, नूतन एवं अनुष्का की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक बच्चा दूर जाकर गिर गया, जिससे वह बाल-बाल बच गया। घटना से मौके

पर चीख-पुकार मच गई। हादसे को देख स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा घटनास्थल पर पहुंच गए। घटना से पुलिस ने मृतक के परिजनों को

अवगत करा दिया है। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। घटना को लेकर थाना प्रभारी मीणा ने बताया अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार देवर, भाभी एवं एक भतीजी की मौत हुई है। अज्ञात वाहन चालक दुर्घटना को अंजाम देकर फरार हो गया है। हाईवे पर नाकाबंदी पॉस्ट लगाए गए हैं। हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। मुकदमा दर्ज कर मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

## आगरा से खाटूश्याम जा रही कार टोल बॉक्स से टकराई, दंपती की मौत

## महाकुंभ जा रहा परिवार यूपी में हादसे का शिकार, दो की मौत

श्रीमाधोपुर, (निसं)। कब्जे के निकट रलावता-खंडेला टोल में बुधवार अलसुबह हुए सड़क हादसे में एक अनियंत्रित कार डिवाइडर और बंद पड़े टोल बॉक्स से टकराकर पलटी खा गई। हादसे में आगरा निवासी पति-पत्नी अजित सिंह व सीमा की मौत हो गई, जबकि तीन बच्चों सहित छह लोग घायल हो गए।



रलावता-खंडेला टोल में हुये सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई।



पर उनको जयपुर रेफर किया गया।

पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग दौड़कर आए।

■ हादसे में तीन बच्चों सहित छह लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराया

■ कार सवार सभी लोग खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए जा रहे थे

स्थानीय पुलिस तथा 108 एंबुलेंस को सूचना देकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। 108 एंबुलेंस इम्पटी हेमंत कुमार सैनी, चालक

संजय सिंह ने बताया कि अजित सिंह ने सड़क हादसे में मौके पर ही दम तोड़ दिया था। उसकी पत्नी सीमा ने जयपुर रेफर के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं सड़क हादसे में अन्य घायलों का इलाज जयपुर के एएसएमएस अस्पताल में जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह परिवार आगरा से खाटूश्याम जी दर्शन करने के लिए रवाना हुआ था, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण वे श्रीमाधोपुर से निकल रहे थे, लेकिन खंडेला श्रीमाधोपुर रोड रलावता के पास टोल टेक्स से टकराने से सड़क हादसे का शिकार हो गए।

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में रहनेवाला एक परिवार प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने जा रहा था, इस दौरान कार को उत्तरप्रदेश के झांसी जिले में अन्य वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रार्थमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा लौटते समय 13 साल के बालक ने यहां दम तोड़ दिया। शव को बुधवार सुबह पोस्टमॉर्टम करने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

■ कार को उत्तरप्रदेश के झांसी जिले में अन्य वाहन ने टक्कर मार दी थी

प्रताप नगर थाना पुलिस ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद नगर निवासी दीपक दाधीच, अपने बेटे 13 वर्षीय अर्धव के साथ ही भीमा देवी व मकराना

कंवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अर्धव घायल और बाकी लोग चोटिल हो गये। अर्धव दाधीच को वहां प्रार्थमिक उपचार के बाद यह परिवार भीलवाड़ा लेकर आ रहा था। यहां सुवाणा गांव के नजदीक अर्धव अचानक बेसुध हो गया। उसे तत्काल शोधक के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे एमजी अस्पताल भिजवा दिया गया। एमजी अस्पताल में प्रार्थमिक परीक्षण के बाद अर्धव को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया, जिसका बुधवार सुबह प्रताप नगर पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराया, शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

## पार्षद पर हमला

भीलवाड़ा, (निसं)। अपने ही बोर्ड से चुने महापौर द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना भाजपा के पार्षद को उस वक्त महंगा पड़ गया, जब महापौर के चहेते पार्षदों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। भाजपा से चुने गए वार्ड 25 के पार्षद राजेश सिंसोदिया निगम में फेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कार्यपालिका से लेकर न्यायपालिका तक अपनी शिकायत पहुंचाने के बाद गत दिनों महापौर राकेश पाठक और आयुक्त हेमराम चौधरी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के दो मामलों में एसीबी में परिवार दर्ज होने के बाद से महापौर पाठक बौखालाए हुए हैं। शिकायतकर्ता सिंसोदिया का आरोप है कि आज राजेश की तरह जब वो निगम पहुंचे तो महापौर के इशारे पर उनके चहेते पार्षद उदयलाल तेली ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें जलील करने का प्रयास किया वहीं नहीं भाजपा से ही हाथ 12 के पार्षद हेमंत शर्मा ने भी सिंसोदिया को अपशब्द कहते हुए हमला कर दिया।

## 13 भूखण्डों को बेचकर करोड़ों का गबन, आरोपी गोवा से गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। शहर की उदयमंदिर पुलिस ने फर्जी आम मुख्यायारनामा के आधार पर 13 भूखण्डों को बेचने के बाद करोड़ों रूपए हड़पने के आरोपी को गोवा से गिरफ्तार किया है। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था। उसके गोवा में होने की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम वहां पहुंची और दस्तयाब कर लाई। उसका एक अन्य साथी भी पुलिस के हाथ लगा है। वहीं तीसरे साथी की तलाश की जा रही है जोकि फरार हो गया। थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि धोखाधड़ी के आरोपी देवेश शर्मा निवासी बोड़ों की घाटी, नवचौकिया को गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ में एक अन्य साथी हरीश वैष्णव को भी गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी देवेश शर्मा भूखण्डों का बेचान कर फर्जीवाड़ा करते हुए मडगांव गोवा में जाकर रहने लगा था। एक अन्य आरोपी पीयूष दाधिक फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। थानाधिकारी खोजा ने बताया कि मामले में रामबाग रोड कागा निवासी कौशल्या देवी बंग पत्नी पुखराज बंग ने रिपोर्ट दी थी। इसके अनुसार उसके स्वयं की ठाम दड़जर की जमीन का फर्जी व कुटर्चित आम मुख्यायारनामा तैयार कर भूखण्डों को आगे अलग अलग व्यक्तियों को बेचान कर दिया है। थानाधिकारी खोजा ने बताया कि सह आरोपी हरिश वैष्णव पुत्र गंगादर वैष्णव निवासी चूने की चौकी, ब्रह्मपुरी जोधपुर को भी गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया।

## पहाड़ी एवं नगर में ठेकेदार वसूल कर रहा अधिक रॉयल्टी

भरतपुर, (निसं)। जिला डींग की तहसील पहाड़ी एवं नगर में जिस कंपनी ईआरसीसा का ठेका संचालित है उस कंपनी का ठेकेदार रॉयल्टी के नाम पर निर्धारित दर से अधिक रॉयल्टी वसूल कर रहा है। ठेका नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। खान विभाग द्वारा ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ठेकेदार की की कारगुजारी का खनन विभाग के अधिकारियों को बखूबी पता होने के बावजूद भी नियमों का पालन नहीं करवाया जा रहा है। ठेका नियमों के तहत रॉयल्टी राशि रूपए 49.28 पैसे निश्चित है लेकिन ठेकेदार पत्थर पर रॉयल्टी 70 से 80 प्रति टन वसूल कर रहा है। गलत तरीके से ठेकेदार द्वारा पत्थर पर रॉयल्टी गाड़ियों पर फिक्स करके वसूल की जा रही है जो ठेका

■ खान विभाग द्वारा ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है

नियमों के अनुसार गलत है। ठेका नियमों में गाड़ी में जितना माल हो उस माल की रॉयल्टी दर के अनुसार रॉयल्टी वसूल करना अनिवार्य है लेकिन यहां ठेकेदार 70 से 80 तक प्रतिदिन वसूल कर रहा है जो गैरकानूनी है। क्रशर से पिसे हुए खनिज की रॉयल्टी दर 60 प्रति टन के हिसाब से वसूल कर रहा है। ठेका क्षेत्र में कोई भी खान संचालक या क्रशर संचालक अधिक राशि वसूल करने के विरोध में शिकायत करता है या आवाज उठाता है तो उस आवाज को उठाने वाले

व्यक्ति के खिलाफ पुलिस एवं खान विभाग द्वारा कार्रवाई कराने की धमकी दी जाती है जिसके कारण दबाव में यह अवैध वसूली का खेल चल रहा है। खान विभाग द्वारा जारी प्रपत्र फार्म संख्या 44 के बिना ही अवैध वसूली का खेल चल रहा है वह ठेकेदार द्वारा खनन विभाग द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल करना ठेका नियमों के खिलाफ है। ठेकेदार एवं ठेका कर्मचारियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रखा है जो अवैध पंचियों से गाड़ियों का परिवहन किया जा रहा है वहां पर ठेका नियमों का किसी भी प्रकार से पालन नहीं किया जा रहा है। रॉयल्टी ठेकेदार की इस कार गुजारी के कारण ठेका और अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है एवं खान विभाग व पुलिस ठेकेदार के दबाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

## वांटेड ड्रग्स तस्कर और सप्लायर गिरफ्तार

पाली, (निसं)। पाली पुलिस ने ड्रग्स तस्कर के मामले में वांटेड ड्रग्स तस्कर और सप्लायर को करीब 15 दिन की मशकत के बाद आखिरकार पकड़ने में कामयाबी हासिल की। दोनों को पुलिस प्रतापगढ़ से दस्तयाब कर लाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों का प्रदेश में मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक में नेटवर्क फैला हुआ है। इसको लेकर पुलिस पड़ताल में जुटी है। सरदर थाना के सहदेव चौधरी ने बताया कि 29 जनवरी को सोनाईमांझी टोल प्लाजा पर मेवाड़ से मारवाड़ लाई जा रही 561 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स सहित एक ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था। उससे मिली जानकारी के अनुसार मामले में वांछित ड्रग्स तस्कर व सप्लायर को पकड़ने के लिए टीम गठित की, जो आरोपियों की तलाश में उदयपुर, चित्तौड़गढ़,

■ आरोपियों ने मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक नशे का कारोबार फैला रखा था

निम्बाहेड़ा, प्रतापगढ़ में कई दिनों तक घूमती रही। आखिरकार आरोपियों के प्रतापगढ़ में छुपे होने की सूचना पर टीम प्रतापगढ़ पहुंची। जहां से ड्रग्स तस्कर अजहूदीन पुत्र शमशेर खान पठान निवासी मुसलमानों का बास कोटड़ी प्रतापगढ़ और सप्लायर दिलीप पुत्र मांगीलाल कीर निवासी कोटड़ी प्रतापगढ़ को दस्तयाब कर पाली लाया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक नशे का कारोबार फैला रखा है। इसको लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है।

## मां-बाप ने नवजात को कंटली झाड़ियों में छोड़ा

पाली, (निसं)। पाली में मां-बाप 10 से 15 दिन की नवजात को कंटली झाड़ियों में मरने के लिए छोड़ कर चले गए। रास्ते से गुजर रहे एक किसान ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। पानी और दूध पिलाकर चुप कराया। नवजात को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। जानकारी के अनुसार सरदर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह किसान इकलस खान सिंघी बाइक पर अपने खेत से निम्बाड़ा स्थित घर की ओर जा रहे थे। भालेलाव-निम्बाड़ा गांव के बीच झाली के पास उन्हें बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। झाड़ियों में जाकर देखा तो एक मासूम रो रही थी। उन्होंने तुरंत उसे संभाला और निम्बाड़ा, भालेलाव, निम्बली के ग्रामीणों का सूचना दी। उन्होंने मासूम को संभाला और सीने से लगाकर चुप करवाने का प्रयास किया। इस बीच मौके पर ग्रामीण पानी और दूध लेकर पहुंचे। सूचना पर सरदर थाना पुलिस की मौके पर पहुंची। मासूम को तुरंत इलाज के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कर लिया गया है। मासूम की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ग्रामीण ओमप्रकाश मेघवाल ने बताया कि मासूम को अच्छे कपड़े और

■ नवजात को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां बच्ची की हालत खतरे से बाहर है

पैरों में मौजे पहना रखे थे। बेबी टॉवल में लिपटा कर उसे छोड़ा गया। उसके बाल बनाए हुए थे और आंखों में काजल भी लगाया हुआ था। पूरा श्रंगार कर उसे परिजन उसे झाड़ियों में छोड़कर चले गए। डॉक्टर बोले कि बच्ची एकदम स्वस्थ है, जांचें करवा रहे हैं। मामले में बांगड़ हॉस्पिटल के चाइल्ड विभाग के एचओडी डॉ. आरके विश्वनेई ने बताया कि बच्ची का जन्म 10 से 15 दिन पहले हुआ है। बच्ची का वजन 2.6 है। प्रारंभिक जांच में वह स्वस्थ नजर आ रही है। फिर भी आवश्यक जांचें करवा रहे हैं, जिससे पता चले सके कि उसे किसी तरह का इन्फेक्शन या कोई बीमारी तो नहीं है। मामले में सरदर थाने के सब इंस्पेक्टर ओमप्रकाश विश्वनेई ने बताया कि मासूम को इलाज के लिए बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। बाल कल्याण समिति को भी सूचना दी। शुरुआती जांच में बच्ची स्वस्थ है। डॉक्टरों की टीम मॉनिटरिंग कर रही है।

## चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया

अजमेर, (कासं)। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चोरों ने आरपीएफ में तैनात कांस्टेबल के सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात अंजाम दी और अंजाम से 80 हजार नकदी सहित सोने-चांदी के जेवरत पर हाथ साफ कर फरार हो गए पीड़ित ने पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घृष्टा कायडू रोड निवासी राजभंवर आरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। उन्होंने बताया कि अपने परिवार के साथ पुलिस लाइन अजमेर स्थित अपने रिश्तेदार के घर एक दिन के लिए गए थे। अगले दिन वापस लौटे तो घर के ताले टूटे हुए मिले। अंदर जाने पर अलमारी और लॉकर भी खुले हुए थे। पलंग पर सारा सामान बिखरा पड़ा था। सूना मकान होने की वजह से चोरों ने आराम से घर की तलाशी ली। राजभंवर ने बताया कि चोरों ने तीन सोने के मंगलसूत्र, गले का चिक सेट, रखड़ी का सेट, तीन जोड़ी सोने के श्रृंखले अन्य चांदी के जेवरत और 80 हजार रूपए नकद चोरी कर लिए। चोरों ने वारदात को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगी।

## 12 लाख रूपए की नशीली दवाओं की खेप पकड़ी, महिला समेत तीन गिरफ्तार

नशीली दवाएं गुजरात से आती हैं और राजस्थान के जरिए पंजाब सप्लाई की जाती हैं

बीकानेर, (निसं)। रेंज की स्पेशल टीम और महाजन थाना पुलिस ने अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस-वे से नशीली दवाओं की खेप पकड़ी है। तस्करों का नेटवर्क तीन राज्यों में फैला हुआ है। नशीली दवाएं गुजरात से आती हैं और राजस्थान के जरिए पंजाब सप्लाई की जाती हैं। पुलिस ने एक्सप्रेस-वे पर पहली बार कार्रवाई करते हुए महिला समेत तीन लोगों को पकड़कर 12 लाख रूपए की दवाएं बरामद की है।

■ तीनों अभियुक्तों ने नशे की खेप जैसलमेर जिले के रामदेवरा से ली और कार से पंजाब ले जा रहे थे

बीकानेर रेंज की स्पेशल टीम और महाजन थाना पुलिस ने देर रात को एक्सप्रेस-वे पर पहली बार कार्रवाई करते हुए महिला समेत तीन लोगों को पकड़कर 12 लाख रूपए की दवाएं बरामद की है। बीकानेर रेंज की स्पेशल टीम और महाजन थाना पुलिस ने देर रात को एक्सप्रेस-वे पर पहली बार कार्रवाई करते हुए महिला समेत तीन लोगों को पकड़कर 12 लाख रूपए की दवाएं बरामद की है। नशीली दवाएं गुजरात से आती हैं और राजस्थान के जरिए पंजाब सप्लाई की जाती हैं। पुलिस ने एक्सप्रेस-वे पर पहली बार कार्रवाई करते हुए महिला समेत तीन लोगों को पकड़कर 12 लाख रूपए की दवाएं बरामद की है। नशीली दवाएं गुजरात से आती हैं और राजस्थान के जरिए पंजाब सप्लाई की जाती हैं। पुलिस ने एक्सप्रेस-वे पर पहली बार कार्रवाई करते हुए महिला समेत तीन लोगों को पकड़कर 12 लाख रूपए की दवाएं बरामद की है।

नियमों के अनुसार गलत है। ठेका नियमों में गाड़ी में जितना माल हो उस माल की रॉयल्टी दर के अनुसार रॉयल्टी वसूल करना अनिवार्य है लेकिन यहां ठेकेदार 70 से 80 तक प्रतिदिन वसूल कर रहा है जो गैरकानूनी है। क्रशर से पिसे हुए खनिज की रॉयल्टी दर 60 प्रति टन के हिसाब से वसूल कर रहा है। ठेका क्षेत्र में कोई भी खान संचालक या क्रशर संचालक अधिक राशि वसूल करने के विरोध में शिकायत करता है या आवाज उठाता है तो उस आवाज को उठाने वाले

संवेदनशीलता बरतेगी और ज्यादा पूछताछ नहीं करेगी। रास्ते में रोकने पर शिमला को बीमार बताया जाता था और पुलिस से बच जाते थे। इस बार पुष्पा सूचना होने पर पकड़े गए। नशीली दवाइयों की तस्करि करने वाले पंजाब के स्कूलों में छात्र-छात्राओं में नशे की लत डाल रहे हैं। तस्करों की दवाएं दुकानों पर और स्कूलों में बच्चों को बेचने के लिए दी जाती हैं। दुकानों पर डिब्बे बेच जाते हैं और स्कूलों बच्चों को दवाइयों के एक-एक डिब्बे थमाए जाते हैं जो अपने साथियों और अन्य छात्र-छात्राओं को बेच देते हैं। अभियुक्त पूर्व में 15 बार लाख रूपए की दवाइयों की तस्करि कर चुके हैं, यानी पंजाब में इनका गोरखधंधा जोरों पर है। गुजरात को पंजाब से जोड़ने वाला एक्सप्रेस-वे तस्करों के लिए सफेद रूट बन गया है। एक्सप्रेस-वे के जरिए डोडा-पोस्त, अफीम, शराब और नशीली दवाइयों की तस्करि हो रही है।

एक्सप्रेस-वे गुजरात से राजस्थान होते हुए पंजाब तक जाता है। लंबी दूरी होने के बावजूद इस पर ना तो सीसीटीवी कैमरे हैं और ना ही पुलिस की नियमित गश्त की कोई व्यवस्था है। पूरे रूट पर एक भी पुलिस चौकी या थाना नहीं है। इसलिए तस्कर अब पुराने हाइवे और रास्तों की बजाय एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियों दौड़ा रहे हैं। इस पर उनकी निगरानी भी नहीं होती और दूरी कम होने के कारण ठिकानों तक जल्दी पहुंच जाते हैं। गुजरात और राजस्थान से नशीले पदार्थ पंजाब पहुंच रहे हैं और वहां से बड़े पैमाने पर शराब की तस्करि की जाती है। एक्सप्रेस-वे बनने के बाद से सुरक्षा पर सवाल उठे हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं निकल पाया है। टीम में एसआई देवीलाल सहायण, हेड कांस्टेबल विमलेश कुमार, कांस्टेबल रविन्द्रसिंह, बाबूलाल, मुखराम, राजेश कुमार और महाजन थाना एसएचओ कश्यपसिंह शामिल थे।

संक्षिप्त

छात्राओं को मिली स्कूटियां

निवाड़ी। पूर्व छात्र संस्था द्वारा संचालित रानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय में कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना में चयनित छात्राओं को स्कूटियां वितरित की गईं। कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता, प्रचार सचिव हनुमानसहाय पारीक, संस्था सदस्य महेंद्र जैन, प्राचार्य डॉ. रेनु अग्रवाल ने चयनित छात्राओं को पुष्प गुच्छ व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। महाविद्यालय के उप प्राचार्य दीपेंद्रसिंह, सहायक आचार्य रोहन पारीक, अनीश खान, अब्दुल गनी, गोविंदा गौतम, प्रिया चौधरी, कोमल स्वामी, अश्विनी लक्ष्यकार, कैलाशचंद्र विजय, चयनित छात्रा प्रियंका मीणा, राम मोना, कोमल मीणा, रिया मीणा, प्रियंका मीणा, पूजा मीणा, रेखा मीणा व अर्पणा शर्मा सहित महाविद्यालय की कई छात्राएं उपस्थित रही।

निष्काशित श्रेणी के 20 परिवारों को नोटिस जारी

कोटपूतली। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित अपात्र श्रेणी के परिवारों को सूचीबद्ध से खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाने के लिये 28 फरवरी 2025 तक गिव-अप अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत निष्काशित श्रेणी के परिवार जिला रसद अधिकारी कार्यालयधरस.डी.ओ. कार्यालय या उचित मूल्य दुकान से फॉर्म लेकर अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि गिव-अप अभियान में निष्काशित श्रेणी के जिन परिवारों द्वारा खाद्य सुरक्षा से नाम नहीं हटाया जायेगा, उनसे 27 रुपये प्रति किग्रा गेहूँ की दर से वसूली एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्रावधानों के अनुरूप विधिक कार्यवाही अमल में ली जायेगी।

भण्डारे के साथ अन्न क्षेत्र की हुई पूर्णाहुति

शाहपुरा। प्रयागराज महाकुम्भ में राजस्थान शेखावाटी में एक महीने से चल रहे अन्न क्षेत्र की गंगा पूजन व भण्डारे के साथ पूर्णाहुति सम्पन्न हुई। राजस्थान शेखावाटी खालसा के संभालाक महामण्डलेवर गणेशदास ने अनेक सन्त व भक्तों के साथ गंगा पूजन किया। गणेश दास ने बताया कि 12 जनवरी से अब हर अनवरत चल रहे अन्नक्षेत्र में लगभग एक लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। एक महीने से चल रहे अन्नक्षेत्र सीताराम नाम संकीर्तन का भी विश्राम हुआ। गणेश दास ने कल्पवास कर रहे भक्तों एवं सभी सन्तों का सम्मान कर सबको विदाई प्रदान की।

निरीक्षण किया

पावटा। उपखंड अधिकारी पावटा कृषि उपयाग्य द्वारा बुधवार को भू.अ.नि.वृत्त/पटवार मंडल व सहायक कृषि अधिकारी कृषि विभाग टसकोला का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के समय भू.अ.नि.वृत्त/पटवार मंडल टसकोला व सहायक कृषि अधिकारी कृषि विभाग टसकोला बंद मिले व चार कार्मिक अनुपस्थित मिले। जिस पर अनुपस्थित पाये गये कर्मचारियों व बंद मिले कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों के संबंध में उपखंड अधिकारी पावटा ने बताया कि सभी अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

दहेज मुक्त विवाह करने का संदेश

शाहपुरा। विराटनगर के बोलवाड़ी निवासी रामस्वरूप सिंधु (प्रशासनिक अधिकारी) के पुत्र आकाश सिंधु जो आन्विकी अधिकारी के पद पर चंडीगढ़ में कार्यरत है। जिसमें समाज को बहुत ही सकारात्मक संदेश देते हुए शादी में एक भी रुपए का दहेज स्वीकार नहीं किया। जिस पर गाँव लोगों व रिश्तेदारों ने कहा कि ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए की दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना चाहिए। यह जानकारी आर के युग जनसेवा समिति के अध्यक्ष रोहितारा भड़ाना व नरेश सिंधु ने दी जानकारी।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक कराये।

कोटपूतली। जिला कोटपूतली-बहरोड़ में जिला एवं सत्र न्यायालय खोले जाने को लेकर नवगठित जिले में कोटपूतली एवं बहरोड़ के अधिकारियों द्वारा अपने-अपने मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय व इसके समकक्ष न्यायालयों को खोले जाने की मांग की जा रही है। इसको लेकर जहाँ बहरोड़ के अधिकार्य पेन डाउन हड़ताल पर चले गये है।

वहीं मंगलवार को जिला अधिभाषक संघ, कोटपूतली द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री पजन लाल शर्मा, विधि मंत्री जोगाराम पटेल एवं जिला व सत्र न्यायाधीश जयपुर सहित अन्य को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद बुधवार 12 फरवरी को कोटपूतली के वकीलों भी आगामी 15 फरवरी तक पेन डाउन हड़ताल पर चले गये है। हालांकि राज्य सरकार ने नवगठित जिले का मुख्यालय कोटपूतली को मानते हुये यहाँ जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, जिला मुद्रांक कार्यालय व कोषालय सहित अन्य कई मुख्य कार्यालयों को पहले से ही

फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार

सांभरझील, (निर्स)। पोक्सो एक्ट में विगत 6 माह से फरार चल रहे इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में जोबनेर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस आरोपी से पृष्ठताछ कर पता लगाने में जुटी है कि विगत 6 माह से उसने फरारी किस-किस जगह पर काटी। आनन्द शर्मा, उप महानिरीक्षक पुलिस सह पुलिस अधीक्षक जिला जयपुर ग्रामीण ने बताया कि 29 जुलाई 2024 को पुलिस थाना जोबनेर पर पोक्सो एक्ट के संबंध में प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें आरोपी को श्री गिरफ्तारी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जयपुर ग्रामीण रजनीश पूर्निया, श्रीमति प्रियंका वैष्णव वृत्ताधिकारी वृत्त जोबनेर के निरुक्त सुपरविजन तथा सुहेल उप निरीक्षक थानाधिकारी जोबनेर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा आसूचना संकलन व तकनिकी सहायता द्वारा प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी ओमप्रकाश जाखंड उर्फ जाजवीर उर्फ वीरु पुत्र मन्नाराम रातौत उम्र 24 साल निवासी भुगु जाखंड की ढाणी जोरपुर थाना जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण का रहने वाला है।

कलश यात्रा निकाली एवं कृष्ण के भजनों पर झूमे श्रद्धालु

चाकसू। कस्बे के मनोहर तालाब स्थित श्री गोपीनाथ मंदिर के 18 वें पाटोत्सव के उपलक्ष में मंदिर समिति की ओर से मंदिर प्रांगण में तीन दिवसीय संगीतमय नानी बाई रो मायरो कथा का आयोजन किया गया। औचक निरीक्षण के समय भू.अ.नि.वृत्त/पटवार मंडल टसकोला व सहायक कृषि अधिकारी कृषि विभाग टसकोला बंद मिले व चार कार्मिक अनुपस्थित मिले। जिस पर अनुपस्थित पाये गये कर्मचारियों व बंद मिले कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों के संबंध में उपखंड अधिकारी पावटा ने बताया कि सभी अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। ध्यानेश्वर महादेव मंदिर में कथा वाचक पंडित उमेश व्यास एवं विद्वान पंडितों के सानिध्य में विधि विधान पूर्वक मुख्य यजमान कविता सौंपी एवं निरंजन शर्मा द्वारा पूजा की गई तत्पश्चात

ए. डी. एम. ने अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के पोस्टर का विमोचन किया

टोक। केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सीएल बुनकर द्वारा अगवत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। साथ ही, सहकारिता से अधिकाधिक व्यक्तियों को जोड़ा जाना

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है

अपेक्षित है। प्रक्रिया में सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों की सदस्यता में वृद्धि करना तथा सहकारी समितियों की समाज में प्रासंगिकता एवं लाभप्रदता को बढ़ाया जाना अपेक्षित है। सहकारी द्वारा सरकार को योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए सहकारी समितियों व सहकारी बैंक से सदस्यों को जोड़ा है। जमीनी स्तर पर

कोटपूतली जिला मुख्यालय पर डीजे कोर्ट खुलवाने की मांग



वकीलों ने विधायक हंसराज पटेल को ज्ञापन सौंपा।

कोटपूतली में खोला है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय में कोटपूतली में जिला एवं सत्र न्यायालय खोले जाने के लिये कस्बे की पुरानी सब्जी मण्डी स्थित राजकीय कन्या पाठशाला को अस्थायी भवन के तौर पर चिन्हित भी कर लिया गया था एवं जिला न्यायालय के निर्माण हेतु कालुहेड़ा में अन्य

कार्यालयों के साथ भूमि भी आवंटित कर दी गई थी। लेकिन जिला गठन के डेढ़ वर्ष बीत जाने के बावजूद भी यहाँ डीजे कोर्ट नहीं खोला जा सका है। अभी तक जिला एवं सत्र न्यायालय जयपुर एवं अलवर के तहत कार्य कर रहे कोटपूतली बहरोड़ जिले का नया जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित किया जाना है।

आने वाले मार्च माह में नवगठित जिले का डीजे कोर्ट स्थापित किये जाने की सम्भावनायें जताई जा रही है। चर्चा इस बात की भी है कि राज्य सरकार के इसी बजट में जिला एवं सत्र न्यायालय के लिये अस्थायी तौर पर भवन चिन्हित कर उसकी स्थापना एवं मरम्मत के लिये बजट जारी किया जायेगा।

कोटपूतली के वकीलों ने किया आन्दोलन का ऐलान, 15 फरवरी तक पेन डाउन हड़ताल

वकीलों ने डीजे कोर्ट की मांग का आन्दोलन चलाने के लिये एक कमेटी का गठन भी किया गया है। जिसमें सुरेश चंद मीणा, प्रेमप्रकाश शर्मा, राजेंद्र चौधरी, गोविन्द रावत, राजेंद्र रहीसा, प्रदीप चौधरी, अशोक रहीसा, अंकित स्वामी, अनिल आर्य, विकास मीणा, हितेश यादव, दिनेश अग्रवाल, उमपेंद्र सिंह बड़गुर्जर, रत्नेश्वर यादव, सुभाष चंद यादव, राकेश शर्मा, अशोक आर्य, शिवकुमार शर्मा, हरचंद दहमीवाल, सुभाष मीणा, मनीष मुन्कड़ आदि अधिकारियों को शामिल किया गया है। कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो भी अधिकार्य हड़ताल का उल्लंघन करेगा उस पर जुर्माना लगाया जायेगा। संघ के सदस्यों द्वारा गुरुवार को आन्दोलन की रूपरेखा तय की जायेगी।

लाल झंडा टैक्सो यूनियन ने शाहपुरा पार्क के पास प्रदर्शन किया

शाहपुरा। कस्बे के नजदीक मनोहरपुर टोल प्लाजा पर लोकल टैक्सो वाहनों के मासिक पास 150 रुपये से बीस गुणा बढ़ाकर 2940 रुपये बढ़ाने से नाराज लाल झंडा टैक्सो यूनियन के वाहन चालकों ने यूनियन अध्यक्ष महेश शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को शहर के श्री नारायण पार्क के पास दो घंटे धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। धरने की सूचना मिलने पर शाहपुरा विधायक मनीष यादव तुरंत मौके पर पहुंच उच्च अधिकारियों से बात कर आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया गया। टैक्सो चालकों ने बताया कि बड़ी राशि चुकाकर हम टैक्सो की कमाई में बची राशि से परिवार चलाता मुश्किल हो गया है। लगभग 10 साल से लोकल वाहनों का मासिक पास 150 रुपये का ही बनाया जाता रहा है लेकिन आचनक से 1 फरवरी से करीब 20 गुणा वृद्धि करते हुए 2940 रुपये टोल टैक्स मासिक पास कर दिया जो वाहन स्वामी के लिए देना संभव नहीं है। पिछले दिनों मनोहरपुर टोल पर प्रदर्शन

मनोहरपुर टोल प्लाजा पर लोकल टैक्सो वाहनों का मासिक पास 150 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर बीस गुना 2940 रुपये करने पर आक्रोश

किया गया लेकिन अभी तक बढ़ाई राशि वापस नहीं ली गई जिससे अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कोई कारवाई नहीं होने से नाराज लाल झंडा टैक्सो यूनियन के सभी वाहन चालकों ने चक्का जाम कर सुबह 10 बजे नारायण दास पार्क के पास विरोध प्रदर्शन किया। टैक्सो चालकों ने पन-एचएआई अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। विधायक मनीष यादव ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री लोकल वाहनों को आधार कार्ड दिखाने

पर टोल फ्री की बात करते संसद में बयान देते हैं वहीं कामजों में आदेश जारी कर एक साथ 20 गुणा टोल बढ़ाने के निकाल कर वाहन चालकों को परेशान किया जा रहा है। किसी भी सूत्र में टैक्सो चालकों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा राशि घटाने के लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करना पड़े तो करेंगे।

प्रदर्शन की सूचना मिलने पर ही शाहपुरा विधायक मनीष यादव, थानाधिकारी सुगन सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने चालकों को शांत कराते हुए उच्च अधिकारियों के शांत कराते हुए उच्च अधिकारियों एम.एस.आई प्रोजेक्टर डायरेक्टर अजय आर्य, जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी से वार्ता कर जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन प्रेम देवी, मुकेश सुडानिया, जितेंद्र शर्मा, पार्थद चन्मथ्यम सैनी, देवेंद्र, विशाल पलसानीया, आलोक, निहाल पलसानीया, मनजीत खटाणा, लोकेश सामोता, धर्मपाल यादव समेत सैकड़ों टैक्सो चालक मौजूद रहे।

रविदास जयती पर शोभायात्रा निकाली

सांभरझील, (निर्स)। अंबेडकर भवन में समाज सुधारक क्रांतिकारी संत रविदास महाराज को 648 वीं जयंती मनाई गई। संत रविदास की शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों में निकाली गई। संत रविदास के अनुयायियों ने शिक्षाप्रद भजनों पर नचते, गाते, झुंमते हुए उत्साह पूर्वक भाग लिया। अंबेडकर भवन पहुंचकर शोभायात्रा का समापन हुआ। सभी लोगों ने संत रविदास की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धा से नमन किया। तत्पश्चात उनके विचारों एवं शिक्षाओं पर सेमिनार का आयोजन किया गया तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद कर वक्तव्यों ने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर मुख्य संस्कार प्रोफेसर डॉ. ज्ञान प्रकाश दासमाने ने बताया कि संत रविदास आध्यात्मिक और सामाजिक संदर्शों के जरिए समाज में जागरूकता के लिए काम किया करते थे।

सूचना साहेदर फर्म M/s Highway Service Station से आंगीती मोनिका चोपरी पल्लि श्री रेखा चोपरी जो साहेदरजी फर्म से सेवानिवृत्त दिनांक 10 सितंबर, 2024 को हो चुके हैं तथा इनके स्थान पर नये साहेदर नौजस्त बसल को दिनांक 10 सितंबर, 2024 को नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया है।

समन बनम कायम, मुकाम आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दीवानी अज अदालत अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 जयपुर जिला जयपुर

अनवार अहमद बनम अरुण कुमार मुखर्जी दावा बाबत सविदा की विधिष्ट अनुपालना मुकदमा सं. 67/2022

बनाम-1. अनामिका पुत्र अरुण कुमार मुखर्जी, 2. अनामिका पुत्री अरुण कुमार मुखर्जी, निवासीयान मुखर्जी बिल्डिंग, अजमेर, सवाईबाबू का बाग, कान्ती नगर, बनीपार्क, जयपुर। एचिक वादी ने इस अदालत में तारीख...मा...स... को अनवार अहमद बनम अरुण कुमार मुखर्जी दावर की जो कि वाद में फौद हो गया और चुक...मजकूर के दरख्तास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतावफकी...मजकूर के करयम मुकाम जायज ही और इस्तुद्दा की है, वजाय उसके आप पक्षकार बनाये जाते। लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जावबदेही...आपको तारीख 01.03.2025 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकदर पर आपके हाजिर ना होने पर मुकदमा आपकी मौर हाजिरी में सुना व फैसला किया जावेगा। बरसले मेरे दरख्तल व मुदर अदालत के आज तारीख 12.02.2025 को अदालत के आज। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-3, जयपुर जिला-जयपुर

हैलूक वसिंत कराने के लिये सूचना दरखस्तान किरायन अतिरिक्तम 02/2025 के अन्वय 5 में किराने के पुनरीक्षण एवं बंदवशी अवकाश प्रार्थना पर सम्बन्ध मन्त्री न्यायस्थान किरायन अतिरिक्तम अरुण, मुकदमा सं. 18/2024

अतीरिक्तम अरुण-04, 01, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056,



## संक्षिप्त

## संत रविदास जी का प्रकाश पर्व मनाया

श्रीमाधोपुर। श्री गुरुद्वारा सिंह सभा पंजाबी मोहल्ला श्रीमाधोपुर के सरदार अर्जुन सिंह ने बताया कि बुधवार को संत श्री रविदास जी का प्रकाश पर्व मनाया गया। प्रातः 6 बजे से प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी व श्री जपजी साहिब पाठ, 7 बजे से श्री सुखमणि साहिब पाठ, 8:15 बजे से आशा दीवार व कीर्तन दरबार, 9:30 बजे आरती एवं अरदास तथा 10 बजे से गुरु का लंगर भरणया गया। श्री गुरुद्वारा सिंह सभा के अनुसार कार्यक्रम में हरीश वधवा, दीनदयाल सतीजा, टैकचंद नारंग, दश वधवा, ठाकुरदास, नरेंद्र आदि एवं महिलाओं में सुनीता पंजाबी, ललिता खुराना, सार्गी खुराना, रवी कक्कड़, सिमरन नारा, अमृत कौर आदि काफ़ी क्षेत्रवासियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

## सहकारिता मंत्री को सौंपा ज्ञापन

निवाड़ी। सरसों खरीद प्रति किसान 40 किंवटल एवं प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति को खरीद केंद्र बनाने के की मांग को लेकर किसान महापंचायत पदाधिकारियों ने सहकारिता मंत्री गौतमकुमार दक को ज्ञापन सौंपा है। महापंचायत के युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी व जिलाध्यक्ष गोपीचाल जाट ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिकतम 25 किंवटल सरसों एक किसान से खरीदी जाती है। जिसे बढ़ाकर 40 किंवटल करवाने किया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को गैरटी कानून बनाने व प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति को खरीद केंद्र बनाने की मांग को लेकर मंत्री गौतमकुमार दक को ज्ञापन सौंपा है।

## फॉर्मर रजिस्ट्री शिविर आज से

कोटपतली। एग्स्ट्रीकट योजनांतर्गत फॉर्मर रजिस्ट्री शिविर 13 फरवरी गुरुवार से आयोजित किये जायेंगे। कोटपतली एसडीएम ब्रुजेश कुमार ने बताया कि एग्स्ट्रीकट योजनांतर्गत फॉर्मर रजिस्ट्री शिविर पहलिल कोटपतली को ग्राम पंचायत बखराना व रायकरणपुर में 13 से 15 फरवरी को आयोजित किये जायेंगे।

## यातायात के नियमों की जानकारी दी

चौम / कालाडेर। कालाडेर थाना प्रभारी बाबूलाल मीणा ने बुधवार को थाने के सामने से गुजरने वाले वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ ही यातायात नियमों की पालना करने की बात कही वहीं मोटरसाइकिल पर परिवार के सदस्यों के साथ जा रहे छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी के साथ हेलमेट लगाने व तेज गति से वाहन न चलायें और परिवार के सदस्य को वाहन चलाने के दौरान हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करने की जानकारी दी।

## प्रायोगिक परीक्षा आज से

निवाड़ी। राजकीय महाविद्यालय में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के आदेशानुसार स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रथम आंतरिक एवं तृतीय वर्ष प्रायोगिक परीक्षा 13 से 28 फरवरी तक आयोजित होगी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर दीपकान जैन ने बताया की महाविद्यालय द्वारा जारी आंतरिक व प्रायोगिक परीक्षा समय सारणी को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यार्थी निर्धारित समयानुसार परीक्षा में उपस्थित होंगे।

## अवैध हथियार व शिकार करने का आरोपी गिरफ्तार

टोंका। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में अवैध हथियारों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे पुलिस अभियान के अन्तर्गत दूनी थाना पुलिस ने दो मकानों से अवैध हथियार बरामद किये, जिसमें दो टोपीदार बन्दूक, एक बन्दूक गन, दो चूरा व मांस काटने के लकड़ी के गुट्टे बरामद किये हैं। हथियारों का प्रदर्शन करने के आरोप में दो महिला व एक पुरुष को गिरफ्तार किया था।

## दो ईनामी आरोपी महिलाएं गिरफ्तार

टोंका। अरविन्द कुमार के निर्देशन में थानाधिकारी उदयवीर सिंह द्वारा गठित विशेष टीम ने गत 9 माह से हत्या के प्रकरण में फरार चल रही 5-5 हजार रुपये की दो ईनामी आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। कल्लती देवी पत्नी पोलुराम मीणा उम्र 50 साल निवासी कुरेडी थाना पीपल एवं सोली देवी उर्फ काली देवी उर्फ धापु पत्नी पप्पु मीणा उम्र 45 साल निवासी मीणा की ढाणी कुरेडी को बाद तलाश गिरफ्तार किया।

## ‘बाबा साहेब द्वारा लिखे गए संविधान की रक्षा के लिए मोदी सरकार संकल्पबद्ध’

अलवर। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती के अवसर पर सूर्य नगर मोड़, दिल्ली रोड स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि संत रविदास जी के ज्ञान का प्रभाव इतना गहरा था कि संत मीराबाई ने भी अपने भजन में कहा - "गुरु मिल्या रविदास"। उनके तप और विचारों के कारण समाज में व्याप्त छुआछूत और भेदभाव समाप्त हुए और सामाजिक समरसता व भाईचारे की भावना मजबूत हुई।

संविधान की रक्षा के प्रति मोदी

## अफीम के साथ आरोपी गिरफ्तार

बौली-बामनवास। सवाई माधोपुर जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब आदि के विरुद्ध व चॉंठित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत उदय मोड थाना प्रभारी राजवीर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम में शामिल सहायक उप निरीक्षक राजरोपी, कॉन्स्टेबल अखिलेश, राजेश कुमार, हंसराज व रवि कुमार की टीम ने दोराने गस्त अवैध पदार्थ अफीम रखने के आरोपी ओमप्रकाश मीणा उम्र 60 वर्ष निवासी बाढ़ारयल पुलिस थाना पीलोदा के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 124 ग्राम अफीम को जप्त कर 8/18 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। गंगापुर सिटी के सामने से एक व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया जो पुलिस वाहन को देखकर वापस मुड़कर तेज चलने लगा पुलिस को शक होने पर उसे रोककर तलाशी ली गई तो एक पारदर्शी पॉलीथिन थैली में अवैध मादक पदार्थ अफीम शुद्ध वजन 124 ग्राम पाया गया।

## शिक्षा से जुड़ी कठिनाइयों को किया साझा, दिया दूर करने का आश्वासन

खैरथल। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने अलवर मेवात शिक्षा विकास संस्थान की बेहतर कल के लिए पहल पर बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में अलवर मेवात शिक्षा विकास संस्थान की 34 बालिकाओं से संवाद किया और शिक्षा से जुड़ी कठिनाइयों को साझा करते हुए समाधान का आश्वासन दिया।

जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बालिकाओं से बातचीत करते हुए कहा

■ बेहतर कल की पहल मेवात शिक्षा संस्थान की 34 बालिकाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंच कर की जिला कलेक्टर से मुलाकात

कि "आज मुस्लिम बालिकाओं को उच्च शिक्षा की ओर बढ़ता देख गर्व महसूस हो रहा है।" उन्होंने शिक्षा को माध्यम है, जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उन्होंने टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करने और लक्ष्य निर्धारित करने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं ने जिले के कई प्रशासनिक अधिकारियों



केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

सरकार की प्रतिबद्धता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि संत रविदास जी द्वारा दिए गए जातिवाद तोड़ने के संदेश को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी जी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों से बाबा साहेब के संविधान में किए गए प्रावधानों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया गया है और आगे भी समाज में समानता व सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए संविधान में

आरक्षण व्यवस्था जारी रहेगी। कांग्रेस पर निशाना उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हमारी पार्टी "विकसित भारत" के निर्माण के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है, जहां सभी को समान अवसर मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दोहे को साकार करते हुए कोविड के बाद से 80 करोड़ लोगों को अन्न उपलब्ध कराया, ताकि कोई भी भूख न सोए। उन्होंने कहा कि संतों की वाणी को केवल भाषणों में नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उनके विचारों को आत्मसात कर नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। संत रविदास जी का जीवन केवल एक समाज विशेष के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणा का विषय है। अलवर को संत परंपरा और संकल्प केंद्रीय मंत्री

भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत संतों की भूमि रहा है और अलवर विशेष रूप से बाबा भरथरी की तपोभूमि रहा है। उन्होंने कहा कि संत रविदास जयंती के शुभ अवसर पर मैं संकल्प लेता हूँ कि हमारी सरकार हर समय सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।

इस अवसर पर राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, जिला अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता, पूर्व विधायक ज्ञान देव आहूजा, जिला परिषद सदस्य सिरता राज, मालाखेड़ा प्रधान वीरवती जाट, उमरगंज प्रधान दौलत राम जाटव, पार्षद जगदीश अटल, देशराज चर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यह जानकारी जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने दी।

## परामर्श सेवाओं के सुदृढीकरण हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला सम्पन्न

कोटपतली। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कहा कि जिले में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ तंबाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श सेवाओं का सुदृढीकरण करते हुए आम जन को बेहतर सेवाएँ प्रदान करें। बुधवार को होटल राजमहल पैलेस में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने यह बात कही।

जिला कलेक्टर ने कहा जिले में नव स्थापित तंबाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केंद्र को बेहतर बनाने के लिए सभी मिलकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में जो भी जानकारी दी गई है उन्हें फ़ील्ड स्तर पर लागू करें और विद्यार्थी जीवन में प्रेषण के कारण नसे की दुनिया में चले जाते हैं हमें उन्हें नशे से बचना चाहिए।



कार्यक्रम को सम्बोधित करती जिला कलेक्टर।

सीएमएचओ कोटपतली बहरोड़ डॉ आशिष सिंह शेखावत ने कहा कि एसआरकेपीएस व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संयुक्त तत्वावधान में तंबाकू मुक्ति जिला बनाने हेतु प्रयास किया जाएगा। शेखावत ने कहा कि जिले में तंबाकू मुक्ति शिक्षण संस्थान तंबाकू मुक्ति ग्राम

पंचायत सहित तंबाकू मुक्ति उपचार व परामर्श सेवाओं को करने का कार्य किया जाएगा।

वहीं राजस्थान कैसर फाउंडेशन अध्यक्ष डॉ रमेश गुप्ता ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए तंबाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श सेवा देने हेतु

■ जिले में तंबाकू उपचार व्यवस्था का होगा विस्तार - जिला कलेक्टर

सशक्तिकरण प्रदान किया गया। इससे आसानी से हर तंबाकू उपभोगी रोगी को किसी भी स्वास्थ्य कर्मी द्वारा तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित कर सहायता प्रदान की जाएगी। कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला तथा एसआरकेपीएस डॉ0 दामिनी सिंह व डॉ0 अरिंदम भी तंबाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श सेवाओं पर प्रस्तुतिकरण कर जानकारी दी। कार्यक्रम में रविकान्त जांगोड़ जिला नोडल अधिकारी द्वारा तंबाकू के अंतर्गत की गई चालान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।

## भव्य श्याम सत्संग एवं फाग महोत्सव का आयोजन

आमेर। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, श्री श्याम भजन संध्या परिवार सेवा समिति द्वारा एक भव्य श्याम सत्संग एवं फाग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह समिति पिछले 32 वर्षों से श्याम प्रभु की महिमा का प्रचार-प्रसार कर रही है और उनके भजनों में आध्यात्मिक से भक्तों को आध्यात्मिक अनुभूति करावा ही है।

इस शुभ आयोजन के प्रेरणास्रोत समिति के वरिष्ठ सदस्य श्री रामप्रकाश जी गुप्ता हैं, जो प्रारंभ से ही इस समिति से जुड़े हुए हैं। उनके अथक प्रयासों से यह आयोजन 15 फरवरी 2025 को श्री खंडेलवाल महासभा भवन, पानीपेच, आरपीए रोड, शास्त्री नगर, जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। यह भव्य श्याम सत्संग सांय 7:00 बजे से प्रारंभ होकर देर रात तक चलेगा, जिसमें श्याम प्रेमी भक्ति के रंग में रंगकर बाबा श्याम का गुणगान करेंगे। अखंड ज्योति प्रज्वलन - श्याम प्रभु की अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाएगी, जिससे वातावरण भक्तिमय हो जाएगा।

श्री श्याम प्रभु का विशेष शृंगार किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु उनकी दिव्य छवि के दर्शन कर सकेंगे, पूरे आयोजन के दौरान श्याम भक्तों पर

■ श्री श्याम भजन संध्या परिवार सेवा समिति द्वारा एक भव्य श्याम सत्संग का आयोजन किया जा रहा है

पुष्पों की वर्षा की जाएगी, जिससे माहौल और भी पावन बन जाएगा, बाबा श्याम को भोग अर्पित करने के लिए छप्पन प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाएंगे।

इस सत्संग में देश के ख्यातिप्राप्त भजन गायक फाग के विशेष भजनों की प्रस्तुति देंगे, जो भक्तों को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करेंगे। फाग महोत्सव के उपलक्ष्य में चंग धमाल का आयोजन होगा, जिसमें भक्त झूमकर बाबा श्याम की भक्ति में लीन होंगे। यह आयोजन हर वर्ष की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठा आध्यात्मिक अनुभव लेकर आएगा। इसमें सम्मिलित होकर श्याम प्रेमी संगीत, भजन और भक्ति के रंग में झूबकर बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सभी श्याम प्रेमियों से सादर निमंत्रण है कि वे इस पावन अवसर पर धरौं और बाबा श्याम की अनंत कृपा का लाभ प्राप्त करें।

## अमन ने जे.ई.ई.मेस परीक्षा में 99.01 प्रतिशत अंक हासिल किये

किशनगढ़ बास। हासिल मजबूत हो तो निश्चित सफलता मिलती है यह साबित करके दिखाया है किशनगढ़ बास के गांव मोदुका के अमन लखायणी ने। अमन ने 2.0 प्रथम फेज के तहत शहर में होने वाले सीवरेज कार्य की वस्तुस्थिति जानकर आवश्यक निर्देश दिए।

सर्वजनिक निर्माण विभाग के सडक व भवन निर्माण कार्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधीक्षण अभियन्ता की निर्देश दिये कि बजट घोषणाओं सहित समस्त कार्यों की विभागीय स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने आरएसआरडीसी के सडक एवं भवन निर्माण कार्य की वस्तु स्थिति जानकर मेडिकल कॉलेज बार्डर्ड वॉल तथा 100 बैडेड हॉस्पिटल व क्रिटिकल यूनिट कार्य को यथा समय पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सीएमएचओ की निर्देश दिये कि प्रतापगढ़ सीएचओ निदेश कार्यों को प्रारम्भ करावे। जिला चिकित्सालय में शिशु चिकित्सालय उन्नयन के कार्यों की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।



खैरथल कलेक्ट्रेट में मेवात शिक्षा विकास संस्थान की 34 बालिकाओं से संवाद करते कलेक्टर किशोर कुमार।

जिस पर कलेक्टर ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने बालिकाओं से सीधे संवाद करते हुए कहा कि आज हम जिन पदों पर हैं, कल आगे भी इन पदों पर बैठ सकते हैं। बस आपकों पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करनी होगी।

जिला कलेक्टर ने बालिकाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है, जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उन्होंने टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करने और लक्ष्य निर्धारित करने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं ने जिले के कई प्रशासनिक अधिकारियों

से सीधे संवाद कर अपने अनुभव साझा किए और अपने करियर को लेकर नई प्रेरणा ली।

अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे किसी भी कठिनाई में प्रशासन की मदद ले सकते हैं और शिक्षा के माध्यम से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस आयोजन ने बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने और अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वे भविष्य में समाज के लिए एक प्रेरणा बन सकें। मेवात शिक्षा की बालिकाएं किशनगढ़ बास उपखंड कार्यालय पर एसडीएम मनीष कुमार जाटव से मिलीं।

## आधारभूत संरचना की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित



जिला कलेक्टर डॉ. आर्ति का शुक्ला ने आधारभूत संरचनाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर) की प्रगति की समीक्षा बैठक की।

बेबी फीडिंग रूम तैयार करवाने की निर्देश दिए।

उन्होंने नगर निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि शहर की वस्तु (एनएसए) सुधार हेतु वस्तु (एनएसए) के तहत चल रहे कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग कर कार्यों को गुणवत्ता के साथ आगामी चार माह में पूर्ण कराए। उन्होंने निर्देश दिये कि जिले

की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार हेतु विभागीय समन्वय स्थापित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि स्वच्छता संबंधी कार्य जैसे शौचालय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि की डैशबोर्ड बनाकर निगरानी तथा पानी संरक्षण संबंधी कार्य जैसे रेनवाटर हार्बेस्टिंग व पीनीकट निर्माण इत्यादि में आवश्यक कार्यवाही करते हुए समयबद्ध पूर्ण कराए। उन्होंने निर्देश दिये कि तांगा स्टैण्ड व महिला

## सार-समाचार

## जाम लगने से लोगों में आक्रोश

पावटा। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पावटा कस्बे के दोनों ओर बनी सर्विस लाइन पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही से आए दिन जाम लगने से लोगों में आक्रोश है। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन लीपापोती व खानापूर्ति करता है लेकिन कोई उपाय नहीं कर रहा है। ऐसी ही स्थिति प्रतिदिन देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण चौराहे व सर्विस लाइन पर जगह-जगह अवैध पार्किंग कर दुपहिया व चौपहिया वाहनों का अतिक्रमण है। बेतरतीब वाहन खड़ा रहने के कारण भारी वाहन आने पर जाम की समस्या हो जाती है। अधिकारियों की ओर से कोई ठोस संज्ञान न लिया जाना लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी भोनावास फ्लाई ओवर से सी एचसीकट तक होती है। इस मार्ग का आवागमन ज्यादा है जिसके कारण सबसे ज्यादा जाम इसी रोड पर लगता है। यही नहीं चौराहे पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी भी भी जाम हटवाने के बजाय मूकदर्शक बन बैठे रहते हैं। बार - बार जाम की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में कई बार इस मामले को पावटा उपखंड अधिकारी, प्रागपुरा नगरपालिका ईओ, प्रागपुरा थाना प्रभारी के समक्ष उठाया गया, लेकिन कार्रवाई का भरोसा देकर लोगों को शांत करा दिया गया, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई जिसके कारण अतिक्रमणकारियों का मनोबल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।

## मासिक बैठक आयोजित

फुलेरा। कस्बे के गणगौरी बाजार स्थित श्री रामद्वारा भवन परिसर में राजस्थान पेंशनर्स समाज उपशाखा फुलेरा की मासिक बैठक का आयोजन शक्ति सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा एवं विचार-विमर्श किया। साथ ही बैठक में कई पेंशनर्स ने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि हमारी पेंशन में कटौती की गई है। जिसके चलते विभाग से जानकारी लेने पर बताया कि जिन पेंशनर्स ने अपना पैन कार्ड पेंशन पोर्टल पर अपडेट नहीं करवाया है, उनका टीडीएस काटा गया है। इसके लेकर अध्यक्ष शक्ति सिंह ने पेंशनर्स साथियों से अपील करते हुए कहा कि जिन पेंशनर्स ने अपना पैन कार्ड पेंशन पोर्टल पर अपडेट नहीं करवाया है वह जल्दी ही करवा लेवे। इसके अलावा जो पेंशनर्स बैठक में उपस्थित थे, उनका मौके पर ही मोबाइल फोन द्वारा पैन कार्ड अपडेट करवाया गया। वहीं शक्ति सिंह ने आगे बताया कि यदि किसी का टीडीएस गलत काटा है तो उसमें 31 मार्च तक सुधार हो सकता है। इसी क्रम में आगे बताया कि केन्द्र सरकार ने 8 वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। क्योंकि केन्द्र हर 10 वर्ष में नया वेतन आयोग लाती है। वहीं बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के लिए उपस्थित सभी पेंशनर्स से निवेदन किया गया कि आपके आस-पास जो भी पेंशनर्स रहते हैं उन्हें संगठन से जोड़कर सदस्य बनायें। इसके साथ ही प्रदेश कार्यकारणी द्वारा 11 सूत्री मांग पर चर्चा की गई तथा सुझाव आमंत्रित किये गये।

## गलत ब्लाड चढ़ाने से रोगी की मौत

टोंका। पीडित परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर बताया कि गत 4 जनवरी को सदात अस्पताल टोंक में मृतक की तबीयत बिगड़ने पर भर्ती कराया गया था, जहां ड्यूटी पर नियुक्त डॉ. संदीप जोगीतिया ने एक प्राइवेट प्रतिष्ठा ब्लाड बैंक से दो यूनिट ब्लाड मंगवाकर चढ़ाया। बाद में 7 जनवरी को उसे डिस्चार्ज किया गया, लेकिन 9 जनवरी को पुनः रोगी की तबीयत बिगड़ने लगी। राजीव यादव को दिखाया गया और डॉ. यादव ने भी एक एक यूनिट ब्लाड और मृतक हंसराज को चढ़ाया गया। उसकी हालत गम्भीर होने के कारण अन्य डॉ. अंकित विजय ने रोगी को जयपुर एसएमए अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां पर भी ब्लाड कम होने के कारण तीन यूनिट ब्लाड चढ़ाने की बात कही गई, लेकिन रोगी का ब्लाड सेम्पल लेकर जब ब्लाड ग्रुप की जांच की गई तो जांच में सामने आया कि रोगी का ब्लाड ग्रुप एबी पॉजिटिव व ओ पॉजिटिव दोनों ग्रुप आ रहे थे, इस पर एसएमए के डॉक्टर भी कोई निर्णय नहीं कर पाये तथा वहां के डॉक्टरों ने कहा कि टोंक अस्पताल में गलत ब्लाड चढ़ाया गया है, रोगी ने गम्भीर अवस्था के चलते 18 जनवरी को दम तोड़ दिया।

## डिग्री में उमड़ा आस्था का सैलाब

मालपुरा। सनातन धर्म में माघ माघ की सबसे बड़ी माघ पुर्णिमा पर बुधवार को धर्म नगरी डिग्री में कल्याण जी के दर्शनों के लिये आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सबरे मंगल आरती से ही भक्तों के आने का क्रम शुरू हुआ। जो कि संध्या आरती तक जारी रहा। कोडी भवन स मंदिर तक कल्याण भक्तों की लम्बी कतारें लगीं। सिर पर प्रसाद का थाल लिये जय श्री कल्याण के गुणगान करते कल्याण भक्त घंटों तक लाईनों में लग मंदिर पहुंचने के गुणगान जो की मनमोहक झांकी के दर्शन कर हाजरी लगाईं। समुचा डिग्री कस्बा जय श्री कल्याण के जयकारो से गुंज उठा। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर व कस्बे में जगह-जगह कैडा पुलिस जापा तैनात रहा। भीड में हर एक गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरा से कडी निगरानी रखी गई। कल्याण जी के भक्तों के सैलाब में शामिल महिलाओं ने कल्याण जी महाराज के भजनो का गुणगान करते देखा गया। माघ पुर्णिमा पर कल्याण जी के दर्शनों का माना गया है विशेष महत्व।

## प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

जयपुर। जिला कलेक्टर जयपुर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी जी के निर्देशन सक्षम जयपुर अभियान के तहत चाकसू के नगर पालिका के सभागार में नागरिक सुरक्षा जयपुर की डीव्यूआरटी टीम द्वारा एक दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागरिक सुरक्षा जयपुर के उपा निर्यंत्रक अमित शर्मा ने बताया कि इस ऑन स्पॉट प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपातकालीन बचाव के तरीके प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन के साथ-साथ कुआं, बोरवेल इत्यादि कैसे सुरक्षित रखें और अपनी जान जोखिम में ना डालते हुए कैसे दूसरों की मदद कर सकें और किस तरीके से आपदा न्यूनीकरण किया जा सके इसके संबंध में विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान रेस्क्यू टीम से अनुदेशक श्री अक्षर अहमद, श्री भीम मीणा कार्यशाला में प्रतिभागियों को आपदा प्रबंधन के तौर तरीकों एवं बचाव उपायों की बारीकियों से रूबरू करवाया।

## रविदास जयंती 648 सी जयंती मनाई


गोविंदगढ़ / अलवर। गोविंदगढ़ कस्बे में आज दिनांक 12 फरवरी 2025 को संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज की 648वीं जयंती समारोह का आयोजन हुआ मुख्य बाजारों में होकर जयंती मीलाली गई जगह-जगह पर कस्बे वासियों ने भव्य स्वागत किया जलपान की व्यवस्था भी की गई पुष्प वर्षा भी की गई बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया बच्चे बुजुर्ग महिला ने बड़-चढ़कर भाग लिया जिसमें मुख्य अतिथि सुखवंत सिंह विधायक रामगढ़ विशिष्ट अतिथि योगेंद्र कुमार शर्मा भाजपा मंडल अध्यक्ष रवि कुमार सनातनी पूर्व मंडल अध्यक्ष गोविंदगढ़ समस्त मीडिया आमंत्रित गोविंद गौतम पत्रकार हरि सिंह सोलंकी गोविंदगढ़ नीरज गर्ग पूर्व सरपंच श्रीमती उर्मिला अजय अमेठी बनता शर्मा पूर्व सरपंच भीती रामबास सरपंच सुरपंच सुरज चंडा किदवाई सरपंच गुरु सेवक सिंह प्रधान सिक्क समाज राधेश्याम जाटव सीताराम जाटव श्री गुरु रविदास जी कमेटी एवं समस्त जाटव समाज के सभी प्रबुद्ध जन व्यक्ति मौजूद रहे।

## लक्ष्मी समिति की जिला अध्यक्ष बनी

श्रीमाधोपुर। परशुराम सेना महिला वाहिनी सेवा समिति की प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला जोशी ने पूर्व पालिका उपाध्यक्ष व समाज सेविका विजय लक्ष्मी शर्मा को महिला संगठन के प्रति लगाव रखने पर सीकर जिले की जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही शर्मा से अपने पद का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए सीकर जिले में परशुराम सेना महिला वाहिनी सेवा समिति को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने की अपेक्षा की है। विजय लक्ष्मी के जिलाध्यक्ष बनने पर विप्र समाज सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने खुशी जाहिर की है।

## साधारण सभा की बैठक कल

निवाड़ी। नगर पालिका कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को विधायक रामसहाय वर्मा की मौजूदगी व पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित होगी। अधिशाषी अधिकारी मनोहरलाल जाट ने बताया कि बैठक में नगरपालिका के वित्तिय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट की स्वीकृति पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति का अनुमोदन करने सहित कई विकास कार्यों पर महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी।



श्रेयस अय्यर अच्छी फॉर्म में हैं, जो भारत के लिए सकारात्मक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि केएल राहुल के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। - के. श्रीकांत

पूर्व चीफ सिलेक्टर, भारतीय बल्लेबाजी क्रम को लेकर बोलते हुए।



# खेल जगत

## आज का खिलाड़ी



## शुभमन गिल

भारतीय ओपनर शुभमन गिल को वनडे रैंकिंग में टॉप-2 बल्लेबाज बन गए हैं। पिछले हफ्ते वे तीसरे स्थान पर थे। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रही वनडे सीरीज के बीच ही वे बुधवार को ताजा रैंकिंग जारी की। इस सीरीज के तीसरे मैच में आज गिल ने शतक लगाया है, हालांकि

## राष्ट्रदूत जयपुर, 13 फरवरी, 2025 7

इसके पाईंट इस रैंकिंग में शामिल नहीं है। गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो वनडे मैचों में अर्धशतकीय पारी खेली थी, इसका फायदा उन्हें मिला है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम टॉप पर बरकरार हैं। गिल बाबर से केवल 5 पाईंट्स पीछे हैं।

क्या आप जानते हैं?... क्रिस गेल 2013 आईपीएल में 30 गेंदों पर शतक बनाकर इस सूची में सबसे ऊपर हैं। उन्होंने पहला अंतरराष्ट्रीय टी-20 शतक भी बनाया।

### मैट कुहनेमन का गेंदबाजी एक्शन संदिग्ध, होगी बायोमीट्रिक जांच

सिडनी, 12 फरवरी। गेंदबाजी एक्शन को लेकर संदिग्ध के घेरे में आस्ट्रेलिया के बायें हाथ के स्पिन गेंदबाज मैट कुहनेमन की बायोमीट्रिक जांच की जायेगी। आस्ट्रेलिया की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के दौरान अंपायरों ने कुहनेमन के गेंदबाजी एक्शन को संदिग्ध पाया था और उन्होंने इसकी शिकायत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार बायें हाथ के स्पिनर का गेंदबाजी एक्शन अगर अवैध पाया जाता है तो उन पर प्रतिबंध लग सकता है। कुहनेमन श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों में 16 विकेट चटका चुके हैं। उनकी बायोमीट्रिक जांच ब्रिसबेन में होगी।

### गजांफर चैम्पियंस ट्रॉफी के लिये अफगान टीम से बाहर

काबुल, 12 फरवरी। अफगानिस्तान के आफ स्पिनर एएम गजांफर कमर के निचले हिस्से में फ्रैक्चर होने के कारण चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को एक्स पर यह जानकारी साझा की। बोर्ड ने लिखा अफगानिस्तान की युवा स्पिन गेंदबाजी समसनी, एएम गजांफर कमर के निचले हिस्से में फ्रैक्चर के कारण आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। उन्हें अफगानिस्तान के हाल ही में जिम्बाब्वे वीरे के दौरान चोट लगी थी, और वह कम से कम चार महीने के लिए बाहर रहेंगे और इस अवधि के दौरान उपचारधीन रहेंगे।

### रयबाकिना के पूर्व कोच वुकोव पर प्रतिबंध बरकरार

लंदन, 12 फरवरी। दुनिया की पांचवें नंबर की खिलाड़ी एलेना रयबाकिना के पूर्व कोच स्टेफानो वुकोव पर डब्ल्यूटीए प्रर प्रतिबंध को एक स्वतंत्र जांच में बरकरार रखा गया है। महिला टेनिस को नियंत्रित करने वाली संस्था डब्ल्यूटीए ने जनवरी में क्रोएशिया के वुकोव को कथित तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। मंगलवार को डब्ल्यूटीए ने पुष्टि की कि वुकोव का प्रतिबंध बरकरार रखा गया है हालांकि 37 वर्षीय कोच ने आरोपों को खारिज कर दिया है जबकि रयबाकिना ने कहा कि वुकोव ने कभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। डब्ल्यूटीए ने कहा इस प्रक्रिया के बाद, निलंबन बरकरार रहेगा। हालांकि निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण तरीके से मामले से निपटने के लिए निकाय की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए, डब्ल्यूटीए ने अधिक विवरण देने से इनकार कर दिया। इसमें यह भी नहीं बताया गया कि वुकोव पर प्रतिबंध कब तक जारी रहेगा और उन्होंने डब्ल्यूटीए के कोड के किस्से का उल्लंघन किया है। वुकोव फैसेल के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इस फैसले का मतलब है कि रयबाकिना वुकोव को अपनी टीम में वापस नहीं ला पाएंगी जैसे कि उन्हें साल की शुरुआत में उम्मीद थी।

### दिलीप शिवपुरी का मास्टर्स वर्ल्ड कप टेनिस के लिए चयन

जयपुर, 12 फरवरी। जयपुर के वेटन टेनिस खिलाड़ी दिलीप शिवपुरी आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस मास्टर्स टूर वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे 11 मई से 16 मई तक फ्लोरिडा अमेरिका में होने वाले मास्टर्स वर्ल्ड कप के 70 प्लस पुरुष वर्ग में जयपुर के दिलीप शिवपुरी भारतीय टीम के लिए चयनित हुए हैं इससे पूर्व भी दिलीप शिवपुरी दो मास्टर्स वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं वर्तमान में दिलीप शिवपुरी राजस्थान टेनिस संघ के अध्यक्ष भी हैं।

### 5वां रोशनलाल नैयर मेमोरियल राजस्थान ओपन टूर्नामेंट शुरू



जयपुर, 12 फरवरी। राजाकाक स्थित सिंह बिलियर्ड्स में आयोजित 5वां रोशन लाल नैयर मेमोरियल राजस्थान ओपन टूर्नामेंट का आज उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि आईपीएस बीजू जॉर्ज जोसेफ और रवि नैयर ने सिंह बिलियर्ड्स के मालिक अमनपाल सिंह के साथ उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। यह टूर्नामेंट 12 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। आज के मैचों के स्कोर इस प्रकार हैं, अमनदीप सिंह बनाम गिरीश निभवानी 55-44, 23-10, कमल शेरवानी बनाम सचिन हसीजा 58-54, 40-28।

### राजस्थान ने महाराष्ट्र के खिलाफ 161 रन बनाए

जयपुर, 12 फरवरी। बीसीसीआई की राष्ट्रिय अंडर 23 सी के नायडू ट्रॉफी के पुणे में खेले जा रहे राजस्थान - महाराष्ट्र क्वार्टर फाइनल मैच के तीसरे दिन महाराष्ट्र ने अपनी पहली पारी में 464 रनों का स्कोर बनाया। टीम के लिए अनिरुद्ध सबले 115, विक्की ओस्टवाल नाबाद 108, एस एस दास 50, साहिल 53, शिखीज 50 रनों का योगदान दिया। राजस्थान के गेंदबाज मोहित चांगरा 120/4, चेतन शर्मा 63/3, आयुष अमेरिया 73/2 विकेट प्राप्त किए। राजस्थान ने अपनी पहली पारी में 161 रनों का स्कोर बनाया। टीम के लिए मुकुल चौधरी 34, मोहित चांगरा 31, सुमित गोदारा 24, चेतन शर्मा 22, करण लाम्बा 20 व अशोक शर्मा 16 रनों का योगदान दिया। महाराष्ट्र के गेंदबाज विक्की ओस्टवाल 46/4 विकेट प्राप्त किये।

# चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले भारत ने किया इंग्लैंड का सफाया, गिल का शतक



अहमदाबाद, 12 फरवरी। शुभमन गिल (112) और श्रेयस अय्यर (78) की शानदार पारियों के बाद गेंदबाजों के कातिलाना अंदाज की बदौलत भारत ने बुधवार को यहाँ श्रृंखला के तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड को 142 रन से रौंद कर 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी के लिये अपने मजबूत इरादों का इजहार किया।

श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले अपने अंतिम मैच में विराट कोहली (52) ने अपनी खोई फार्म को हासिल कर लिया, जिससे कोच गौतम गंभीर समेत समूचे भारतीय खेमे में संतोष का भाव नजर आया। कोहली को हालांकि आज भाग्य का सहारा भी मिला और कुछ मौकों पर वह अपना विकेट बचाने में सफल रहे।

उन्हे आदिल राशिद (64 रन पर चार विकेट) ने एक बार फिर अपना शिकार बनाया। कप्तान रोहित शर्मा मात्र एक रन ही बना सके। उधर शुभमन गिल ने इंग्लैंड 34.2 ओवर में 214 रन बना कर सिमट गयी। इसी के साथ भारत ने तीन मैचों की

## अरावली पोलो ने डेल्टा/वी पोलो को, जयपुर जिंदल ने जयपुर यूएसपीए को हराया

### जयपुर पोलो सीजन 2025, रैफल्स सिरमोर कप

जयपुर, 12 फरवरी। जयपुर पोलो सीजन 2025, रैफल्स सिरमोर कप (12 गोल) में आज दो मैच खेले गए। पीपीसी पोलो ग्राउंड पर दोपहर 11.30 बजे अरावली पोलो और डेल्टा/वी पोलो के बीच मैच खेला गया, जिसमें अरावली पोलो ने डेल्टा/वी पोलो को 3-7 से हराया। अरावली पोलो की ओर से मनोलो ने 2 ओर फेडरिंको ने शानदार 5 गोल कर अपनी टीम को जीत दिलाई।



डेल्टा/वी पोलो की ओर से हर् अली ने 1 ओर सेंटियागो ने 2 गोल किये। दूसरा मैच शाम 3 बजे रामबाग पोलो ग्राउंड पर जयपुर यूएसपीए वर्सेज जिन्दल पैथर्स के बीच खेला

### महाराज पदमनाभ सिंह के पीछे से आ रही बॉल हाथ की कोहनी पर लगी

जयपुर, 12 फरवरी। रामबाग पोलो ग्राउंड पर जयपुर यूएसपीए वर्सेज जिन्दल पैथर्स के बीच खेला जा रहा था, जिसमें पहले चक्कर के 5.43 मिनट पर जिन्दल पैथर्स के खिलाड़ी द्वारा पास देने के दौरान जयपुर यूएसपीए के खिलाड़ी महाराज पदमनाभ सिंह के पीछे से आ रही बॉल हाथ की कोहनी पर लगी जिससे मैच को रोकना पड़ा। उनकी जगह शमशीर अली दिला पाए। जिंदल पैथर्स की ओर से वैकटेश जिन्दल और सिमरन शेरगिल ने 1-1, सिद्धान्त शर्मा ने विकडी समेत 5 गोल कर अपनी टीम को विजयी बनाया।



## मुख्यमंत्री स्पोर्ट्सपर्सन बीमा योजना, 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित

जयपुर, 12 फरवरी। प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को निःशुल्क दुर्घटना बीमा एवं जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्पोर्ट्सपर्सन बीमा योजना, 2024 प्रारम्भ की गई है। इस योजना के लिए राजस्थान राज्य क्रोडा परिषद ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन फार्म क्रोडा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य क्रोडा परिषद के सचिव राजेन्द्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि 60 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए हैं। यह योजना राजस्थान के मूल निवासी खिलाड़ियों के लिए है। यह योजना आगामी एक वर्ष के लिए होगी। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत राजस्थान के वर्तमान और पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता समस्त खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। योजना के अन्तर्गत ओलम्पिक और पैरालिंपिक पदक विजेता, वर्ल्ड कप

व वर्ल्ड चैम्पियनशिप (पैरा वर्ग में भी), क्रिकेट विश्व कप और चैम्पियनशिप के विजेता व उपविजेता, पोलो वलूड कप और चैम्पियनशिप के विजेता व उपविजेता, कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता (पैरा वर्ग में भी), एशियन गेम्स के पदक विजेता (पैरा वर्ग में भी), साउथ एशियन गेम्स के पदक विजेता (पैरा वर्ग में भी), और क्रिकेट एशिया कप व चैम्पियनशिप के विजेता व उपविजेता खिलाड़ी इस श्रेणी में शामिल किए गए हैं।

### सबालंका और गॉफ कतर ओपन के दूसरे चरण में ही समाप्त

दोहा, 12 फरवरी। विश्व की नंबर एक खिलाड़ी आर्याना सबालंका और नंबर तीन कोको गॉफ कतर डब्ल्यूटीए दर्शकों के बैठने के दूसरे दौर में हाक कर बाहर हो गई हैं।

## आईपीएल में स्टेडियम से 50 मीटर दूर बिल्डिंग का टिकट लगेगा जयपुर में सीट बढ़ाने के लिए 2 भवन की छत का उपयोग होगा

जयपुर 12 फरवरी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मार्च महीने में इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले होने जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। खेल विभाग की ओर से इस बार जयपुर में राजस्थानी थीम पर होगा। पूरे स्टेडियम को प्लास्टिक मुक्त रखा जाएगा। पहली बार एसएमएस स्टेडियम परिसर के अंदर और बाहर बने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एकेडमी बिल्डिंग और खेल भवन की छत के भी टिकट दिए जाएंगे। यह बिल्डिंग स्टेडियम से करीब 50 मीटर दूर है। खेल विभाग के सचिव नीरज कुमार पवन ने बताया- इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले के दौरान इस बार स्टेडियम की दर्शक क्षमता को 50 हजार तक तो नहीं बढ़ाया जा सकता है। फिर भी ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। फिलहाल साउथ पवेलियन के रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया है। खेल भवन और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की स्पोर्ट्स एकेडमी बिल्डिंग की छत (टेरिस) पर भी बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। पूरी उम्मीद है कि यह पिछली बार से ज्यादा दर्शकों इस बार जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग का मुकाबला देख सकेंगे।

मुकाबलों के बाद खेल मंत्री के दिशा-निर्देश पर सवाई मानसिंह स्टेडियम की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक नए प्लान पर काम किया जाएगा। ताकि भविष्य में स्टेडियम की क्षमता को 50 हजार दर्शक तक पहुंचाया जा सके। नीरज कुमार पवन ने बताया- हर बार इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले के दौरान फुटबॉल ग्राउंड को पार्किंग परिया बना दिया जाता था। इसकी वजह से वहां पर खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। इस बार आईपीएल के लिए भी हम ऑथोराइज्ड है। आईपीएल हम ही करावेंगे।

## बीसीसीआई द्वारा आरसीए एडहॉक कमेटी ऑथोराइज्ड है तो आईपीएल के लिए भी हम ऑथोराइज्ड : जयदीप बियानी



जयपुर, 12 फरवरी। आरसीए एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहानी का कहना है कि सरकार ने सरकार ने क्रिकेट को दुरुस्त करने के लिए कमेटी बनाई थी, आज क्रिकेट सुचारू रूप से चल रहा है। आईपीएल को लेकर जयदीप ने कहा कि राज्य सरकार ही करवाएगी आईपीएल का सफल आयोजन। हमेशा की तरह ही आरसीए एडहॉक कमेटी के दर्शक दीर्घा बढ़ाने को लेकर कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। लेकिन यह आदेश किसने कब दिए इसका पता नहीं लग पाया।



को लेकर लिखा है तो सैद्धांतिक तौर पर एडहॉक कमेटी को ही आईपीएल टूर्नामेंट करवाना चाहिए इसी को लेकर मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करूंगा। फिर क्या आदेश आते हैं, मैं वही करूंगा। खेल परिषद ने हमेशा आरसीए के साथ ही तो एमओयू किया है और आरसीए ने जयपुर सवाई मान सिंह स्टेडियम का

चाहिए था कि रणजी मैच हम करावेंगे। सिर्फ आईपीएल को लेकर बिना वजह बवाल खड़ा किया जा रहा है। जब रणजी और डोमेस्टिक मैचों के लिए हम ही ऑथोराइज्ड है तो बीसीसीआई की ओर से आईपीएल के लिए भी हम ऑथोराइज्ड है। आईपीएल हम ही करावेंगे। क्रिकेट मैदान और पिच को लेकर बियानी ने कहा कि आरसीए एडहॉक कमेटी के ऑथोराइज्ड ग्राउंड स्टाफ खेल परिषद को कॉन्फर्ट कर रहा है। खेल परिषद ग्राउंड स्टाफ को सैलरी नहीं देता है, बीसीसीआई द्वारा आरसीए एडहॉक कमेटी के जरिए सैलरी देती है। नीरज के पवान ने मॉर्निंग में नहीं बुलाने को लेकर बियानी ने कहा कि नीरज पवन को एडहॉक कमेटी के कन्वीनर को बुलाना चाहिये था, उन्होंने तो मेरा फोन तक करीबी नहीं किया। इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रिंसिपल सचिव नीरज कुमार पवन को लटर लिख दिया है कि आईपीएल करवाने का हक हमारा है और इसे हम ही करावेंगे।

## असलंका और तीक्षणा की बढ़ौलत श्रीलंका जीता



कोलंबो, 12 फरवरी। कप्तान चार्थिथ असलंका (127) की शतकीय पारी के बाद महेशी तीक्षणा (40 रन पर चार विकेट) की घातक गेंदबाजी की बदौलत श्रीलंका ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ बुधवार को यहाँ 49 रन की आसान जीत दर्ज की। आर प्रेमदासा स्टेडियम पर श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुये 44 ओवर के खेल में 214 रन बनाये जिसके जवाब में आस्ट्रेलिया की पूरी टीम 33.5 ओवरों में 165 रन पर सिमट गयी। गेंदबाजों की मदद पिच पर असलंका ने

मजबूत इच्छाशक्ति और धैर्य का परिचय देते हुये साहसिक शतक बनाया जिसकी बदौलत मेजबान टीम 200 रन का आंकड़ा पार करते में सफल रही। एक समय श्रीलंका की आधी टीम 55 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी थी। ऐसे संकट के समय में असलंका आगे आये और टीम का स्कोरबोर्ड चलाने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने दक्षिण वेल्लांगे (30) के साथ 67 रनों की अल्लम साझीदारी निभायी और टीम को संकट से उबारने में सफलता हासिल की। वेल्लांगे के बाद पुछल्ले बल्लेबाजों ने असलंका का साथ क्रीज पर समय बिता कर किया जिससे असलंका को रन जोड़ने में सफलता मिली। आस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत भी निराशाजनक रही जब उनके सलामी बल्लेबाजों को अस्थि फ्रैक्चो ने अपने लगातार दो ओवर में चलता कर दिया। अभी कंगारू टीम इन झटकों से उबरी भी नहीं थी कि महेशी तीक्षणा ने कूपर कोनाले (3) और वेल्लांगे ने कप्तान स्टीव स्मिथ (12) को आउट कर मेहमान टीम के शीर्ष क्रम की कम्मर तोड़ दी। आस्ट्रेलिया की ओर से एलेक्स कैरी (41) और एरन हार्डी (32) ने पारी को संभालने का प्रयास किया मगर अन्य बल्लेबाजों का साथ न मिलने से उनकी यह कोशिश निरर्थक साबित हुयी और मेहमान टीम को एशियाई महाद्वीप में एक करारी शिकस्त झेलने पर मजबूर होना पड़ा।

## वैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैम्पियनशिप के पहले मैच में भारत ने मकाऊ को हराया

नई दिल्ली, 12 फरवरी। पिछले संस्करण के कांस्य पदक विजेता भारत ने बुधवार को चीन के किंगदाओ स्पोर्ट्स सेंटर कॉन्सन जिन्मेजियम में ग्रुप डी में मकाऊ पर 5-0 की शानदार जीत के साथ अपने वैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैम्पियनशिप 2025 अभियान की शुरुआत की। इस जोरदार जीत ने भारत की नॉकआउट चरण में जगह भी पक्की कर दी। अब वे ग्रुप विजेता का फैसला करने के लिए गुरुवार को ग्रुप डी के दूसरे मुकाबले में दो बार के उपविजेता दक्षिण कोरिया से भिड़ेंगे। राष्ट्रीय खेलों के मिश्रित युगल के स्वर्ण पदक विजेता सतीश करुणकरन और आद्या वरिगिथ ने शुरुआती मिश्रित युगल मुकाबले में लिऑंग इओक चोंग और एनजी वेंग ची पर 21-10, 21-9 की जीत के साथ भारत के लिए जीत की बुनियाद रखी। लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल में पुई पैंग फोंग को 21-16, 21-12 से हराकर भारत की बहत बढ़ा दी, जबकि मालविका बंसोड़ ने महिला एकल में चान हाओ वाई पर 21-15, 21-9 की शानदार जीत के साथ भारत की नॉकआउट सीट पक्की कर दी। भारत ने एमआर अर्जुन और चिराम शेठ्टी की नई पुरुष युगल जोड़ी को मैदान में उतारा, जिन्होंने मकाऊ के पुई ची कोन और वोंग कोक वेंग को 21-15, 21-9 से हराकर स्कोर 4-0 कर दिया। गायत्री गोपीचंद और टीसा जॉली की महिला युगल जोड़ी ने एनजी वेंग ची और पुई ची वा पर 21-10, 21-5 की शानदार जीत के साथ टूर्नामेंट में भारत की शानदार शुरुआत में जोश भर दिया।

## इसके कैलकुलेशन में भी गड़बड़ी थी। हमने री कैलकुलेशन के लिए नोटिस को फिर से नगर निगम को भेजा है। जल्द ही नया बकाया नोटिस जारी होगा, जिसके आधार पर भुगतान कर दिया जाएगा। खेल विभाग के सचिव नीरज कुमार पवन ने बताया कि जयपुर में इस बार इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले राजस्थानी थीम पर होगा। इसी थीम पर स्टेडियम को सजाया जाएगा। पट्टी से लेकर स्टेडियम के सभी स्टैंड, बॉक्स और स्टेडियम के बाहरी हिस्से में भी राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी।

नगर निगम द्वारा बकाया यूडी टैक्स को लेकर भी हमें नोटिस जारी किया गया था। इसमें कुछ गड़बड़ी थी, क्योंकि यूडी टैक्स का नोटिस दो भागों में खेल परिषद और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को दिया जाना चाहिए था। इसके साथ जो भाग खेल परिषद को दिया जाना था।



### राजस्थान शूटिंग के स्टार खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरुका ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में मारी बाजी

जयपुर, 12 फरवरी। राजस्थान राज्य की शूटिंग टीम के स्टार खिलाड़ी श्री अनंतजीत सिंह नरुका ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में आयोजित शॉटगन की क्ले पिजन स्कोटी नैन इवेंट इसमें कुछ गड़बड़ी थी, प्रतियोगिता के प्रारम्भ से ही अनंतजीत सिंह नरुका ने अपना दबदबा बनाये रखा और क्वालिफिकेशन स्कोर में (122) और फाइनल्स स्कोर में (56) अंक हासिल कर प्रथम स्थान बनाये रखा। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के परमपाल सिंह गुराँन ने क्वालिफिकेशन स्कोर में (117) और फाइनल्स स्कोर में (51) अंक प्राप्त कर रजत पदक हासिल किया और पंजाब के भवतेग सिंह गिल ने क्वालिफिकेशन स्कोर में (116) और फाइनल्स स्कोर में (42) अंक प्राप्त कर कांस्य पदक अपने नाम किया। इस शॉटगन प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखण्ड में दिनांक 07 फरवरी से 13 फरवरी 2025 तक किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सभी राज्यों से हजारों की संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया जिसमें राजस्थान के निशानेबाज ने असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए अपना दबदबा बनाया।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन के लिए त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिये।

## दो माह में ही 1.66 लाख करोड़ रु. के एमओयू धरातल पर उतरना शुरू

### मुख्यमंत्री स्तर पर राजजिंग राजस्थान में हुए एमओयू की दूसरी मासिक समीक्षा बैठक हुई

जयपुर, 12 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार "राजजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट" के तहत हुए एमओयू को हर हाल में धरातल पर लागू करने के लिए कार्य कर रही है।

शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू

नियमित रूप से मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि निवेशकों से सीधा संवाद स्थापित रखा जाए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसी दिशा में राज्य सरकार द्वारा इन्वेस्टमेंट इंटरफेस के माध्यम से निवेशकों को एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति की जानकारी उपलब्ध करवायी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भू-

कुमार, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन राजेश यादव, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास वैभव गालरिया, प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद भवानी सिंह देथा सहित विभिन्न विभागों के शासन सचिव उपस्थित थे।

### अयोध्या राम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) निधन पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने शोक जताया है। आचार्य सत्येंद्र दास को कल यानी 13 फरवरी को दोपहर 12 बजे जल समाधि दी जाएगी। सत्येंद्र दास 32 साल से रामजन्मभूमि में बतौर मुख्य पुजारी सेवा दे रहे थे बताया जाता है कि, 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी विध्वंस के समय वे रामलला को गोद में लेकर भागे थे।

### भाजपा ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) चुप सहित पार्टी की प्रदेश इकाई के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।

बैठक में दिल्ली विधानसभा की 22 सीटों पर मिली हार के कारणों पर चर्चा हुई।

## नरेश मीणा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

जयपुर, 12 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने देवली-उनियारा विधानसभा उप चुनाव के मतदान के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा और एसडीएम के बीच मारपीट के बाद समरावता में हुए उपद्रव के मामले में नरेश मीणा की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी नरेश मीणा को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता महेश शर्मा और हर्षिता ने अदालत को बताया कि स्थानीय गांव वाले तहसील मुख्यालय बदलने के लिए कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने मतदान का बहिष्कार भी किया था।

इस दौरान एसडीएम उनसे जबर्न वोट डलवा रहे थे। इस कारण नरेश मीणा की एसडीएम से धक्का-मुक्की भी हुई, पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी बताया गया कि पुलिस ने मामले में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास को लेकर आरोप पत्र पेश किया है। जबकि न तो उसके पास से कोई हथियार मिला और न ही किसी को प्राण घातक चोट आई। इस घटना के बाद उसके खिलाफ राजनीतिक द्रेष से एक के बाद एक आधा दर्जन मामले दर्ज किए गए। याचिका में कहा गया कि घटना को लेकर नामजद लोगों को पूर्व में जमानत मिल चुकी है। इनमें से कई आरोपियों को तो अग्रिम जमानत का लाभ दिया जा चुका है।

तथापि, हाल के महीनों में, कंज्यूमर ग्राइस इन्फ्लेशन डेटा के आंकड़ों के आधार पर, रिजर्व बैंक मानता है कि कीमतों में अगले कुछ महीनों में नरमी का रुझान दिखेगा। आर.बी.आई. के बयान में कहा गया कि, "सामान्य मानसून की उम्मीद करते

## रिजर्व बैंक को आशा है कि महंगाई...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ताकि इन उत्पादों को खेत से टेबल तक सही तरीके से पहुँचाया जा सके। ये भौतिक कारक उत्पादों की कीमतों पर असर डालेंगे।

हाल ही में, हमने यह भी देखा है कि सदी के महीनों में भी फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि पहले इन महीनों में इनकी कीमतें घट जाती थीं। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से कुछ आंकड़े उद्धृत किए हैं, जिसमें जनवरी 2025 में टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में महीने दर महीने सुधार दिखाया गया। हालांकि, इन सीमित आंकड़ों के आधार पर यह मानना कि खाद्य कीमतें स्थिर रहेंगी, शायद उचित नहीं होगा।

अन्य कीमतें अधिक जटिल हैं। कई वस्तुओं, जिसमें तेल की कीमतें भी शामिल हैं, की बुनियादी कीमतें अब वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति में अधिक अस्थिर हैं। जनवरी में भारत में कच्चे तेल की कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल थी, पिछले दिसंबर की तुलना में यह लगभग 10 प्रतिशत बढ़ी है। यूक्रेन, गाजा, इजरायल और मध्य पूर्व में स्थिति को देखते हुए, यह उम्मीद करना अवास्तविक हो सकता है कि तेल और ऊर्जा की कीमतें मध्यकाल (मीडियम टर्म) में स्थिर रहेंगी।

तथापि, हाल के महीनों में, कंज्यूमर ग्राइस इन्फ्लेशन डेटा के आंकड़ों के आधार पर, रिजर्व बैंक मानता है कि कीमतों में अगले कुछ महीनों में नरमी का रुझान दिखेगा। आर.बी.आई. के बयान में कहा गया कि, "सामान्य मानसून की उम्मीद करते

हुए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन 4.2 प्रतिशत अनुमानित है, जिसमें प्रथम तिमाही में 4.5, दूसरी तिमाही में 4.0, तीसरी तिमाही में 3.8, और चौथी में 4.2 प्रतिशत का अनुमान है।

विकास की संभावना के बारे में, रिजर्व बैंक का कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन मजबूत रहेगा। उसने यह भी बताया कि क्षमता उपयोग (कैपैसिटी यूटिलाइजेशन) दर 75 प्रतिशत के करीब बनी हुई है, जबकि आमतौर पर यह 73 प्रतिशत रहती है। रिजर्व बैंक के औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण में भी उज्ज्वल तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें अगले कुछ महीनों में मांग की स्थितियों में सुधार की संभावना जताई गई है।

हाल ही में जो बात स्पष्ट रूप से गायब रही है, वह है निजी क्षेत्र के निवेश। सरकार की बार-बार अपीलों के बावजूद, निजी क्षेत्र के निवेश कम रहे हैं। निजी क्षेत्र तभी निवेश करेगा जब उसकी क्षमता उपयोग दर (कैपैसिटी यूटिलाइजेशन रेट) उच्च होगी और नई क्षमता निर्माण में निवेश लाभकारी होगा। निजी कंपनियों सिर्फ अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निवेश नहीं करती, सरकार अक्सर ऐसा कर सकती है। केवल मजबूत मांग के समर्थन से ही निजी क्षेत्र से नए निवेश की उम्मीद की जा सकती है।

उपभोक्ता खर्च के अलावा, जो घरेलू मांग को बढ़ाता है, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नए निवेश और अन्य पूंजीगत खर्च भी मांग को बढ़ाते हैं।

केंद्रीय बजट 2025-26 में, केंद्रीय सरकार के पूंजीगत खर्च को सिद्धारमैया ने कहा कि "वर्ष 2017 से टिकट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया था, इसलिए बैंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने केंद्रीय सरकार से किराया बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था। अगर किराया वृद्धि राज्य सरकार के नियंत्रण में होती, तो वे हमें पत्र लिखते, न कि केंद्र को।"

भाजपा नेता मेट्रो किराया वृद्धि पर झूठी खबरें फैला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं, उन्होंने कहा और यह भी कहा कि राज्य और केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें दोनों सरकारों के अधिकारी बोर्ड में शामिल हैं। लेकिन उन्होंने कहा, यह एक स्वतंत्र संस्था है। राज्य सरकार का इस पर पूरा नियंत्रण नहीं है। जैसे भारत में अन्य मेट्रो कॉर्पोरेशंस काम करती हैं, वैसे ही भी मेट्रो रेलवे (ऑपरेशन और मटेनेंस) एक्ट 2002 के तहत काम करता है। कॉर्पोरेशन ने केंद्र को किराया बढ़ाने की अनुमति देने के लिए पत्र

C

M

Y

K

## 'केन्द्रीय सरकार ने रक्षा मंत्रालय के कायदे-कानून ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लॉबीइंग की थी ताकि वह क्षेत्र अडानी को सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बनाने के लिए दिया जा सके।

ब्रिटिश अखबार के अनुसार, गुजरात सरकार ने अप्रैल 2023 में पी.एम.ओ. को पत्र लिखकर इस बारे में रक्षा मंत्रालय से बात करने की अपील की थी।

अखबार का दावा है कि, 21 अप्रैल 2023 को दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशंस, गुजरात के अधिकारियों व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों ने शिरकत की थी।

गार्जियन के अनुसार, सैन्य अधिकारियों ने सोलर पैनल लगाने से सीमा पर टैंकों के संचालन व निगरानी प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता

जताई, तो उन्हें आश्चर्य किया गया कि सोलर पैनल दुश्मन के टैंक मूवमेंट के किसी भी खतरे को कम करने में सहायक होंगे। सोलर पैनल के आकार में बदलाव के अनुरोध को डैवलपर ने अस्वीकार कर दिया।

रिपोर्ट के अनुसार बैठक के अंत में रक्षा मंत्रालय ने पाक सीमा पर एक किलोमीटर के दायरे में सोलर पैनल और विंड टरबाइन लगाने के आपसी सहमति से किए गए निर्णय को स्वीकृति दे दी ताकि इस भूमि को नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके।

अखबार के अनुसार, मोदी सरकार ने मई 2023 को सभी मंत्रालयों को सूचित कर डिफेंस प्रोटोकॉल में हिलाई की पुष्टि की और कहा यह दिशानिर्देश भारत-पाक सीमा पर ही नहीं बल्कि

बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और नेपाल से लगी सीमा पर भी लागू होंगे।

द गार्जियन ने यह भी कहा कि गुजरात सरकार ने पहले खावदा में 230 वर्ग किमी भूमि राज्य-चालित सौर ऊर्जा निगम को लीज पर दी थी। मई 2023 में निगम से यह भूमि गुजरात सरकार को लौटाने के लिए कहा गया था, जो उसने 17 जुलाई 2023 को लौटा दी। जुलाई की शुरुआत में अडानी समूह ने खावदा की भूमि में रुचि दिखाई थी।

नवम्बर में, एक अमेरिकी अभियोग ने अडानी और उनके अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 2020 से 2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर की रिश्त दी थी ताकि लाभकारी सौर ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध हासिल किए जा सकें।

इन् "ग्रैट" सौदों में अधिकांश कथित रूप से अक्षय ऊर्जा से संबंधित थे, जो अडानी के खावदा संयंत्र में उत्पन्न किए जाने थे और राज्य सरकारों को उच्च कीमतों पर बेचे जाने थे।

ऑंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अडानी के खावदा संयंत्र से 7 गीगा वॉट और ऊर्जा खरीदने के लिए सबसे बड़े सौदों में से एक पर पुनः विचार करना शुरू कर दिया है, जबकि फ्रांस की कम्पनी टोटल एनर्जी, जिसने परियोजना में हिस्सेदारी के लिए 444 मिलियन डॉलर का भुगतान किया था, ने समूह में आगे कोई भी निवेश नहीं करने का निर्णय लिया है।

अडानी समूह ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वह सभी "संभव कानूनी उपाय" कर रहा है।

C

M

Y

K


**MARUTI SUZUKI ARENA**

# अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करें!

## खरीदें अपनी मनपसंद कार. पहली 2 EMI<sup>^^</sup> हमारी ओर से!

**स्पेशल ऑफर सिर्फ 2 सप्ताह के लिए वैध**



**SWIFT**



**WAGONR**

**ATTRACTIVE RATE OF INTEREST @ 9.20%**

**EMI STARTING FROM ₹1624 PER LAC**

**3 years 100 000 km WARRANTY\*\***  
EXTENDABLE UPTO 6 YEARS

**विशेष ऑफर**

**SWIFT ₹36 225\* / WAGONR ₹43 430\***



SCAN TO CONNECT TO SHOWROOM NEAR YOU

E-BOOK TODAY AT [WWW.MARUTISUZUKI.COM](http://WWW.MARUTISUZUKI.COM)

For detailed T&C kindly visit your nearest dealers. Offer applicable to all customers of WagonR Lxi MT & Swift Lxi MT variant for personal usage only. \*\*Two EMI's amount shall mean a sum of ₹14,670 & ₹16,865 respectively calculated assuming funding of 80% of the ex-showroom price of WagonR & Swift Lxi MT variant with a tenure of 84 months and 9.3% rate of interest (SBI). Finance at the sole discretion of financier. Offer also available with other financiers on similar terms and on other variants subject to maximum amount as mentioned herein. \*All offers are brought to you by Maruti Suzuki Arena dealers only. Maruti Suzuki reserves the right to withdraw offers at any point in time without any advance notice. Creative visualization. Images shown are for illustration purposes. \*\*3 years or 100 000 km, whichever is earlier. Above offers are valid till 20<sup>th</sup> February, 2025.